



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93।

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2013/पौष 18, 1934

No. 93।

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2013/PAUSA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2013

का.आ. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1335(अ), तारीख 15 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा प्रदेश राज्य के रोहतक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 332.228 कि.मी. से 347.457 कि.मी. (रोहतक-जींद सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (बौद्धिक करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आदेश की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 14 जुलाई, 2012 को "दैनिक भास्कर" और तारीख 13 जुलाई 2012 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुसूचित कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विलिंगों से मुक्त होकर आधिकारिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

प्रतियोगिता सत्र के प्रारम्भ के दिनांक : २०१३-१४ वित्तवर्ष के प्रारम्भ के दिनांक : २०१३-१४ वित्तवर्ष के प्रारम्भ के दिनांक : २०१३-१४

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				52//	1	निजी	कृषि	0	0	0.0000	रघवीर, राजू, सुरजा, जगदीश पुत्रान व मेवा, वेदो, भतेरी, रत्तो पुत्रीयान मुशी पुत्र उदा, फूलपति पत्नी कुलदीप, श्रीमती बीरमती विद्या व बिजेन्द्र, जोगेन्द्र, सुरेन्द्र कुमार पुत्रान व राजबाला पुत्री मेहर सिंह, दलवीर सिंह पुत्र कृष्ण
					2	निजी	कृषि	1	2	0.0556	
					3	निजी	कृषि	4	6	0.2175	3/1 कर्मवीर पुत्र मुन्नी राम उर्फ कवर सिंह, राजेश, सुनील, कृष्ण पुत्रान कर्मवीर, ओम प्रकाश, जयपाल सिंह, चन्दर सिंह, अजाद सिंह पुत्रान घासी, राजपाल, धर्मपाल पुत्रान कपूर सिंह सुबा उर्फ सूबे सिंह पुत्र कपूर सिंह, श्रीमती विद्या पुत्री कपूर सिंह, 3/2 राजपाल, धर्मपाल पुत्रान कपूर सिंह, सुबा उर्फ सूबे सिंह पुत्र कपूर सिंह, श्रीमती विद्या पुत्री कपूर सिंह
					7	निजी	कृषि	0	12	0.0304	रमेश पुत्र व श्रीमती बाला पुत्री दरिया सिंह, श्रीमती मेवा विद्या व ओमप्रकाश, दलवीर, नरेश पुत्रान व श्रीमती विमला देवी पुत्रीयां कमलेश, शीला देवी, सुमन देवी, बीना देवी पुत्रीयां घासी, राजेशराम उर्फ रामजीलाल पुत्र शेर सिंह, राम कवर, रामफल पुत्रान प्रभू, सतवीर सिंह, श्री भगवान, कर्मवीर पुत्रान नन्दराम, श्रीमती धरमो, छन्नो, रामदे पुत्रीयां व नन्दराम पुत्र जयराम, श्रीमती खजानी विद्या व करमपति, पिंकी, बबीता पुत्रीयां व रोहताश, जय भगवान, हरभगवान, महावीर, धर्मवीर पुत्रान चन्दराम, श्रीमती ओमपति, फूलपति पुत्रीयां व कृष्ण, सतवीर पुत्रान श्रीमती परमेश्वरी पुत्री जयराम, कृष्ण पुत्र रामकवार मालिक कब्जा मुकेश, राजेश, सोनू पुत्रान श्रीमती सन्तो पुत्री शेर सिंह
					8	निजी	कृषि	3	17	0.1948	8/1/1 राजपाल, धर्मपाल पुत्रान कपूर सिंह, सुबा उर्फ सूबे सिंह पुत्र कपूर सिंह 8/1/2 ओम प्रकाश, जयपाल, चन्दर सिंह, अजाद सिंह पुत्रान घासी, 8/1/3 कर्मवीर पुत्र मुन्नी राम उर्फ कवर सिंह, राजेश, सुनील, कृष्ण पुत्रान कर्मवीर, मुन्नीराम उर्फ कवर सिंह, 8/2 कर्मवीर पुत्र मुन्नी राम उर्फ कवर सिंह, राजेश, सुनील, कृष्ण पुत्रान कर्मवीर, ओम प्रकाश, जयपाल सिंह, चन्दर सिंह, अजाद सिंह पुत्रान घासी, राजपाल, धर्मपाल पुत्रान कपूर सिंह सुबा उर्फ सूबे सिंह पुत्र कपूर सिंह, श्रीमती विद्या पुत्री कपूर सिंह
					9	निजी	कृषि	1	0	0.0506	कर्मवीर सिंह पुत्र मुन्नी राम उर्फ कवर सिंह, राजेश, सुनील, किशन पुत्रान कर्मवीर
					13/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	रमेश पुत्र व श्रीमती बाला पुत्री दरिया सिंह, श्रीमती मेवा विद्या व ओमप्रकाश, दलवीर, नरेश पुत्रान व श्रीमती विमला देवी पुत्रीयां कमलेश, शीला देवी, सुमन देवी, बीना देवी पुत्रीयां घासी, राजेशराम उर्फ रामजीलाल पुत्र शेर सिंह, राम कवर, रामफल पुत्रान प्रभू, सतवीर सिंह, श्री भगवान, कर्मवीर पुत्रान नन्दराम, श्रीमती धरमो, छन्नो, रामदे पुत्रीयां व नन्दराम पुत्र जयराम, श्रीमती खजानी विद्या व करमपति, पिंकी, बबीता पुत्रीयां व रोहताश, जय भगवान, हरभगवान, महावीर, धर्मवीर पुत्रान चन्दराम, श्रीमती ओमपति, फूलपति पुत्रीयां व कृष्ण, सतवीर पुत्रान श्रीमती परमेश्वरी पुत्री जयराम, कृष्ण पुत्र रामकवार मालिक कब्जा मुकेश, राजेश, सोनू पुत्रान श्रीमती सन्तो पुत्री शेर सिंह
					13/2	निजी	कृषि	0	6	0.0152	
					13/3	निजी	कृषि	0	5	0.0126	
					13/4	निजी	कृषि	0	8	0.0202	
					14/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	
					14/2	निजी	कृषि	0	7	0.0177	
					14/3	निजी	कृषि	3	13	0.1846	
					16	निजी	कृषि	1	7	0.0683	श्रीमती धरमो विद्या व श्रीमती कृष्णा, दर्शना, इन्द्रायती, निमला, शकुन्तला पुत्रीयां व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान भले सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				17	निजी	कृषि	3	2	0.1568	17/1 श्रीमती धरमो विद्या व श्रीमती कृष्णा, दर्शना, इन्द्रावती, निमला, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह, 17/2 श्रीमती ओमपति विद्या अनिल कुमार, श्रीमती धरमो विद्या व श्रीमती कृष्णा, दर्शना, इन्द्रावती, निमला, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह, सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर, जलबीर सिंह, जगबीर सिंह, जयबीर सिंह पुत्रान सुखबीर सिंह
				18/1	निजी	कृषि	0	2	0.0051	रमेश पुत्र व श्रीमती बाला पुत्री दरिया सिंह, श्रीमती मेधा विद्या व ओमप्रकाश, दलवीर, नरेश पुत्रान व श्रीमती विमला देवी पुत्रीया कमलेश, शीला देवी, सुमन देवी, बीना देवी पुत्रीया चात्ती, राजेश्वर उर्फ रामजीलाल पुत्र शेर सिंह, राम कदर, रामफल पुत्रान प्रभू, सतवीर सिंह, श्री भगवान, कर्मवीर पुत्रान नन्दराम, श्रीमती धरमो, छम्भो, रामदे पुत्रीया व नन्दराम पुत्र जयराम, श्रीमती खजुरी विद्या व करमपति, पिंकी, बबीता पुत्रीया व रमेशलाल, जय भगवान, हरभगवान, मन्मथीर, कर्मवीर पुत्रान चन्द्रराम, श्रीमती ओमपति, कृष्णपति पुत्रीया व कृष्ण, सतवीर पुत्रान श्रीमती पद्मेश्वरी पुत्री जयराम, कृष्ण पुत्र रामकदर मातृक कल्याण नुक्केश, राजेश, सोनू पुत्रान श्रीमती सन्तो पुत्री शेर सिंह
				18/2	निजी	कृषि	0	6	0.0152	
				18/3	निजी	कृषि	0	12	0.0304	
				987	पंचायत	रास्ता	0	2	0.0051	विम. पंचायत
				24	निजी	कृषि	0	18	0.0455	कर्मवीर सिंह पुत्र कल्याण
				25	निजी	कृषि	4	1	0.2049	25/1 श्रीमती जयमती पत्नी जयनर कुमार, श्रीमती धरमो विद्या व श्रीमती कृष्णा, दर्शना, इन्द्रावती, निमला, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह, सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर, जलबीर सिंह, जगबीर सिंह, जयबीर सिंह पुत्रान सुखबीर सिंह 25/2 श्रीमती चम्पक विद्या व श्रीमती कृष्णा, कर्मवीर, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह
			61/1	5/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	बलराम पुत्र जयकर्म
				5/2	निजी	कृषि	1	12	0.0809	चम्पवान, राम कदर पुत्रान मेहर सिंह, कर्म पुत्र बंभनी
				6 मे. न	निजी	कृषि	0	14	0.0354	6/1-रामादिकरण, राजलाल, कल्याण, कल्याण पुत्रान जयकर्म 6/2-राजलाल पुत्र जयकर्म
			62/1	1	निजी	कृषि	2	6	0.1163	कल्याण, राजलाल पुत्रान जयकर्म, कर्म पुत्र जयकर्म
				5	निजी	कृषि	0	5	0.0126	कल्याण पुत्र कल्याण, श्रीमती चम्पक विद्या व श्रीमती कृष्णा, दर्शना, इन्द्रावती, निमला, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह, सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर, जलबीर सिंह, जगबीर सिंह, जयबीर सिंह पुत्रान सुखबीर सिंह 5/1 श्रीमती जयमती पत्नी जयनर कुमार, श्रीमती धरमो विद्या व श्रीमती कृष्णा, दर्शना, इन्द्रावती, निमला, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह, सुनील कुमार पुत्र धर्मवीर, जलबीर सिंह, जगबीर सिंह, जयबीर सिंह पुत्रान सुखबीर सिंह 5/2 श्रीमती चम्पक विद्या व श्रीमती कृष्णा, कर्मवीर, शकुन्तला पुत्रीया व ईश्वर, कर्ण सिंह, रमेश कुमार, सुभाष चन्द्र पुत्रान नन्दलाल, जिले सिंह, भीम सिंह, रणधीर सिंह पुत्रान मले सिंह
				1	निजी	कृषि	4	4	0.2125	
				1	निजी	कृषि	1	6	0.0658	11/1 सत्य कर्म पुत्र जयकर्म, 11/2 राम किरान, तारा चन्द, बलवान, बलजीत पुत्रान जय कर्म, 11/3 सत्य किरान पुत्र जय कर्म

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12	निजी	कृषि	4 4	0.2125 दधीला पुत्र सक्का, श्रीमती धरमो विद्या व मौना पुत्री व सोमू, संजीव पुत्रान रामफल, सत्यवान, सुरजमान, रमेश चन्द्र पुत्र जागे राम, श्रीमती प्रेमवती विद्या व विजय कुमार, राजेन्द्र पुत्र मीजी, श्रीमती कमला पत्नी राम कमलार, श्रीमती प्रभा देवी पत्नी सत्तलाल, श्रीमती चन्द्रपति पत्नी भाग सिंह, श्रीमती सरजो देवी पत्नी राजमल, मूर्ती देवी पत्नी मारत सिंह, भमती सावित्री देवी पत्नी इन्दर सिंह संतोष पत्नी बसबीर, राधे श्याम पुत्र जागर
				18	निजी	कृषि	0 18	0.0455 श्रीमती सरजो आदि मुनवरका खेबट नं० 553 खानाकारत, राजेन्द्र, राजबीर, धर्मवीर सिंह, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह, श्रीमती मूला, श्रीमती काप्ता, सीला देवी, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, श्रीमती खजानी हिस्सेदारान
				19	निजी	कृषि	3 12	0.1821
				20	निजी	कृषि	1 0	0.0506 श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सत्यराम पुत्रान मंगेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान सत्तलाल, रामफल, रामफल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतु, श्रीमती मरपाई, कोकन, कमपति पुत्रियां भागा, मोक्ष विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोक्षिका पुत्री शिव सिंह, रामेश्वर, सुरेन्द्र सिंह, सनुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामचक्रप, रामचक्रप पुत्र भागा, ताराचन्द्र, रनबीर सिंह, पुत्रान मोती, श्रीमती मूर्ती विद्या व कुलदीप, कृष्णा, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, सत्य पुत्र रन सिंह, संदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान सत्य, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, विजेन्द्र, बलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर उर्फ नठनू, राजेन्द्र, राजबीर, धर्मवीर सिंह पुत्रान जयनर, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान राम सिंह व अन्य
				22	निजी	कृषि	1 0	0.0506
				23	निजी	कृषि	4 14	0.2378 23/1 श्रीमती सरजो आदि मुनवरका खेबट नं० 553 खानाकारत, राजेन्द्र, राजबीर, धर्मवीर सिंह, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह, श्रीमती मूला, श्रीमती काप्ता, सीला देवी, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, श्रीमती खजानी हिस्सेदारान
				74/1 20	निजी	कृषि	0 16	0.0405 श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सत्यराम पुत्रान मंगेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान सत्तलाल, रामफल, रामफल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतु, श्रीमती मरपाई, कोकन, कमपति पुत्रियां भागा, मोक्ष विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोक्षिका पुत्री शिव सिंह, रामेश्वर, सुरेन्द्र सिंह, सनुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामचक्रप, रामचक्रप पुत्र भागा, ताराचन्द्र, रनबीर सिंह, पुत्रान मोती, श्रीमती मूर्ती विद्या व कुलदीप, कृष्णा, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, सत्य पुत्र रन सिंह, संदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान सत्य, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, विजेन्द्र, बलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर उर्फ नठनू, राजेन्द्र, राजबीर, धर्मवीर सिंह पुत्रान जयनर, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान राम सिंह व अन्य
				21	निजी	कृषि	4	0.2049 राजमल, नठनू, कलौराम, कलार पुत्रान मोला, भागू राम पुत्र नठनू, सोभा चन्द्र, कमलेश, ताराचन्द्र पुत्र लती राम उर्फ लखन पुत्र रमेशराम
				75H 998	पंचायत	रास्ता	0 2	0.0051 ग्राम पंचायत
				2/1	सरकारी	माला	0 0	0.0000 प्रोविन्सियल सरकार
				3/1/1	सरकारी	माला	0 5	0.0126 प्रोविन्सियल सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				3/1/2	निजी	कृषि	0	12	0.0304	श्रीमती भानमती विधवा व देवेन्द्र, राजेन्द्र, हरजान, रामबीर, रमेश, प्रमोद, पुत्रान व श्रीमती बिमला, दर्शना, संतोष पुत्रीया रणधीर सिंह, धर्मवीर सिंह, दया सिंह पुत्रान शेर सिंह
				3/2/1	सरकारी	नाला	1	2	0.0556	प्रविनसियल सरकार
				3/2/2	निजी	कृषि	1	2	0.0556	श्रीमती सरजी आदि मुनदराजा खेवट नं० 553 खानाकाशत, राजेन्द्र, राजबीर, धर्मवीर सिंह, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह, श्रीमती फूला, श्रीमती कान्हा, सोला देवी, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरन्त सिंह, श्रीमती खजानी हिस्सेदारान
				4/1	सरकारी	नाला	0	2	0.0051	प्रविनसियल सरकार
				4/2	निजी	कृषि	2	5	0.1138	श्रीमती सरजी विधवा व रामनारायन, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायन, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान सतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रिया भाना, मोना विधवा व प्रमोद, नदीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना आदि मुनदराज खेवट नं० 553 खानाकाशत, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती हिस्सेदारान
				6	निजी	कृषि	0	4	0.0101	प्रदीप, जयवीर सिंह पुत्रान गोधाराम, बनवारी, रामफल, रणधीर सिंह पुत्रान बेगन, अमरदीप पुत्र रनवीर सिंह, छत्र, देवी पुत्रान काला जसबीर, जगवीर पुत्रान देवीराम ईश्वर सिंह पुत्र छत्र, महावीर, जिले पुत्र ताजू, धूपा, मेडा पुत्रान जय कर्ण, जय कर्ण, शोभा, राममेहर, ताराचन्द पुत्रान लिजया, राजमल पुत्र भोला, करतार पुत्र भोला
				7	निजी	कृषि	4	4	0.2125	
				8	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				14	निजी	कृषि	1	0	0.0306	
				15	निजी	कृषि	4	9	0.2213	श्रीमती सरजी विधवा व रामनारायन, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायन, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान सतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रिया भाना, मोना विधवा व प्रमोद, नदीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना आदि मुनदराज खेवट नं० 553
				16	निजी	कृषि	3	15	0.1897	
				17	निजी	कृषि	1	0	0.0506	प्रदीप, जयवीर सिंह पुत्रान गोधा राम, बनवारी, रामफल, रणधीर सिंह पुत्रान बेगन, अमरदीप पुत्र रनवीर सिंह, छत्र, देवी पुत्रान काला जसबीर, जगवीर पुत्रान देवीराम ईश्वर सिंह पुत्र छत्र, महावीर, जिले पुत्र ताजू, धूपा, मेडा पुत्रान जय कर्ण, जय कर्ण, शोभा, राममेहर, ताराचन्द पुत्रान लिजया, राजमल पुत्र भोला, करतार पुत्र भोला
				25	निजी	कृषि	0	19	0.0481	
				315	पंचायत	पानी की नाली	0	3	0.0076	गाम पंचायत
			90//	5	निजी	कृषि	0	2	0.0051	श्रीमती सरजी विधवा व रामनारायन, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायन, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान सतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रिया भाना, मोना विधवा व प्रमोद, नदीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना आदि मुनदराज खेवट नं० 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				91//	1/1	निजी	कृषि	0 17 0.0430	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सत्तराम पुत्रान मांगेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरत, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रियां भाभा, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाभा आदि मुनदराज खेवट नं० 553
					1/2	निजी	कृषि	2 12 0.1315	राजमल, नहन, कलीराम, करतार पुत्रान व खजानी हरदेई श्रेया भतेरी शांति पुत्रीयां मोला, होमा चन्द, राममेहर, ताराचन्द पुत्रान लजेराम उर्फ लजवा
					2	निजी	कृषि	1 14 0.0860	
					8	निजी	कृषि	0 2 0.0051	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सत्तराम पुत्रान मांगेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरत, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रियां भाभा, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाभा आदि मुनदराज खेवट नं० 553
					9/1	निजी	कृषि	1 7 0.0683	राजमल, नहन, कलीराम, करतार पुत्रान व खजानी हरदेई श्रेया भतेरी शांति पुत्रीयां मोला, होमा चन्द, राममेहर, ताराचन्द पुत्रान लजेराम उर्फ लजवा
					9/2	निजी	कृषि	3 3 0.1593	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सत्तराम पुत्रान मांगेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरत, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रियां भाभा, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाभा आदि मुनदराज खेवट नं० 553
					10/1	निजी	कृषि	0 17 0.0430	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सत्तराम पुत्रान मांगेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरत, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रियां भाभा, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पूनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाभा, ताराचन्द, रनबीर सिंह, पुत्रान मोती, श्रीमती मूर्ती विद्या व कुलदीप, कृष्णा, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, साधू पुत्र रन सिंह, संदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, बिजेन्द्र, राजेन्द्र, विजेन्द्र, दलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर उर्फ नहन, राजेन्द्र, राजबीर, धमबीर सिंह पुत्रान जयन्ती, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान राम सिंह व अन्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10/2	निजी	कृषि	0 2	0.0051
								सारथचन्द, रमवीर पुत्रान मोजीराम श्रीमती मूर्ति विधवा व कुलदीप, कृष्ण, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, मोला, जयपाल, महेश्वर पुत्रान भाभा, शिव सिंह, रामवीर सिंह, सन्दीप सिंह, सन्दीप सिंह, सुलतान सिंह, सज्जन सिंह पुत्रान रामचरण, साधू पुत्र रम सिंह, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, विरेन्द्र, बलवीर पुत्रान दयानन्द
				12	निजी	कृषि	0 19	0.0481
								फूल कुमार, अशोक कुमार, नरेश कुमार, पवन कुमार, मनजीत सिंह पुत्रान कलिया राम, मलिकान कब्जा रामवीर सिंह, धर्मचन्द सिंह, सुनील कुमार पुत्रान राज सिंह, राज सिंह पुत्र निहालू
				13/1	निजी	कृषि	2 8	0.1214
								श्रीमती सरजी विधवा व रामनारायण, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अमिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकन, धनपति पत्रिया भाभा, मोना विधवा व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, सन्दीप सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामचरण, रामचरण पुत्र भाभा आदि मुनदराजा खेट नं 553 खानाकाशत, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती हिस्सेदारान
				13/2	निजी	कृषि	2 4	0.1113
								श्रीमती सरजी विधवा व रामनारायण, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अमिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकन, धनपति पत्रिया भाभा, मोना विधवा व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, सन्दीप सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामचरण, रामचरण पुत्र भाभा, सारथचन्द, रमवीर सिंह, पुत्रान मोती, श्रीमती मूर्ति विधवा व कुलदीप, कृष्ण, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, साधू पुत्र रम सिंह, सदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, विजेन्द्र, बलवीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर उर्फ महतू, राजेन्द्र, राजबीर, धर्मवीर सिंह पुत्रान जयन्ती, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्रान राम सिंह व अन्य
				17	निजी	कृषि	0 9	0.0228
								फूल कुमार, अशोक कुमार, नरेश कुमार, पवन कुमार, मनजीत सिंह पुत्रान कलिया राम, मलिकान कब्जा रामवीर सिंह, धर्मचन्द सिंह, सुनील कुमार पुत्रान राज सिंह, राज सिंह पुत्र निहालू
				18	निजी	कृषि	4 0	0.2023
								श्रीमती सरजी आदि मुनदराजा खेट नं 553 खानाकाशत श्रीमती सरजी, रामनारायण, सन्तराम, श्रीमती जिधनी, कृष्ण देवी, भतेरी, बिमला देवी हिस्सेदारान
				19/1	निजी	कृषि	0 8	0.0202
								फूल कुमार, अशोक कुमार, नरेश कुमार, पवन कुमार, मनजीत सिंह पुत्रान कलिया राम, मलिकान कब्जा रामवीर सिंह, धर्मचन्द सिंह, सुनील कुमार पुत्रान राज सिंह, राज सिंह पुत्र निहालू
				19/2	निजी	कृषि	0 12	0.0304
								श्रीमती सरजी आदि मुनदराजा खेट नं 553 खानाकाशत श्रीमती सरजी, रामनारायण, सन्तराम, श्रीमती जिधनी, कृष्ण देवी, भतेरी, बिमला देवी हिस्सेदारान

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				23	निजी	कृषि	1	0	0.0506	गीशाला किल्लाडी व रामफल, रामफल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान बन्धू, मोला, जयपाल, महेंद्र पुत्रान व श्रीमती नरपाई कोकन, धनपति पुत्रीयां भाना मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम, सीमा, मोनिका पुत्रीयां शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह, सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना, ताराचन्द, रमबीर सिंह पुत्रान मोती, श्रीमती भूर्ती विद्या व कुलदीप, किरान, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री राम चन्द, साधू पुत्र रन सिंह, संदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, बलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत सिंह, सतबीर सिंह सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर सिंह उर्फ नहनु, धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, राजबीर सिंह पुत्रान जयन्ती देवा सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह
				24	निजी	कृषि	4	8	0.2226	श्रीमती सरजी विद्या व रामनारायण, सत्तराम पुत्रान भागेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नरयण, सुमित, अभित, दीपक पुत्रान सत्तराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान बन्धू, श्रीमती नरपाई, कोकन, धनपति पुत्रीयां भाना, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीयां शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना, ताराचन्द, रमबीर सिंह, पुत्रान मोती, श्रीमती भूर्ती विद्या व कुलदीप, कृष्णा, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, साधू पुत्र रन सिंह, संदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, विजेन्द्र, बलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर उर्फ नहनु, राजेन्द्र, राजबीर, धनबीर सिंह पुत्रान जयन्ती, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान राम सिंह व अन्य
			102//	1072	पंचायत	सरसा	0	12	0.0994	जन पंचायत
				21	निजी	कृषि	1	3	0.0582	श्रीमती कर्माती विद्या व रामनारायण, श्रीमती सार्वभौमिका व बलवान पुत्र व श्रीमती श्रीमती पुत्री कुल, कर्मा सिंह पुत्र राम चन्द, कर्मा सिंह, रवीर पुत्रान व श्रीमती कर्मा कर्मा पुत्रीयां कुलचन्द, बलबीर सिंह, ईश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती सार्वभौमिका, सत्तराम पुत्रीयां ठेका, कपान, धनबीर, नरेश, नरबीर, रामचन्द्र पुत्र इन्डू व किरान, विमोद पुत्रान व श्रीमती विमोद पुत्री पूरन, श्रीमती सार्वभौमिका पुत्रीयां कर्मा सिंह, श्रीमती हरन सिंह, राज कुमार, नरेश कुमार, सत्तराम पुत्रान व श्रीमती सार्वभौमिका पुत्रीयां कर्मा, राज कुमार पुत्र नरेश, कर्मा, कुल पुत्रान श्रीमती, सत्तराम, विमोद पुत्रान कर्मा, श्रीमती सार्वभौमिका पुत्री सार्वभौमिका
			103//	10/1	निजी	कृषि	0	3	0.0576	साधू रन, सत्तराम पुत्र बलवान रन, सत्तराम पुत्र कर्मा सत्तराम
				सरसा	पंचायत	सरसा	0	15	0.0577	जन पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				10/2	निजी	कृषि	0	7	0.0177	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरत, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रियां भाना, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना आदि मुनदराज खेवट न० 553
				11/1	निजी	कृषि	0	18	0.0455	खानाकाशत, श्रीमती सरजो, राम नारायण, सन्तराम, श्रीमती लिम्बी, कृष्णा देवी, मतेरी, बिमला देवी हिस्सेदारान
				11/2	निजी	कृषि	5	0	0.2529	साधू राम, रोहताश पुत्र धज्जा राम, सतपाल पुत्र
				12/1	निजी	कृषि	0	15	0.0379	जय नारायण
				12/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	नारायण सिंह, रनबीर सिंह, प्रेम सिंह पुत्रान गिरिधारा, देवेन्द्र पुत्र गिरिधारा, श्रीमती मूर्ती देवी विद्या ओम प्रकाश, उर्मिला देवी पत्नी सतवीर सिंह, सुनीता देवी पत्नी राज कुमार, बिमला देवी पत्नी जीता, अनिल कुमार पुत्र भरत सिंह
				17	निजी	कृषि	0	3	0.0076	श्रीमती भागवानी विद्या व दयानन्द, सत्यवान पुत्रान व श्रीमती लक्ष्मी, शान्ती, राजकला, संतोष पुत्रीयां दरिया आजाद सिंह पुत्र जुगती राम, चन्द राम, गोपी पुत्रान रतन व ओमी पुत्री व बलजीत दत्तक पुत्र पृथ्वी, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती संतरा पुत्री पृथ्वी, श्रीमती राम कौर पुत्री नेकी
				18	निजी	कृषि	3	7	0.1695	
				19/1	निजी	कृषि	2	6	0.1163	
				19/2	निजी	कृषि	2	12	0.1315	श्रीमती कान्ता पुत्री रामप्रताप, मालकान कब्जा सन्दीप, विनोद, किशन पुत्रान मस्ताराम, पवन कुमार पुत्र श्योप्रसाद खानाकाशत राम स्वरूप पुत्र श्योकर्ण गैर मेरुसी
				19/3	निजी	कृषि	2	7	0.1189	साधू राम, रोहताश पुत्र धज्जा राम, सतपाल पुत्र
				20	निजी	कृषि	3	1	0.1543	जय नारायण
				22	निजी	कृषि	1	6	0.0658	श्रीमती कान्ता पुत्री रामप्रताप, मालकान कब्जा सन्दीप, विनोद, किशन पुत्रान मस्ताराम, पवन कुमार पुत्र श्योप्रसाद खानाकाशत राम स्वरूप पुत्र श्योकर्ण गैर मेरुसी
				23	निजी	कृषि	5	16	0.2934	श्रीमती भागवानी विद्या व दयानन्द, सत्यवान पुत्रान व श्रीमती लक्ष्मी, शान्ती, राजकला, संतोष पुत्रीयां दरिया आजाद सिंह पुत्र जुगती राम, चन्द राम, गोपी पुत्रान रतन व ओमी पुत्री व बलजीत दत्तक पुत्र पृथ्वी, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती संतरा पुत्री पृथ्वी, श्रीमती राम कौर पुत्री नेकी
				24	निजी	कृषि	7	2	0.3592	
				25	निजी	कृषि	4	4	0.2125	
			104//	3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सन्तराम पुत्रान मागेराम, अनिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरत, श्रीमती भरपाई, कोकान, धनपति पत्रियां भाना, मोना विद्या व प्रमोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीया शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र भाना आदि मुनदराज खेवट न० 553
										खानाकाशत, श्रीमती सरजो, राम नारायण, सन्तराम, श्रीमती लिम्बी, कृष्णा देवी, मतेरी, बिमला देवी हिस्सेदारान

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				4	निजी	कृषि	2	8	0.1214	गीशाला खिलवाड़ी व रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, मोला, जयपाल, महेश पुत्रान व श्रीमती भरपाई कोकोन, धरनपति पुत्रीयां माना मोना विद्या व प्रनोद, नवीन पुत्रान व पुनम, सीमा, मोनिका पुत्रीयां शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह, सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र माना, ताराचन्द, रमबीर सिंह पुत्रान मोती, श्रीमती मूर्ती विद्या व कुलदीप, किरान, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री राम चन्द, साधू पुत्र रम सिंह, सदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, बिरेंद्र, बलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत सिंह, सतबीर सिंह सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर सिंह उर्फ नहनू, धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, राजबीर सिंह पुत्रान जयन्ती, देवा सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह खानाकारत धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह राजबीर सिंह
				307	पंचायत	पानी की नाली	0	18	0.0455	ग्राम पंचायत
				5	निजी	कृषि	1	3	0.0582	गीशाला खिलवाड़ी व रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, मोला, जयपाल, महेश पुत्रान व श्रीमती भरपाई कोकोन, धरनपति पुत्रीयां माना मोना विद्या व प्रनोद, नवीन पुत्रान व पुनम, सीमा, मोनिका पुत्रीयां शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह, सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र माना, ताराचन्द, रमबीर सिंह पुत्रान मोती, श्रीमती मूर्ती विद्या व कुलदीप, किरान, प्रदीप, पवन पुत्रान व श्रीमती सुनीता पुत्री राम चन्द, साधू पुत्र रम सिंह, सदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, विजेन्द्र, राजेन्द्र, बिरेंद्र, बलबीर पुत्रान दयानन्द, बलजीत सिंह, सतबीर सिंह सतपाल सिंह पुत्रान ईश्वर सिंह उर्फ नहनू, धर्मवीर, राजेन्द्र सिंह, राजबीर सिंह पुत्रान जयन्ती, देवा सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह
				6	निजी	कृषि	5	7	0.2706	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सनाराम पुत्रान मांगेराम, अमिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकोन, धरनपति पुत्रीयां माना, मोना विद्या व प्रनोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीयां शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र माना आदि मुनदराज खेपट नं० 553 खानाकारत, श्रीमती सरजो, राम नारायण, सनाराम, श्रीमती रिक्की, कृष्णा देवी, नतरी, विमला देवी हिस्सेदारान
				7	निजी	कृषि	0	10	0.0253	श्रीमती सरजो विद्या व रामनारायण, सनाराम पुत्रान मांगेराम, अमिल, सुनील पुत्रान राम नारायण, सुमित, अमित, दीपक पुत्रान संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान भरतू, श्रीमती भरपाई, कोकोन, धरनपति पुत्रीयां माना, मोना विद्या व प्रनोद, नवीन पुत्रान व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीयां शिव सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र माना आदि मुनदराज खेपट नं० 553 खानाकारत, श्रीमती सरजो, राम नारायण, सनाराम, श्रीमती रिक्की, कृष्णा देवी, नतरी, विमला देवी हिस्सेदारान
				15/1	पंचायत	हस्पताल	0	0	0.0000	ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				15/2	निजी	कृषि	2	8	0.1214	श्रीमती सरपंच विद्या व रामनारायण, रामाराम पुत्रान्न भागवत, अमिल, सुनील पुत्रान्न राम नारायण, सुमित, अमिता, दीपक पुत्रान्न संतराम, रामफल, रामपाल, राजमल, भगत सिंह, मोती राजपाल पुत्रान्न भरत, श्रीमती भरपाई, कोकन, धनपति परिव्यां माना, मोना विद्या व प्रमोद, मदीन पुत्रान्न व पुनम सीमा मोनिका पुत्रीया विद्या सिंह, रामेश्वर, सुन्दर सिंह, समुन्दर सिंह, बलवान सिंह सज्जन सिंह पुत्रान्न रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र माना, ताराचन्द, रनबीर सिंह, पुत्रान्न मोती, श्रीमती मूर्ती विद्या व कुलदीप, कृष्णा, प्रदीप, पवन पुत्रान्न व श्रीमती सुनीता पुत्री रामचन्द्र, साधू पुत्र रन सिंह, संदीप कुमार, सुनील कुमार पुत्रान्न साधू, सुरेन्द्र, नरेन्द्र, बिजेन्द्र, राजेन्द्र, बिजेन्द्र, दलबीर पुत्रान्न दयानन्द, बलजीत, सतबीर, सतपाल सिंह पुत्रान्न ईश्वर उर्फ नहनू, राजेन्द्र, राजबीर, धमबीर सिंह पुत्रान्न जयन्ती, देव सिंह, देवेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान्न राम सिंह व अन्य
			122//	4	निजी	कृषि	1	10	0.0759	श्रीमती भागवती विद्या व दयानन्द, सत्यवान पुत्रान्न व श्रीमती लक्ष्मी, शान्ती, राजकला, संतोष पुत्रीया विद्या आजाद सिंह पुत्र जुगती राम, चन्द राम, मोक्षी पुत्रान्न रतन व ओमी पुत्री व बलजीत बलराम पुत्र पुष्पी, अशोक कुमार पुत्र श्रीमती संतरा पुत्री पुष्पी, श्रीमती राम खैर पुत्री नेकी
				5	निजी	कृषि	4	7	0.2200	श्रीमती पार्वती विद्या भगवाना, श्रीमती सन्तोषी विद्या व बलवान पुत्र व श्रीमती ओमपति पुत्री सूर्य, कर्ण सिंह पुत्र रूप चन्द, बनी सिंह, वजीर पुत्रान्न व श्रीमती चन्द्रा पुत्रीया फूलचन्द, बलवीर सिंह, ईश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान्न व श्रीमती चन्द्रा पुत्रीया टोका, कप्तान, जयदीप, नरेन्द्र, राजेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र प्रभू व किरान, विजेन्द्र पुत्रान्न व श्रीमती विजया पुत्री पूरन, श्रीमती चन्द्रा पुत्री हरी सिंह, प्रदीप पुत्री हरल सिंह, राज कुमार, नरेन्द्र कुमार टोका, सज्जन पुत्रान्न व श्रीमती जयपति पुत्री पुष्पा भरत, राज कुमार पुत्र भरत, धनवीर, सुरेश पुत्रान्न मोक्षीराम, बलराज, बिजेन्द्र पुत्रान्न खेम चन्द, श्रीमती सज्जति पुत्री रामधारी
			123//	1	निजी	कृषि	6	16	0.3440	श्रीमती पार्वती विद्या भगवाना, श्रीमती सन्तोषी विद्या व बलवान पुत्र व श्रीमती ओमपति पुत्री सूर्य, कर्ण सिंह पुत्र रूप चन्द, बनी सिंह, वजीर पुत्रान्न व श्रीमती चन्द्रा पुत्रीया शान्ति पुत्रीया फूलचन्द, बलवीर सिंह, ईश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान्न व श्रीमती चन्द्रा पुत्रीया टोका, कप्तान, जयदीप, नरेन्द्र, राजेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र प्रभू व किरान, विजेन्द्र पुत्रान्न व श्रीमती विजया पुत्री पूरन, श्रीमती चन्द्रा पुत्री हरी सिंह, प्रदीप पुत्री हरल सिंह, राज कुमार, नरेन्द्र कुमार टोका, सज्जन पुत्रान्न व श्रीमती जयपति पुत्री पुष्पा भरत, राज कुमार पुत्र भरत, धनवीर, सुरेश पुत्रान्न मोक्षीराम, बलराज, बिजेन्द्र पुत्रान्न खेम चन्द, श्रीमती सज्जति पुत्री रामधारी
				2	निजी	कृषि	7	4	0.3642	सुरजान्न पुत्र जयचरण
				31/2	निजी	कृषि	4	10	0.2276	3/1 रामचन्द्र पुत्र नन्द सिंह, सुरजान्न, हजारी पुत्रान्न जयचरण, श्रीमती चन्द्रा पुत्रीया विद्या जीत सिंह पुत्र रूप सिंह, श्रीमती चन्द्रा पुत्रीया कर्ण सिंह, विजेन्द्र, रमेश, नरेश पुत्रान्न जीत सिंह, राजेन्द्र यकील, जयभगवान पुत्रान्न कर्ण सिंह 3/2 रामचन्द्र पुत्र भरत सिंह
					निजी	कृषि	2	5	0.1138	रनबीर पुत्र महताब

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				5	निजी	कृषि	0	4	0.0101	कुलवीर, जयपाल, बलवीर पुत्रान भरत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्रान नारायण सिंह, भगत सिंह पुत्र बरदू, सुरे सिंह पुत्र ज्ञानी राम, श्रीमती मुरली देवी विद्या बर्नवाल, श्रीमती ओमपति विद्या व श्रीमती सुनम पुत्री व ज्ञानी पुत्र ज्ञानी सिंह, श्रीमती छाजानी विद्या कर्ण सिंह, ओम प्रकाश, राजू, राजवीर पुत्रान राम किरण, भूषेन्द्र सिंह पुत्र बलजीत सिंह, श्रीमती इन्द्रावती कर्णी ओम प्रकाश, रामप्रसाद पुत्र रामम ओमी पुत्री रामकिशन
				6/1	निजी	कृषि	0	18	0.0455	सोना बन्द पुत्र मोता नारायण कच्चा सुरजनरी, बर्नवीर, पुत्रान सीता राम, श्रीमती बलजी विद्या व गंगाराम, केसी राम, मुगसीलाल, सत्यनारायण, पूर्णचन्द पुत्रान व श्रीमती भोली, राम्मी, पुत्रिया नैकीराम कमलसत जगम नथ, राम किरण पुत्रान तुलसी राम गैर मैरसी
				6/2	निजी	कृषि	6	7	0.3212	
				7	निजी	कृषि	5	17	0.2959	
				संरक्ष	पंचायत	रास्ता	0	14	0.0354	ग्राम पंचायत
				8	निजी	कृषि	3	13	0.1846	श्रीमती पार्वती विद्या भगवान, श्रीमती सन्धी विद्या व बलवान पुत्र व श्रीमती ओमपति पुत्री सुरे, कर्ण सिंह पुत्र लय बन्द, बनी सिंह, वजीर पुत्रान व श्रीमती बन्दी, शान्ति पुत्रीयाँ बलचन्द, बलवीर सिंह, ईश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती बन्धपति, राजबाला पुत्रीयाँ टेका, कप्तान, जगदीश, नरेन्द्र, रमवीर, रामचन्द पुत्र प्रभू व किरण, विनोद पुत्रान व श्रीमती निर्मला पुत्री पुन, श्रीमती बन्धपति पुत्री हरी सिंह, प्रेमो पुत्री हरी सिंह, राज कुमार, नरेश कुमार, देवेन्द्र, सज्जन पुत्रान व श्रीमती जगपति पुत्री पुत्रीया भरदू, राज कुमार पुत्र भरदू, बर्नवीर, सुरेन्द्र पुत्रान मोपीराय, बलराज, विरेन्द्र पुत्रान लैन बन्द, श्रीमती रामपति पुत्री रामबारी
				9	निजी	कृषि	1	4	0.0607	
				15/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह
				15/2	निजी	कृषि	0	17	0.0430	
			124//	9	निजी	कृषि	0	3	0.0076	रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह खानाकारत जय लाल पुत्र शिव लाल गैर मैरसी
				10	निजी	कृषि	3	11	0.1796	10/1 रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह खानाकारत जय लाल पुत्र शिव लाल गैर मैरसी, 10/2 रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह, खानाकारत हरपाल पुत्र जयलाल गैर मैरसी
				11/1	निजी	कृषि	3	2	0.1568	रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह, खानाकारत बेगम पुत्र खड्का गैर मैरसी
				11/2	निजी	कृषि	2	11	0.1290	रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह, खानाकारत बनी, कुन्वान पुत्रान खोली गैर मैरसी
				12/1	निजी	कृषि	1	12	0.0809	रामफल, रामपाल, राजपाल पुत्रान भरत सिंह, खानाकारत हरपाल पुत्र जयलाल गैर मैरसी
				12/2	निजी	कृषि	4	8	0.2226	श्रीमती वाद और विद्या व राजबाला, संतोष, सरोज पुत्रीयाँ व बर्नवीर, बलवीर, दयानन्द, हर मोहिन्द, विनोद, लतीश कुमार पुत्रान दयानन्द, सतपाल पुत्र सन्तू
				सड़क	सरकारी	सड़क	1	7	0.0683	हरिदाया सरकार
				13	निजी	कृषि	0	8	0.0202	मस्ताराम पुत्र भरदू, श्रीमती सुनम, पुत्रान, मोदी पुत्रीया मस्ताराम, श्रीमती कर्मी, बलवीर पुत्रीयाय व श्रीमती कमलेश देवी पत्नी लखन सिंह, श्रीमती ओमपति पुत्री देवदास, ईश्वर सिंह पुत्र जेदुलाल, कृष्ण पुत्र मस्ताराम, विनोद पुत्र मस्ताराम, सन्धीय पुत्र मस्ताराम, बलराज पुत्र दयानन्द, विनोद, उमेश पुत्रान बर्नवीर
				17	निजी	कृषि	0	13	0.0329	
				18	निजी	कृषि	7	17	0.3971	
				19	निजी	कृषि	1	2	0.0809	आजय पुत्र लपला, रामनर पुत्र लपला
				20/1	निजी	कृषि	0	0	0.0000	खानाकारत मूरा पुत्र पुनराम गैर मैरसी

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				23	निजी	कृषि	3	18	0.1973	श्रीमती भानमती विधवा व देवेन्द्र, सफेन्द्र, हरजान, रामवीर, रमेश, प्रमोद, पुत्रान व श्रीमती विमला,
				24	निजी	कृषि	5	15	0.2909	दर्शना, संतोष पुत्रीयां रणवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, दया सिंह पुत्रान शेर सिंह
				25/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	
			130//	10/2	पंचायत	भूड	0	1	0.0025	ग्राम पंचायत, पुराना श्रीराम मन्दिर डायरेक्टर समिति लाखनमाजरा
				11	पंचायत	भूड	3	2	0.1568	388-हरियाणा सरकार
				20/1	पंचायत	भूड	1	14	0.0860	ग्राम पंचायत
				20/2	पंचायत	भूड	0	18	0.0455	पुत्र कुडा
				21	पंचायत	भूड	3	0	0.1518	ग्राम पंचायत, पुराना श्रीराम मन्दिर डायरेक्टर समिति लाखनमाजरा
				21	पंचायत	भूड	5	0	0.2529	
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	5	14	0.2883	328-ग्राम पंचायत (नाला)
			131//	3	निजी	कृषि	0	1	0.0025	मेदा, कर्ण सिंह पुत्रान रिसाला
				4	निजी	कृषि	5	19	0.3010	मेदा, कर्ण सिंह पुत्रान रिसाला
				5	निजी	कृषि	2	16	0.1416	मेदा, कर्ण सिंह पुत्रान रिसाला
				6	निजी	कृषि	4	0	0.2023	मेदा, कर्ण सिंह पुत्रान रिसाला
				7	निजी	कृषि	1	10	0.0759	मेदा, कर्ण सिंह पुत्रान रिसाला
				15	पंचायत	कृषि	5	17	0.2959	ग्राम पंचायत
				16	पंचायत	कृषि	3	16	0.1922	ग्राम पंचायत
				25	पंचायत	कृषि	2	4	0.1113	ग्राम पंचायत
										भूपेन्द्र, इन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती खजानी, भोली, पुत्रीया रतन, श्रीमती सरजी विधवा व जोगिन्द्र, शमशेर, विरेन्द्र पुत्रान छोदुराम, मुंशी पुत्र नाहनू
				6/1	निजी	कृषि	0	16	0.0405	राजीव पुत्र कर्ण सिंह
				15	निजी	कृषि	0	16	0.0405	राजीव पुत्र कर्ण सिंह
				16	निजी	कृषि	0	15	0.0379	बस्ती राम पुत्र भरत सिंह
				25	निजी	कृषि	0	18	0.0455	ठाठ सिंह पुत्र भरत सिंह
			153//	रास्ता	पंचायत	रास्ता	0	10	0.0253	1062-ग्राम पंचायत
				1	निजी	भूड	5	10	0.2782	भूपेन्द्र, इन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती खजानी, भोली, पुत्रीया रतन, श्रीमती सरजी विधवा व जोगिन्द्र, शमशेर, विरेन्द्र पुत्रान छोदुराम, मुंशी पुत्र नाहनू
				10/1	निजी	भूड	2	13	0.1341	रणवीर सिंह, जगदीर सिंह, पुत्रान भीम सिंह, श्रीमती सावित्री विधवा व अमीर, दलवीर पुत्रान व श्रीमती निर्मला, सविता पुत्रीया रामफल, श्रीमती भरपाई विधवा व किताबो, होशियारी, रामरती, साहब कौर, संतोष पुत्रीयां व महेन्द्र, ईश्वर, रामकंथार पुत्रान मनफूल, श्रीमती गुमानों विधवा व श्रीमती ओमली, नाहनी, बाला पुत्रीयां व जयभगवान, रोहताश, आजाद पुत्रान सूबे सिंह, विजेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान व धन्ने पुत्री सूबे पुत्र नारायण सिंह
				10/2	निजी	भूड	3	8	0.1720	लक्ष्मन, नफे सिंह पुत्रान कन्हैया, श्रीमती सुरती विधवा व श्रीमती शीला, सुमन पुत्रीया रघवीर, देवेन्द्र, राजेश पुत्रान रघवीर, सतवीर, सुरजा दयानन्द पुत्र बक्शी, श्रीमती चाद कौर, बेदो पुत्री बक्शी
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	1	3	0.0582	1060-ग्राम पंचायत
				11	निजी	भूड	5	10	0.2782	सजय कुमार पुत्र कृष्ण, श्रीमती सावित्री विधवा व जय सिंह, ईश्वर, देवेन्द्र, अजीत, संदीप पुत्रान व श्रीमती सुमन पुत्री रामफल, श्रीमती ब्रह्मो, श्रीमती मूर्ती पुत्रीया चुन्नी
				20	निजी	भूड	5	10	0.2782	बस्ती राम पुत्र भरत सिंह
				21	निजी	भूड	6	0	0.3035	अमित पुत्र राममहेश, राममहेश पुत्र रामस्वरूप
			158//	1	निजी	कृषि	6	0	0.3035	दयानन्द, दयाचन्द, महेन्द्र, गुलाबसिंह पुत्रान टेका, शेर सिंह पुत्र सावलिया, भन्डारी, बेद सिंह पुत्रान दरिया सिंह
				10/1	निजी	कृषि	1	10	0.0759	
				10/2	निजी	कृषि	4	10	0.2276	श्रीमती फूलपति विधवा व राम, रामधारी, बलवान, सतवीर, कर्मवीर, रामचन्द्र, दलवीर पुत्रान भागा
				11	निजी	कृषि	6	0	0.3035	
				20	निजी	कृषि	5	18	0.2985	दयानन्द, दयाचन्द, महेन्द्र, गुलाबसिंह पुत्रान
				21	निजी	कृषि	5	18	0.2985	टेका, शेर सिंह पुत्र सावलिया, भन्डारी, बेद सिंह पुत्रान दरिया सिंह
			159//	5	निजी	कृषि	1	0	0.0506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6	निजी	कृषि	1 0	0.0506 दयानन्द, दयाचन्द, महेंद्र, गुलाबसिंह पुत्रान टेका, शेर सिंह पुत्र सायलिया, भन्डारी, बेद सिंह पुत्रान दरिया सिंह
				15/1	निजी	कृषि	1 0	0.0506 सुखवीर सिंह पुत्र व श्रीमती सनदोषी पुत्री रिसाला, मेहर सिंह पुत्र व श्रीमती धनो पुत्री भगवाना, श्रीमती सरिया पुत्री जयलाल, गुलाब सिंह पुत्र टेक राम
				16/1	निजी	कृषि	1 2	0.0556 दयानन्द, दयाचन्द, महेंद्र, गुलाबसिंह पुत्रान टेका, शेर सिंह पुत्र सायलिया, भन्डारी, बेद सिंह पुत्रान दरिया सिंह
				25	निजी	कृषि	1 2	0.0556 लुहिया, मांगेराम पुत्रान माडुराम खानाकारत तिजु पुत्र पन्नु, देवी पुत्र काला गैर मरुसी
				1069	पंचायत	रास्ता	0 12	0.0304 ग्राम पंचायत
			178//	5	निजी	कृषि	0 13	0.0329 लुहिया, मांगेराम पुत्रान माडुराम खानाकारत तिजु पुत्र पन्नु, देवी पुत्र काला गैर मरुसी
				6	निजी	कृषि	0 1	0.0025 रूप सिंह पुत्र चंदगी, बलपन्त सिंह पुत्र टेकराम
			179//	1/1	निजी	कृषि	1 13	0.0835 लुहिया, मांगेराम पुत्रान माडुराम खानाकारत तिजु पुत्र पन्नु, देवी पुत्र काला गैर मरुसी
				1/2	निजी	कृषि	4 3	0.2099 रूप सिंह पुत्र चंदगी, बलपन्त सिंह पुत्र टेकराम
				10	निजी	कृषि	7 2	0.3592
				11	निजी	कृषि	6 18	0.3490
				12	निजी	कृषि	0 11	0.0278
					निजी	कृषि	2 8	0.1214 बनी सिंह, रनजीत सिंह पुत्रान व रोशनी, ओमपति, कृष्णा पुत्रीयां सुरत सिंह
					निजी	कृषि	5 6	0.2681
					पंचायत	रास्ता	0 13	0.0329 ग्राम पंचायत
					निजी	कृषि	2 12	0.1315 राजवीर पुत्र दरिया सिंह
					निजी	कृषि	4 8	0.2226
					निजी	कृषि	6 6	0.3187 राजवीर पुत्र दरिया सिंह
					निजी	कृषि	0 4	0.0101
					निजी	कृषि	3 0	0.1518 8/1 कृष्ण पुत्र दरिया सिंह 8/2 दीपक, विजय पुत्रान सत्यवान
					निजी	कृषि	2 6	0.1163 दीपक, विजय पुत्रान सत्यवान
				12/1	निजी	कृषि	0 1	0.0025 अनिल कुमार, सुनील कुमार पुत्रान प्रकाश चन्द, श्रीमती कमला विद्या व विजय पुत्रान जसवन्त सिंह, श्रीमती नहनी विद्या सुरजमान पुत्र रघुवीर
				12/2	निजी	कृषि	0 2	0.0051 श्रीमती रिसालो कोर विद्या व राजेन्द्र सिंह पुत्र हवा सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र हवा सिंह, राजेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान हवा सिंह, रामफल, धर्मपाल, सतनारायण, रमेश पुत्रान लुहिया
				13/1	निजी	कृषि	4 2	0.2074 कृष्ण पुत्र दरिया सिंह
				13/2	निजी	रास्ता	0 3	0.0076 राजवीर, किशन पुत्रान दरिया सिंह
				14/1	निजी	भूड	0 2	0.0051 कृष्ण पुत्र दरिया सिंह
				14/2	निजी	रास्ता	0 1	0.0025 राजवीर, किशन पुत्रान दरिया सिंह
				17	निजी	भूड	4 4	0.2125 जयकर्ण पुत्र मेकीराम, श्रीमती इन्द्रावती, फूली, रतनी, सतवीरो पुत्रीयान व प्रताप, कर्ण सिंह पुत्रान जयकर्ण, ओमप्रकाश, देवा, सत्यवान, सन्देशमान, सत्येन्द्र पुत्रान श्रीमती रामरती पुत्री राजकरण, अनिल कुमार पुत्र रामफल
				18	निजी	कृषि	0 10	0.0253 श्रीमती रिसालो कोर विद्या व राजेन्द्र सिंह पुत्र हवा सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्र हवा सिंह, राजेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान हवा सिंह, रामफल, धर्मपाल, सतनारायण, रमेश पुत्रान लुहिया
				23	निजी	कृषि	0 15	0.0379 जयकर्ण, लीजू पुत्रान पन्नु, छतर पुत्र काला, बेगल पुत्र खड्गा, गोधा राम, बनवारी, रणवीर सिंह, रामफल, रनवीर सिंह पुत्रान बेगन, ईश्वर सिंह पुत्र छत्र, जगवीर, जसवीर पुत्रान देवी राम
				24	निजी	कृषि	3 5	0.1644 राममेहर पुत्र मंगली राम
				25	निजी	कृषि	0 12	0.0304 राममेहर पुत्र मंगली राम
				पंचायत	रास्ता		0 7	0.0177 429-ग्राम पंचायत
				81 4	निजी	कृषि	1 0	0.0506 जयकर्ण, लीजू पुत्रान पन्नु, छतर पुत्र काला, बेगल पुत्र खड्गा, गोधा राम, बनवारी, रणवीर सिंह, रामफल, रनवीर सिंह पुत्रान बेगन, ईश्वर सिंह पुत्र छत्र, जगवीर, जसवीर पुत्रान देवी राम

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				5/1	निजी	रास्ता	0	4	0.0101	दिलबाग सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान बांद सिंह श्रीमती चन्द्र विद्या व श्रीमती संतोष पुत्रीयां व सतवीर, ओमप्रकाश पुत्रान गंगा दत्त
				5/2	निजी	कृषि	3	11	0.1796	अग्नेजी विद्या व सुरेन्द्र पुत्र दिलबाग, धर्मवीर सिंह पुत्र बांद सिंह
				6	निजी	भूड	2	7	0.1189	श्रीमती चन्द्र विद्या व श्रीमती संतोष पुत्री व सतवीर, ओमप्रकाश पुत्रान गंगा दत्त
				1086	पंचायत	रास्ता	0	2	0.0051	ग्राम पंचायत
				7/1	निजी	कृषि	0	18	0.0455	7/1 मिन राजमल, नहनू, कालीराम, करतार पुत्रान भोला, भानू राम पुत्र नहनू, शोभा चन्द, राममेहर, ताराचन्द पुत्र लटो राम उर्फ लटवा पुत्र श्योराम 7/1 मिन राजमल नहनू, कालीराम, करतार पुत्रान भोला भानू राम पुत्रान नहनू, शोभा चन्द रामेहर, ताराचन्द पुत्र लटो राम उर्फ लटवा पुत्र श्योराम खानाकारत प्रभा पुत्र लम्बुजा पुत्र खुशी राम गैर मेरुली
				15	निजी	कृषि	0	12	0.0304	राजमल नहनू, कालीराम, करतार पुत्रान भोला भानू राम पुत्रान नहनू, शोभा चन्द रामेहर, ताराचन्द पुत्र लटो राम उर्फ लटवा पुत्र श्योराम
		204//		10	निजी	भूड	0	11	0.0278	श्रीमती चन्द्र विद्या व श्रीमती संतोष पुत्री व सतवीर, ओमप्रकाश पुत्रान गंगा दत्त
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0	8	0.0202	1080—ग्राम पंचायत
				गौस का कुल क्षेत्रफल			449	18	22.7586	
		(2) चौकी /93	106//	935	पंचायत	रास्ता	0	1	0.0025	ग्राम पंचायत
				15	निजी	कृषि	0	11	0.0278	जयवीर सिंह, जयमगवान पुत्र गुगन
				16/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	श्रीमती चान्दबाई आदि मजकुरान हकदार शामलाल सुबेसिंह, वजीर सिंह, कपूर सिंह, छत्र सिंह पुत्रान किरानलाल
			107//	10	निजी	बंजर—भूमि	0	5	0.0126	10/1 मेसर्स उदय डाईज कौमिकल्स बी.पी.ओ., चौदी बजरिये विकास गुप्ता पुत्र जयप्रकाश
				11/1	निजी	बंजर—भूमि	0	15	0.0379	11/1/2 मेसर्स उदय डाईज कौमिकल्स बी.पी.ओ., चौदी बजरिये विकास गुप्ता पुत्र जयप्रकाश
				11/2	निजी	बंजर—भूमि	2	13	0.1341	मेसर्स भारत उद्योग मण्डल बलवीर सिंह पुत्र रतन सिंह
				19	निजी	कृषि	3	10	0.1771	श्रीमती ओमपती विद्या व रणवीर, जयवीर पुत्रान व श्रीमती राजकली, सुदेश, मीना, गीता, रानी पुत्रीयान भीमा, श्रीमती भरपाई विद्या व श्रीमती किताबी, रामरती, होशयारी, शोभा देवी, संतोष देवी पुत्रीयान व महेंद्र, ईश्वर सिंह, राज कुमार पुत्रान मनफूल, श्रीमती सावित्री विद्या व अमीर, दलवीर पुत्रान व श्रीमती निर्मला, सखिता पुत्रीयान रामफल
				20	निजी	कृषि	1	1	0.0531	सुबेसिंह, वजीर सिंह, कपूर सिंह पुत्रान किरानलाल, विजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान छत्र सिंह
				21	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				22	निजी	कृषि	3	8	0.1720	श्रीमती ओमपती विद्या व रणवीर, जयवीर पुत्रान व श्रीमती राजकली, सुदेश, मीना, गीता, रानी पुत्रीयान भीमा, श्रीमती भरपाई विद्या व श्रीमती किताबी, रामरती, होशयारी, शोभा देवी, संतोष देवी पुत्रीयान व महेंद्र, ईश्वर सिंह, राज कुमार पुत्रान मनफूल, श्रीमती सावित्री विद्या व अमीर, दलवीर पुत्रान व श्रीमती निर्मला, सखिता पुत्रीयान रामफल
				23	निजी	कृषि	0	4	0.0101	
		129//		21/2	निजी	कृषि	0	1	0.0025	बलमल उर्फ बलवन्त पुत्र पूर्ण, श्रीमती फूली, फूलवीर पुत्रीयान पूर्ण, श्रीमती राजो विद्या व जगमूल पुत्र व श्रीमती सुदेश, पुष्पा, सरोज पुत्रीयान मल्ला उर्फ रण सिंह, श्रीमती शक्ति विद्या इन्द्र सिंह
		130//		2	निजी	कृषि	0	18	0.0455	लछमण, रामकवार, रिबीराम, अत्तर सिंह पुत्रान मंगली, सुरेश कुमार, सिकन्दर समुन्द पुत्रान रामचन्द्र, कृष्णा, चतार सिंह, भरत सिंह, राज सिंह, बलराम पुत्रान भाना उर्फ भगवाना
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0	4	0.0101	901—ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3	निजी	कृषि	3 8 0.1720	लछमन, रामकवार, शिवीराम, अतर सिंह पुत्रान मंगली
				900	पंचायत	रास्ता	0 6 0.0152	ग्राम पंचायत
				7/3	निजी	कृषि	0 17 0.0430	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				8/1	निजी	कृषि	0 3 0.0076	लछमन, रामकवार, शिवीराम, अतर सिंह पुत्रान मंगली
				8/2	निजी	कृषि	0 4 0.0101	लछमन, रामकवार, शिवीराम, अतर सिंह पुत्रान मंगली, सुरेश कुमार, सिकन्दर समुद्र पुत्रान रामचन्द्र, कृष्णा, अतर सिंह, भरत सिंह, राज सिंह, बलराम पुत्रान भागा उर्फ भगवाना
				8/3	निजी	कृषि	2 5 0.1138	लछमन, रामकवार, शिवीराम, अतर सिंह पुत्रान मंगली
				9	निजी	कृषि	1 0 0.0506	लछमन, रामकवार, शिवीराम, अतर सिंह पुत्रान मंगली, सुरेश कुमार, सिकन्दर समुद्र पुत्रान रामचन्द्र, कृष्णा, अतर सिंह, भरत सिंह, राज सिंह, बलराम पुत्रान भागा उर्फ भगवाना
				13	निजी	कृषि	1 0 0.0506	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				14	निजी	कृषि	3 5 0.1644	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0 4 0.0101	482-ग्राम पंचायत
				16	निजी	कृषि	3 12 0.1821	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				17	निजी	कृषि	0 17 0.0430	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				18	निजी	कृषि	0 2 0.0051	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी
				24	निजी	कृषि	1 0 0.0506	कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				25	निजी	कृषि	3 6 0.1669	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
				135//	5/1	निजी	1 0 0.0506	महेन्द्र, रोहतास पुत्र रामसिंह
					5/2	निजी	0 17 0.0430	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
					6/1	निजी	0 7 0.0177	महेन्द्र, रोहतास पुत्र रामसिंह
				136//	1/1	निजी	2 3 0.1088	कुलवीर पुत्र कर्ण सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी कुलवीर सिंह, सुरेन्द्र पुत्र कुलवीर
					1/2	निजी	0 10 0.0253	दुर्गादास, ताराचन्द पुत्रान साहबदत्तलाल
					9/2/2	निजी	1 14 0.0860	सीताराम पुत्र रामलाल
					10/1	निजी	0 16 0.0405	दुर्गादास, ताराचन्द पुत्रान साहबदत्तलाल
					10/2	पंचायत	0 9 0.0228	ग्राम पंचायत
					404	पंचायत	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
					378	सरकारी	1 0 0.0506	प्रोविन्सियल सरकार
					11/1	निजी	0 10 0.0253	पुष्पा देवी पुत्री सीताराम पुत्र गणेश
					रास्ता	पंचायत	0 1 0.0025	472-ग्राम पंचायत
					11/2	निजी	0 9 0.0228	पुष्पा देवी पुत्री सीताराम पुत्र गणेश
					12/1	निजी	1 16 0.0911	श्रीमती गौक पत्नी विनेश पुत्र रामजीदास
					12/2	निजी	0 4 0.0101	श्रीमती गौक पत्नी विनेश पुत्र रामजीदास
					12/3	निजी	1 7 0.0683	पुष्पा देवी पुत्री सीताराम पुत्र गणेश
					18/2	निजी	1 10 0.0759	श्रीमती गौक पत्नी विनेश पुत्र रामजीदास
					19	निजी	2 1 0.1037	पुष्पा देवी पुत्री सीताराम पुत्र गणेश
					20	निजी	1 0 0.0506	
					22	निजी	0 18 0.0455	
					23/1	निजी	1 14 0.0860	
					23/2	निजी	1 18 0.0961	हनु पुत्र जुगलाल, सत्यवान पुत्र नरेश सिंह, कृष्ण पुत्र समेश
					925	पंचायत	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
					470	पंचायत	0 4 0.0101	ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				155//	20	निजी	कृषि	1 13 0.0835	बुधोत्तर पुत्र सन्तलाल, चाँद पुत्र न्यावर सिंह, श्रीमती प्रेम पत्नी चान्दराम
					528 मिन	पंचायत	कृषि	1 13 0.0835	ग्राम पंचायत
					400 रास्ता	पंचायत	रास्ता	0 15 0.0379	ग्राम पंचायत
				156//	3	निजी	कृषि	1 0 0.0506	रणवीर सिंह, रघवीर सिंह, करतार सिंह रणवीर सिंह, ईश्वर सिंह पुत्रान सुलतान सिंह
					4	निजी	कृषि	3 16 0.1922	अनिल कुमार, सुनिल कुमार पुत्रान चान्दराम
					5	निजी	कृषि	0 7 0.0177	रणवीर सिंह, रघवीर सिंह, करतार सिंह रणवीर सिंह, ईश्वर सिंह पुत्रान सुलतान सिंह
					7	निजी	कृषि	3 8 0.1720	सुभाषचन्द्र, कृष्णलाल पुत्रान विसनदास
					8	निजी	कृषि	1 0 0.0506	ईश्वर सिंह पुत्र चतर सिंह, जगदीश, बजीर सिंह, कर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान पृथ्वीराज
					14/1	निजी	कृषि	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
					14/2	निजी	कृषि	0 19 0.0481	बुधोत्तर पुत्र सन्तलाल, चाँद पुत्र न्यावर सिंह, श्रीमती प्रेम पत्नी चान्दराम
					928	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051	ईश्वर सिंह पुत्र चतर सिंह, जगदीश, बजीर सिंह, कर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान पृथ्वीराज
					15	निजी	कृषि	3 16 0.1922	श्रीमती प्रेम पत्नी चान्दराम, राजीव पुत्र रामजीदास, बुधोत्तर कुमार पुत्र सन्तलाल, श्रीमती प्रेम विद्या व सुनिता, सुनिला, सुमिला, बबिता, सीमा पुत्रीयान व सुनिल, अनिल पुत्रान चान्दराम
					16	निजी	कृषि	2 18 0.1467	करतार सिंह, दयानन्द, समवीर, सादानन्द, रणवीर सिंह पुत्रान बल सिंह
					17	निजी	कृषि	1 0 0.0506	सुरेश कुमार पुत्र श्यामलाल, बलजीत पुत्र इन्द्र सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र पालेराम, संदीप जैन पुत्र शांतिप्रकाश, श्रीमती विमला पत्नी सुलतान सिंह
				164//	5/1	निजी	कृषि	0 0 0.0000	ग्राम पंचायत
				165//	1	निजी	गैर-कृषि	0 17 0.0430	ग्राम पंचायत
					527	पंचायत	गैर-कृषि	5 5 0.2656	ग्राम पंचायत
					526	पंचायत	गैर-कृषि	2 3 0.1088	ग्राम पंचायत
					8/1	निजी	गैर-कृषि	2 0 0.1012	रामकण पुत्र धारा, देवेन्द्र पुत्र अतर सिंह
					8/2	निजी	कृषि	0 2 0.0051	प्रोविन्शियल सरकार
					10/1	निजी	गैर-कृषि	1 0 0.0506	सुरेश सिंह, हरेश सिंह, देवेन्द्र सिंह, नरेश सिंह मुकेश सिंह पुत्रान हरनारायण, सुरेश कुमार पुत्र श्यामपाल, बलजीत पुत्र इन्द्र सिंह, दिलबाग पुत्र पालेराम, सतीश कुमार, राकेश कुमार जगदीश कुमार पुत्रान भगवानदास, प्रेम सिंह पुत्र हीरा सिंह, दिलबाग सिंह पुत्र फूल सिंह, सन्दीप जैन पुत्र शांति
					10/2	निजी	गैर-कृषि	0 0 0.0000	प्रोविन्शियल सरकार (पी डब्ल्यू डी)
					413	सरकारी	सड़क	0 3 0.0076	प्रोविन्शियल सरकार (पी डब्ल्यू डी)
					12/1	निजी	गैर-कृषि	0 0 0.0000	प्रोविन्शियल सरकार (पी डब्ल्यू डी)
					12/2	निजी	कृषि	0 18 0.0455	श्रीमती सीतावन्ती, पुष्पावन्ती पुत्रीयान गोविन्दराम, दीपक पुत्र दलजीत सिंह, श्रीमती जीवनी विद्या व अनिल, सुनिल पुत्रान व श्रीमती मधु पुत्री अकबल शाह
					412	सरकारी	सड़क	0 13 0.0329	प्रोविन्शियल सरकार (पी डब्ल्यू डी)
					13/1	सरकारी	सड़क	0 2 0.0051	प्रोविन्शियल सरकार (पी डब्ल्यू डी)
					13/2	निजी	कृषि	3 2 0.1568	सुभाषचन्द्र, कृष्णलाल पुत्रान विसनदास
					17	निजी	कृषि	0 5 0.0126	हकदारान शामलाल श्रीमती निर्मला देवी विद्या सतवीर सिंह
					18	निजी	कृषि	2 15 0.1391	कुलदीप कुमार, कपिलदेव, भारतभूषण प्रतापचन्द्र पुत्रान भगवानदास
					19	निजी	कृषि	1 13 0.0835	सुभाषचन्द्र, कृष्णलाल पुत्रान विसनदास
					23	निजी	मकान	2 10 0.1265	हकदारान शामलाल श्रीमती निर्मला देवी विद्या सतवीर सिंह
					24/1	निजी	कृषि	0 13 0.0329	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी महावीर सिंह पुत्र छत्र सिंह, प्रवीण पुत्र सुन्दलाल
					24/2	निजी	कृषि	1 16 0.0911	ग्राम पंचायत
				181//	11	सरकारी	कृषि	1 4 0.0607	ग्राम पंचायत
					19	पंचायत	पानी की नाली	0 1 0.0025	ग्राम पंचायत
					20 मिन	पंचायत	गैर-कृषि	2 7 0.1189	ग्राम पंचायत
					21	पंचायत	कृषि	3 10 0.1771	ग्राम पंचायत
					477	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				22	पंचायत	तालाब	2	0.1214	ग्राम पंचायत	
				182//	3	निजी	कृषि	0	0.0430	फते पुत्र सुभन पुत्र सुभन
					4/1	निजी	कृषि	1	0.0936	
					4/2	निजी	कृषि	1	0.0911	हंसराज पुत्र रामविलास, रणवीर पुत्र लखीराम, बलवान सिंह पुत्र कतर सिंह
				5	पंचायत	कृषि	0	0.0329	ग्राम पंचायत	
				6	पंचायत	कृषि	2	0.1214	ग्राम पंचायत	
				7	निजी	कृषि	2	0.1391	फते पुत्र सुभन पुत्र सुभन	
				14/1	निजी	कृषि	0	0.0051	14 ग्राम पंचायत	
				932	पंचायत	रस्ता	0	0.0101	ग्राम पंचायत	
				15/1	निजी	कृषि	2	0.1214	रामदास, मुरहतन गोपालदास पुत्र हीरामन्द, मुरहतन सीताराम पुत्र व श्रीमती शिवादिती पुत्री रामलाल, धण्डाराम पुत्र नैयाराम, भरपई पुत्री लालचन्द, जयकिशन पुत्र धण्डाराम, श्रीमती गिन्दोली विद्या व जोगिन्द, विरेन्द्र पुत्रान श्रीमती दयावन्ती, कुसुमलता पुत्रीयान बलवीर, श्रीमती संतोष पत्नी कृष्ण	
				15/2	निजी	बजर-कृषि	1	0.0506	ग्राम पंचायत	
				16	पंचायत	कृषि	2	0.1037	ग्राम पंचायत	
				25	निजी	कृषि	0	0.0000	ग्राम पंचायत	
				194//	1	पंचायत	कृषि	2	0.1138	ग्राम पंचायत
				2	पंचायत	तालाब	2	0.1037	ग्राम पंचायत	
				3	पंचायत	तालाब	0	0.0202	ग्राम पंचायत	
				8	पंचायत	कृषि	1	0.0961	ग्राम पंचायत	
				429	पंचायत	पानी की नाली	0	0.0126	ग्राम पंचायत	
				9	पंचायत	कृषि	2	0.1315	ग्राम पंचायत	
				12	पंचायत	कृषि	0	0.0228	ग्राम पंचायत	
				13	सरकारी	कृषि	2	0.1062	ग्राम पंचायत	
				14	पंचायत	कृषि	2	0.1239	ग्राम पंचायत	
				16	पंचायत	कृषि	0	0.0051	ग्राम पंचायत	
				17	पंचायत	कृषि	3	0.1593	ग्राम पंचायत	
				18	सरकारी	कृषि	2	0.1214	ग्राम पंचायत	
				23	निजी	कृषि	0	0.0000	ग्राम पंचायत	
				24	पंचायत	कृषि	1	0.0986	ग्राम पंचायत	
				25	निजी	कृषि	3	0.1821	कृष्ण, विजेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रामकवार	
				206//	468	सरकारी	सड़क	0	0.0304	प्रोविन्शियल सरकार
					1	निजी	कृषि	0	0.0304	रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
					10	निजी	कृषि	3	0.1695	
					496	पंचायत	पानी की नाली	0	0.0126	ग्राम पंचायत
					11/1	निजी	कृषि	0	0.0405	जगवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह
					11/2/1	निजी	कृषि	0	0.0228	रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
					11/2/2	निजी	कृषि	0	0.0278	कृष्ण, विजेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रामकवार
					12/1	निजी	कृषि	0	0.0076	हरीशचन्द्र, जगदीशलाल पुत्रान वजीर चन्द्र
					12/2/1	निजी	कृषि	0	0.0278	हरीशचन्द्र, जगदीशलाल पुत्रान वजीर चन्द्र
					12/2/2	पंचायत	कृषि	1	0.0835	ग्राम पंचायत
					18/2	निजी	कृषि	0	0.0051	रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
					19	निजी	कृषि	3	0.1948	
					20	निजी	कृषि	1	0.0506	राज सिंह पुत्र सरदार सिंह
					22	निजी	कृषि	1	0.0506	राज सिंह पुत्र सरदार सिंह
					23	निजी	कृषि	4	0.2125	रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
				207//	4	निजी	नहर-कृषि	1	0.0658	ग्राम पंचायत
					5	निजी	कृषि	3	0.1619	रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
					6 मिन	निजी	कृषि	1	0.0506	जगवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह
					15	निजी	कृषि	0	0.0025	जगवीर सिंह पुत्र सरदार सिंह
				221//	2 मिन	निजी	कृषि	0	0.0481	2/1 ग्राम पंचायत, 2/2 राजन, दीपक पुत्रान प्रेम सिंह
					3	निजी	कृषि	3	0.1593	पन्धूराम मजकूर आदि, हकदार शामलाल रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
					4/1	निजी	कृषि	0	0.0202	पन्धूराम मजकूर आदि, हकदार शामलाल रामफल पुत्र प्रभु पुत्र मसानिया
					4/2	निजी	कृषि	0	0.0025	रामफल पुत्र प्रभु, श्रीमती बसन्तकौर, राजकुमारी, पुष्पादेवी, लालबा पुत्रीयान व बेदप्रकाश, ओमप्रकाश, राजेन्द्रपाल, रविन्द्रपाल पुत्रान फतेह, कृष्ण, विजेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रामकवार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7	निजी	कृषि	4 2 0.2074	जितेन्द्र सिंह पुत्र रिसाल सिंह, श्रीमती विमला पत्नी जितेन्द्र, जयकिशन पुत्र छोटेलाल, रानी मेमोरियल कैरिटेबल ट्रस्ट 164 आर माडल टाउन रोहतक
				938 दिन	पंचायत	रास्ता	0 2 0.0051	ग्राम पंचायत
				8	निजी	कृषि	0 18 0.0455	श्रीमती मोनिका पत्नी राजन, श्रीमती नीलम पत्नी दीपक
				13	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
				14	निजी	कृषि	2 12 0.1315	जितेन्द्र सिंह पुत्र रिसाल सिंह, श्रीमती विमला पत्नी जितेन्द्र, जयकिशन पुत्र छोटेलाल, रानी मेमोरियल कैरिटेबल ट्रस्ट 164 आर माडल टाउन रोहतक
				15	निजी	कृषि	1 8 0.0708	
				16/1	निजी	कृषि	1 4 0.0607	मेसर्स डायमण्ड फीस फार्म, बौंदी
				16/2 दिन	निजी	कृषि	2 15 0.1391	अराजी मतलका बकाया अलाट
				17	निजी	कृषि	1 0 0.0506	श्रीमती विमला देवी पत्नी प्रेम सिंह, प्रेम सिंह पुत्र मायाराम, राजन, दीपक पुत्रान प्रेम सिंह, बेद सिंह पुत्र सुलतान, श्रीमती नीलम पत्नी दीपक
				24	निजी	कृषि	0 0 0.0000	
				25/1	निजी	कृषि	1 0 0.0506	
				25/2	निजी	कृषि	1 8 0.0708	मेसर्स डायमण्ड फीस फार्म, बौंदी, श्रीमती मायावती विधवा व कृष्ण सिंह, महेश कुमार, कैलाश कुमार, सतीश कुमार पुत्रान व श्रीमती अमीता रघुप पुत्री मदनलाल, श्रीमती रामप्यारी विधवा व शीलावन्ती, लीला कुमारी, उषाकुमारी, मीरा पुत्रीयान हरिकिशन पुत्र हर भगवान
			222//	20/2	निजी	कृषि	0 0 0.0000	मेसर्स डायमण्ड फीस फार्म, बौंदी, श्रीमती मायावती विधवा व कृष्ण सिंह, महेश कुमार, कैलाश कुमार, सतीश कुमार पुत्रान व श्रीमती अमीता रघुप पुत्री मदनलाल, श्रीमती रामप्यारी विधवा व शीलावन्ती, लीला कुमारी, उषाकुमारी, मीरा पुत्रीयान हरिकिशन पुत्र हर भगवान
				21	निजी	कृषि	2 8 0.1214	
			231//	1 दिन	निजी	कृषि	0 10 0.0253	मेसर्स डी-डायमण्ड फीस फार्म श्रीमती मायावती विधवा व कृष्ण कुमार, महेश कुमार, कैलाश कुमार, सतीश कुमार पुत्रान व श्रीमती अमीता रानी पुत्री मदनलाल, श्रीमती रामप्यारी विधवा व शीलावन्ती, लीला कुमारी उषा कुमारी, मीरा पुत्रीयां व हरिकिशन पुत्र हर भगवान
				376	सरकारी	सड़क	4 9 0.2251	प्रोविन्सियल सरकार
				2/2	निजी	कृषि	0 1 0.0025	बेदप्रकाश पुत्र बल्लेराम, श्रीमती कृष्णा पत्नी
				26/1	निजी	कृषि	1 5 0.0632	बेदप्रकाश
				26/2	निजी	कृषि	0 16 0.0405	
				9/2	निजी	कृषि	2 0 0.1012	
				10	निजी	कृषि	0 8 0.0202	महेन्द्र, दिलावर पुत्रान धर्मा, श्रीमती बेदो माता करमीर पुत्र धर्मा
				11	निजी	कृषि	1 0 0.0506	महेन्द्र, दिलावर पुत्रान धर्मा, सतवीर सिंह पुत्र मोहनलाल, श्रीमती बेदो माता करमीर पुत्र धर्मा
				12/1	निजी	कृषि	0 4 0.0101	बेदप्रकाश पुत्र बल्लेराम, श्रीमती कृष्णा पत्नी
				12/2	निजी	कृषि	2 13 0.1341	बेदप्रकाश
				12/3	निजी	कृषि	0 1 0.0025	
				13/2	निजी	कृषि	1 5 0.0632	
				13/3	निजी	कृषि	0 8 0.0202	
				13/4	निजी	कृषि	0 0 0.0000	
				17	निजी	कृषि	2 8 0.1214	टेकराम, वेदपाल, रणवीर पुत्रान मौजी, बलवीर पुत्र दुलीचन्द्र, जगत सिंह, कृष्ण पुत्रान रिछपाल
				18	निजी	कृषि	6 10 0.3288	
				19	निजी	कृषि	2 9 0.1239	महेन्द्र, दिलावर पुत्रान धर्मा, श्रीमती बेदो माता करमीर पुत्र धर्मा
				21	निजी	कृषि	0 0 0.0000	सतवीर सिंह पुत्र दरवाय सिंह
				22/1	निजी	कृषि	0 8 0.0202	
				22/2	निजी	कृषि	5 15 0.2909	महेन्द्र, दिलावर पुत्रान धर्मा, श्रीमती बेदो माता करमीर पुत्र धर्मा
				23	निजी	कृषि	2 5 0.1138	
				24	निजी	कृषि	8 8 0.4249	टेकराम, वेदपाल, रणवीर पुत्रान मौजी, बलवीर पुत्र दुलीचन्द्र, जगत सिंह, कृष्ण पुत्रान रिछपाल
				976	निजी	गैर-कृषि	1 0 0.0506	ग्राम पंचायत
				25	निजी	कृषि	0 3 0.0076	25/1 टेकराम, वेदपाल, रणवीर पुत्रान मौजी, बलवीर पुत्र दुलीचन्द्र, जगत सिंह, कृष्ण पुत्रान रिछपाल, 25/2 अराजी मतलका बकाया अलाट

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				232//	5	निजी	कृषि	0	14	0.0354	राजवीर, रणवीर सिंह, जयवीर सिंह विजयवीर सिंह पुत्रान चान्दगीराम, श्रीमती रणनी विधवा व मोहित पुत्र व श्रीमती मन्जीत पुत्री सतवीर सिंह लक्ष्म दलवीर सिंह
				248//	2/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	रणजीत सिंह, हया सिंह पुत्रान दरिया सिंह
					2/2	निजी	कृषि	1	7	0.0683	चान्दराम, जगदीश, रणवीर पुत्रान हजारी
					3	निजी	कृषि	6	9	0.3263	
					4	निजी	कृषि	5	6	0.2681	टेकराम, वेदपाल, रणवीर पुत्रान मौजी, बलवीर पुत्र दुलीचन्द्र, जगत सिंह, कृष्ण पुत्रान रिछपाल
					5	निजी	कृषि	3	14	0.1872	
					6	निजी	कृषि	7	5	0.3667	टेकराम, वेदपाल, रणवीर पुत्रान मौजी, बलवीर पुत्र दुलीचन्द्र, जगत सिंह, कृष्ण पुत्रान रिछपाल
					7	निजी	कृषि	3	11	0.1796	चान्दराम, जगदीश, रणवीर पुत्रान हजारी
					8	निजी	कृषि	5	0	0.2529	
					13	निजी	कृषि	0	14	0.0354	बलदेव राज पुत्र अर्जुनदास, चान्दराम, जगदीश, रणवीर पुत्रान हजारी
					14/1	निजी	कृषि	4	13	0.2352	
					14/2	निजी	कृषि	3	8	0.1720	बलदेव राज पुत्र अर्जुनदास, करनल सिंह, जयभगवान, दिलबाग, सुरेन्द्र, दिनेश पुत्रान टेकराम, रमेश, राजेश पुत्रान बेदपाल, श्रीमती नीलम विधवा व नेहा, मुस्कान पुत्रीयान मुकेश
					15	निजी	धर्मशाला	4	3	0.2099	राजकुमार दत्तक पुत्र कर्ण सिंह, भवर सिंह, जगदीश, लोलु पुत्रान व श्रीमती भवरी, शकुन्तला, बाला पुत्रीयान श्रीमती शांति पुत्री बागा
					16	निजी	कृषि	5	4	0.2630	रणवीर सिंह, रमेश पुत्रान महा सिंह, राजेन्द्र, जगवीर, जयपाल पुत्रान माईराम, श्रीमती सरती देवी विधवा व धरमवीर, सतवीर, दलवीर, सुरेश कुमार, अनिल कुमार पुत्रान व ओमपती पुत्री जय सिंह, बलराज, दिलबाग, कृष्ण पुत्रान जिले सिंह
					17	निजी	कृषि	3	14	0.1872	बलदेव राज पुत्र अर्जुनदास, करनल सिंह, जयभगवान, दिलबाग, सुरेन्द्र, दिनेश पुत्रान टेकराम, रमेश, राजेश पुत्रान बेदपाल, श्रीमती नीलम विधवा व नेहा, मुस्कान पुत्रीयान मुकेश खानाकाशत अर्जुनदास पुत्र गणेश दास
					24	निजी	कृषि	0	4	0.0101	रणवीर सिंह, रमेश पुत्रान महा सिंह, राजेन्द्र, जगवीर, जयपाल पुत्रान माईराम, श्रीमती सरती देवी विधवा व धरमवीर, सतवीर, दलवीर, सुरेश कुमार, अनिल कुमार पुत्रान व ओमपती पुत्री जय सिंह, बलराज, दिलबाग, कृष्ण पुत्रान जिले सिंह
					25	निजी	कृषि	6	16	0.3440	
				249//	10	निजी	कृषि	0	17	0.0430	राजकुमार दत्तक पुत्र कर्ण सिंह
					11	निजी	कृषि	5	8	0.2732	
					19	निजी	कृषि	1	18	0.0961	रमेश, राजेश पुत्रान बेदपाल, करन सिंह, जयभगवान, दिलबाग, सुरेन्द्र, नरेश, दिनेश पुत्रान टेकराम, श्रीमती नीलम विधवा व नेहा, मुस्कान पुत्रीयान मुकेश
					20	निजी	कृषि	6	18	0.3490	
					21/1	निजी	कृषि	1	18	0.0961	सतवीर, अनिल कुमार पुत्र जय सिंह, श्रीमती सरती देवी विधवा व धरमवीर, दलवीर, सुरेश कुमार, व ओमपती पुत्री जय सिंह, रणवीर सिंह, रमेश पुत्रान महा सिंह
					21/2	निजी	कृषि	2	10	0.1265	बुधीराज पुत्र राखेराम
					22/1	निजी	कृषि	5	8	0.2732	
					22/2	निजी	कृषि	1	2	0.0556	रमेश, राजेश पुत्रान बेदपाल, करन सिंह, जयभगवान, दिलबाग, सुरेन्द्र, नरेश, दिनेश पुत्रान टेकराम, श्रीमती नीलम विधवा व नेहा, मुस्कान पुत्रीयान मुकेश
					23	निजी	कृषि	0	2	0.0051	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				255//	1	निजी	कृषि	6 10 0.3288	ओमप्रकाश, कवरपाल, मान सिंह पुत्रान झन्डू सिंह, श्रीमती सुगन बाई पत्नी रणजीत, आजाद, ऋषि, राजेन्द्र, अशोक पुत्रान शोभा, श्रीमती सावित्री पुत्री कान्हा, वीरपाल, कृष्ण, श्रीपाल पुत्रान नारायण, कर्ण सिंह जयभगवान, दिलबाग, सुरेन्द्र, नरेश, दिनेश पुत्रान टेकराम, रमेश, मुकेश, राजेश पुत्रान बेदपाल, श्रीमती सीता देवी विद्या व यशपाल पुत्र व श्रीमती लक्ष्मी, राखी पुत्रीयान लीलु, बदलु पुत्र कान्हा, श्रीमती ज्ञानदेई विद्या नारायण सिंह, श्रीमती कृष्णा विद्या वेदप्रकाश
				2	निजी	कृषि	5	18	0.2985
				3	निजी	कृषि	3	8	0.1720
				8	निजी	कृषि	4	19	0.2504
									8/1 अतुल जैन व सन्त एच.यू.एफ. बजरिये कर्ता अतुल जैन पुत्र रमेशचन्द 8/2 श्रीमती नारंगी देवी जैन मेमोरियल ट्रस्ट रोहतक बजरिये संस्थापक अतुल जैन पुत्र रमेशचन्द
				9	निजी	कृषि	3	3	0.1593
				10	निजी	कृषि	5	12	0.2833
				11	निजी	कृषि	0	16	0.0405
				12	निजी	कृषि	1	8	0.0708
				13	निजी	कृषि	3	13	0.1846
				14	निजी	कृषि	0	7	0.0177
				17	निजी	कृषि	4	0	0.2023
				18	निजी	कृषि	1	0	0.0506
				23 मिन	निजी	कृषि	1	0	0.0506
				307	पंचायत	रास्ता	0	2	0.0051
				24	निजी	कृषि	2	18	0.1467
				25	निजी	कृषि	1	4	0.0607
				256//	5	निजी	कृषि	2 6 0.1163	ओमप्रकाश, कवरपाल, मान सिंह पुत्रान झन्डू सिंह, श्रीमती सुगन बाई पत्नी रणजीत, आजाद, ऋषि, राजेन्द्र, अशोक पुत्रान शोभा, श्रीमती सावित्री पुत्री कान्हा, वीरपाल, कृष्ण, श्रीपाल पुत्रान नारायण, कर्ण सिंह जयभगवान, दिलबाग, सुरेन्द्र, नरेश, दिनेश पुत्रान टेकराम, रमेश, मुकेश, राजेश पुत्रान बेदपाल, श्रीमती सीता देवी विद्या व यशपाल पुत्र व श्रीमती लक्ष्मी, राखी पुत्रीयान लीलु, बदलु पुत्र कान्हा, श्रीमती ज्ञानदेई विद्या नारायण सिंह, श्रीमती कृष्णा विद्या वेदप्रकाश
				274//	4	निजी	कम्पनी	0 19 0.0481	मेसर्स गुलिया प्राईवेट लिमिटेड बजरिये बलवीर सिंह पुत्र प्रताप सिंह
				5	निजी	कृषि	4	6	0.2175
				6/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506
				6/2	निजी	बंजर-भूमि	0	4	0.0101
				6/3	निजी	कृषि	0	11	0.0278
				7	निजी	कम्पनी	0	2	0.0051

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				275//	1/1	निजी	कृषि	0 1 0.0025
								अराजी मतकड़ा बकाया अलाउट डकदार सामलत श्रीमती नारणी देवी जैन मेमोरियल ट्रस्ट रोहतक बजरिये संस्थापक अतुल जैन पुत्र रमेशचन्द
					10	निजी	बंजर-भूमि	0 8 0.0202
								राजवीर, रणवीर सिंह, जयवीर सिंह विजयवीर सिंह पुत्रान चन्दगीरान, श्रीमती रजनी कियरा व मोहित पुत्र व श्रीमती मन्जीत पुत्री सतवीर सिंह उर्फ दलवीर सिंह
					90.5	निजी	रास्ता	0 6 0.0152
								ग्राम पंचायत
								गौव का कुल क्षेत्रफल 396 17 20.0751
		2. रोहताक	(i)भगवती पुर 89	2//	6/1	निजी	कृषि	0 8 0.0202
					6/3	निजी	कृषि	0 8 0.0202
					रास्ता	पंचायत	रास्ता	0 7 0.0177
					15/1	निजी	कृषि	0 16 0.0405
				3//	10	निजी	कृषि	1 16 0.0911
					11/1	निजी	कृषि	0 3 0.0076
					11/3	निजी	कृषि	3 19 0.1998
					12	निजी	कृषि	0 4 0.0101
					19/1	निजी	कृषि	3 3 0.1593
					20/1	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					20/3	निजी	कृषि	0 19 0.0481
					126 भिन	पंचायत	रास्ता	0 6 0.0152
					21/1	निजी	कृषि	0 8 0.0202
					22/1	निजी	कृषि	0 12 0.0304
					22/3	निजी	कृषि	3 7 0.1695
					23	निजी	कृषि	0 17 0.0430
				8//	21	निजी	कृषि	0 13 0.0329
				9//	2/1	निजी	कृषि	0 4 0.0101
					2/3	निजी	कृषि	1 0 0.0506
					3/2 भिन	निजी	कृषि	3 19 0.1998
					7/2	निजी	कृषि	2 0 0.1012
					8/1/1	निजी	कृषि	2 4 0.1113
					8/1/3	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					8/2/2	निजी	कृषि	0 2 0.0051
					9	निजी	कृषि	0 2 0.0051
					13/1	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					14/1	निजी	कृषि	0 3 0.0076
					14/3	निजी	कृषि	4 3 0.2099
					15	निजी	कृषि	0 1 0.0025
					16/1	निजी	कृषि	3 0 0.1518
					17/1	निजी	कृषि	1 4 0.0607
					17/3	निजी	कृषि	1 0 0.0506
					24/1	निजी	कृषि	0 2 0.0051
					24/2/1	निजी	कृषि	0 9 0.0228
					25/1	निजी	कृषि	0 9 0.0228
					25/3	निजी	कृषि	3 14 0.1872
				22//	5/1	निजी	कृषि	0 7 0.0177
					5/3	निजी	कृषि	1 0 0.0506
					6/2	निजी	कृषि	0 4 0.0101
				23//	1/2	निजी	कृषि	3 17 0.1948
					9	निजी	कृषि	1 12 0.0809
					10/1	निजी	कृषि	2 13 0.1341
					10/3	निजी	कृषि	0 16 0.0405
					11/1	निजी	कृषि	0 19 0.0481
					11/3	निजी	कृषि	0 0 0.0000
					12/1	निजी	कृषि	4 3 0.2099
					12/3	निजी	कृषि	0 3 0.0076
					13	निजी	कृषि	0 0 0.0000
								अनुप सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, समेर सिंह

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				18 मिन	निजी	कृषि	2	12	0.1315	18/1 अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह	
				19/1	निजी	कृषि	1	11	0.0784	चान्द सिंह, राकेश पुत्रान बलबीर सिंह	
				19/3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	श्रीमती बीरमती पत्नी रणबीर सिंह	
				20/1	निजी	कृषि	0	0	0.0000	सुनील कुमार, सुशील कुमार पुत्रान सतबीर सिंह	
				22/2	निजी	कृषि	0	13	0.0329	रणबीर सिंह पुत्र हकुम सिंह	
				23/1	निजी	कृषि	0	8	0.0202	अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह	
				23/3	निजी	कृषि	3	16	0.1922	अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह, सन्दीप, संजय जयपाल, अजय, यशवीर	
				24 मिन	निजी	कृषि	0	9	0.0228	अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह, सन्दीप, संजय जयपाल, अजय, यशवीर	
				31//	20/2	निजी	कृषि	2	6	0.1163	अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, संजय जयपाल, अजय, यशवीर
					21/1	निजी	कृषि	4	1	0.2049	
					21/3	निजी	कृषि	0	5	0.0126	
					22/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह पुत्रान मीहु, यशवीर पुत्र यशपाल, अजय पुत्र जयपाल, सन्दीप, संजय पुत्रान जय सिंह, खानाकाशत अनुप सिंह, रणबीर सिंह, रणधीर सिंह, समेर सिंह
				32//	3/2/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	जगत सिंह, कृष्ण लाल पुत्रान रिच्छपाल
					3/2/3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
					4/2	निजी	कृषि	3	18	0.1973	विक्रम पुत्र चान्द कर्ण पुत्र गोपाल
					6	निजी	कृषि	1	4	0.0607	विक्रम पुत्र चान्द कर्ण पुत्र गोपाल
					7/1	निजी	कृषि	3	2	0.1568	विक्रम पुत्र चान्द कर्ण पुत्र गोपाल
					7/3	निजी	कृषि	0	14	0.0354	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					8/2/2/1	निजी	कृषि	0	6	0.0152	जगत सिंह पुत्र रिच्छपाल
					14/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					14/3	निजी	कृषि	0	2	0.0051	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					15/1	निजी	कृषि	3	19	0.1998	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					15/3	निजी	कृषि	0	0	0.0000	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					16/1 मिन	निजी	कृषि	0	18	0.0455	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					16/3	निजी	कृषि	2	14	0.1366	सुरेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह
					143	पंचायत	रास्ता	0	18	0.0455	ग्राम पंचायत
					17	निजी	कृषि	0	1	0.0025	सुरेन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह
					25/1/2	निजी	कृषि	0	3	0.0076	बलबीर सिंह पुत्र गोपाल
					25/2/1	निजी	कृषि	0	9	0.0228	खाली, दी आर्य स्कूल ट्रस्ट व मैनेजमेंट सोसाईटी बडा बाजार रोहतक, मार्फत श्रीगंगा विसन प्रधान व योगेन्द्रलाल सचिव व अन्य सदस्य
				50//	1/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	रणबीर, जगबीर, राजबीर, सुखबीर पुत्रान मीहु, राजेन्द्र, राजपाल, जयपाल, जय सिंह, हरीपाल, सुरेन्द्र पुत्रान मन्दरूप
					1/3	निजी	कृषि	0	19	0.0481	
					2/1/1	निजी	कृषि	0	19	0.0481	
					2/2/2	निजी	कृषि	2	5	0.1138	2/2 विजेन्द्र पुत्र झान सिंह
					8/2	निजी	कृषि	0	15	0.0379	कर्ण सिंह, धर्मवीर, जयवीर, कर्मबीर पुत्रान व श्रीमती छन्नो, राजो, रामरत्नी पुत्रीयान निहालु
					9/1	निजी	कृषि	3	10	0.1771	
					9/3	निजी	कृषि	0	11	0.0278	
					10/2	निजी	कृषि	0	10	0.0253	रणबीर, जगबीर, राजबीर, सुखबीर पुत्रान मीहु, राजेन्द्र, राजपाल, जयपाल, जय सिंह, हरीपाल, सुरेन्द्र पुत्रान मन्दरूप
				152 मिन	पंचायत	रास्ता	0	9	0.0228	ग्राम पंचायत	
					12/1	निजी	कृषि	0	18	0.0455	दरीया सिंह पुत्र सोहन, धन्नो पुत्री सोहन
					12/3	निजी	कृषि	0	3	0.0076	
					13/2	निजी	कृषि	3	14	0.1872	
					17/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	रघबीर पुत्र मोहन लाल

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				17/2	निजी	कृषि	0	11	0.0278	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				18/1/1	निजी	कृषि	2	1	0.1037	दरीया सिंह पुत्र सोहन, धनो पुत्री सोहन
				18/2/3	निजी	कृषि	0	12	0.0304	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				18/1/3	निजी	कृषि	0	8	0.0202	दरीया सिंह पुत्र सोहन, धनो पुत्री सोहन
				18/2/1	निजी	कृषि	0	8	0.0202	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				19/1/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	दरीया सिंह पुत्र सोहन, धनो पुत्री सोहन
				19/2	निजी	कृषि	0	0	0.0000	श्रीमती गरीबनी विधवा व श्रीमती सुखदेई पुत्री व प्रेम, राजमल पुत्र किशनलाल, बीरेन्द्र, सुरेन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान प्रेम, श्रीमती कमला माता नरेन्द्र पुत्र प्रेम, महेन्द्र सिंह, दिलावर सिंह पुत्रान धर्म सिंह,
				23/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				23/3	निजी	कृषि	0	18	0.0455	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				24/1	निजी	कृषि	0	0	0.0000	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				24/3	निजी	कृषि	3	17	0.1948	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				163 दिन	पंचायत	रास्ता	0	9	0.0228	ग्राम पंचायत
			58//	10	निजी	कृषि	0	9	0.0228	श्रीमती भरतो विधवा सुरजीत, श्रीमती धनो विधवा व बिजे सिंह पुत्र व श्रीमती चन्दो, बुला, चान्दो, नाहनी पुत्रीयान लहरी सिंह, श्रीमती धर्मली पुत्री पूर्ण सिंह, समेर सिंह, महीपाल सिंह, बलराज सिंह पुत्रान सुरजीत, अमीर सिंह पुत्र सज्जन सिंह पुत्र बलवीर सिंह खानाकस्त श्रीमती धनो, चन्दो, बुला, चान्दो, नाहनी व बिजे सिंह
				11/1	निजी	कृषि	3	12	0.1821	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
				19	निजी	कृषि	1	1	0.0531	श्रीमती सरजो विधवा व सुनीता पुत्री व संदीप पुत्र रणधीर
				20/1	निजी	कृषि	3	2	0.1568	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
				20/3	निजी	कृषि	0	13	0.0329	श्रीमती सरजो विधवा व सुनीता पुत्री व संदीप पुत्र रणधीर
				21/1/1	निजी	कृषि	0	13	0.0329	ग्राम पंचायत
				21/1/2	पंचायत	कृषि	0	7	0.0177	ग्राम पंचायत
				21/3	निजी	कृषि	0	2	0.0051	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
				22/1	निजी	कृषि	4	1	0.2049	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
				22/3	निजी	कृषि	0	0	0.0000	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
			59//	3/2	निजी	कृषि	0	0	0.0000	बलराज, सुरज भान पुत्रान बनी सिंह, ओम प्रकाश पुत्र महा सिंह
				4/1/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				4/2/1	निजी	कृषि	0	7	0.0177	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				4/2/3	निजी	कृषि	1	6	0.0658	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				5/2	निजी	कृषि	2	14	0.1366	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				6/1	निजी	कृषि	3	17	0.1948	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				6/3	निजी	कृषि	0	8	0.0202	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				7/2	निजी	कृषि	0	12	0.0304	आनन्द कुमार पुत्र रामसरूप
				15/1/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	राम सरूप पुत्र कन्हैया, आनन्द पुत्र राम सरूप
				15/1/3	निजी	कृषि	0	11	0.0278	राम सरूप पुत्र कन्हैया, आनन्द पुत्र राम सरूप
				15/2/2	निजी	कृषि	0	10	0.0253	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
				16/2	निजी	कृषि	0	7	0.0177	शमशेर सिंह, बलराज पुत्रान हसरज, हसरज पुत्र मांगे, मुख्तयार सिंह, नारायण सिंह पुत्रान टेक चन्द, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार पुत्रान राज सिंह
			77//	156 दिन	पंचायत	सड़क	0	9	0.0228	ग्राम पंचायत
				1/1	सरकारी	सड़क	0	0	0.0000	ग्राम पंचायत
				2/1/1	सरकारी	सड़क	0	2	0.0051	ग्राम पंचायत

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				24/2	निजी	कृषि	0	16	0.0405	श्रीमती मुर्ति, भन्नी पुत्रीयान व रोहतास सिंह, रामचन्द, सुरेश कुमार, महेंद्र सिंह पुत्रान शीछपाल, रामरूप, इन्द्र पुत्र टेक चन्द, ईश्वर सिंह, सुखवीर सिंह, करतार सिंह, रामफल, रमेश कुमार पुत्रान पुरन उर्फ धनपाल, प्रदीप कुमार पुत्र जगदेव सिंह
				2/3	निजी	कृषि	1	12	0.0809	
				3/2	निजी	कृषि	2	6	0.1163	भीम सिंह, महा सिंह पुत्रान भरतु, होरयार सिंह, बलवान सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती शारि, कमला पुत्रीया काशीराम, सुनील कुमार, विनोद कुमार पुत्रान रामफल, अनिल कुमार पुत्र महेंद्र सिंह, भतेरी, राजरानी, सन्तोष पुत्रीया राम सिंह, राजो पुत्री रामसिंह, सुरेश पुत्र व मायावती, शीला, नन्ही पुत्रीया भगवानी, रामशेर सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान हयासिंह, सतवीर सिंह, महेंद्र, रामफल पुत्रान भाल सिंह उर्फ बाहल सिंह
				7	निजी	कृषि	0	4	0.0101	
				8/1	निजी	कृषि	3	19	0.1998	
				9/2	निजी	कृषि	0	14	0.0354	श्रीमती मुर्ति, भन्नी पुत्रीयान व रोहतास सिंह, रामचन्द, सुरेश कुमार, महेंद्र सिंह पुत्रान शीछपाल, रामरूप, इन्द्र पुत्र टेक चन्द, ईश्वर सिंह, सुखवीर सिंह, करतार सिंह, रामफल, रमेश कुमार पुत्रान पुरन उर्फ धनपाल, प्रदीप कुमार पुत्र जगदेव सिंह
				13/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	भीम सिंह, महा सिंह पुत्रान भरतु, होरयार सिंह, बलवान सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान व श्रीमती शारि, कमला पुत्रीया काशीराम, सुनील कुमार, विनोद कुमार पुत्रान रामफल, अनिल कुमार पुत्र महेंद्र सिंह, भतेरी, राजरानी, सन्तोष पुत्रीया राम सिंह, राजो पुत्री रामसिंह, सुरेश पुत्र व मायावती, शीला, नन्ही पुत्रीया भगवानी, रामशेर सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान हयासिंह, सतवीर सिंह, महेंद्र, रामफल पुत्रान भाल सिंह उर्फ बाहल सिंह
				13/3	निजी	कृषि	0	18	0.0455	
				14/2	निजी	कृषि	3	8	0.1720	
				16	निजी	कृषि	0	14	0.0354	धर्म प्रकाश, धर्मवीर सिंह पुत्रान रत्तन सिंह
				17/1/1/1	निजी	कृषि	1	1	0.0531	राज सिंह पुत्र सुरज भान
				17/1/1/2	निजी	कृषि	0	12	0.0304	उमेश सिंह पुत्र सुरज भान
				17/1/1/3	निजी	कृषि	0	5	0.0126	मेहर सिंह पुत्र सुरज भान
				17/1/2	निजी	कृषि	1	12	0.0809	दलीप सिंह, ब्रह्मा, सतवीर सिंह पुत्रान जोधा, श्रीमती कान्ता विद्या व श्रीमती स्वीटी पुत्री कृष्ण
				17/3	निजी	कृषि	0	11	0.0278	उमेश सिंह पुत्र सुरज भान
				18/2/1/1	निजी	कृषि	0	7	0.0177	राज सिंह पुत्र सुरज भान
				18/2/1/2	निजी	कृषि	0	2	0.0051	उमेश सिंह पुत्र सुरज भान
				18/2/2	निजी	कृषि	0	0	0.0000	उमेश सिंह पुत्र सुरज भान
				24/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	विजेन्द्र पुत्र राम सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह, राम भगत पुत्र धन सिंह
				24/3/1	निजी	रास्ता	0	2	0.0051	रत्तन सिंह, जोत राम, बलदेव सिंह, बलवीर सिंह, जगत सिंह पुत्रान गोपाल, विक्रम पुत्र चान्द कर्ण, रमेश पुत्र जगत सिंह
				24/3/2	निजी	कृषि	0	3	0.0076	विक्रम पुत्र चान्द कर्ण पुत्र गोपाल
				25/1/2/1	निजी	कृषि	0	0	0.0000	रत्तन सिंह, जोत राम, बलदेव सिंह, बलवीर सिंह, जगत सिंह पुत्रान गोपाल, विक्रम पुत्र चान्द कर्ण, रमेश पुत्र जगत सिंह
				25/1/2/2	निजी	कृषि	2	18	0.1467	विक्रम पुत्र चान्द कर्ण पुत्र गोपाल
				25/2/2	निजी	कृषि	1	1	0.0531	विक्रम पुत्र चान्द कर्ण पुत्र गोपाल
			83//	1/1	निजी	कृषि	1	11	0.0784	बलदेव सिंह पुत्र गोपाल
				1/2	निजी	रास्ता	0	4	0.0101	रत्तन सिंह, जोत राम, बलदेव सिंह, बलवीर सिंह, जगत सिंह पुत्रान गोपाल, विक्रम पुत्र चान्द कर्ण, रमेश पुत्र जगत सिंह
				9	निजी	कृषि	0	1	0.0025	जोत राम पुत्र गोपाल
				10/1/1/1	निजी	कृषि	2	13	0.1341	
				10/1/2	निजी	कृषि	1	8	0.0708	
				10/2/1	निजी	कृषि	0	3	0.0076	श्रीमती चन्द्रवती पत्नी हरी सिंह, अनुप सिंह पुत्र चुन्नी लाल
				10/2/3	निजी	कृषि	0	2	0.0051	राजदेव पुत्र भरतु

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11/1	निजी	कृषि	1	0.0708
				11/3	निजी	कृषि	1	0.0506
				12/2/1	निजी	कृषि	2	0.1416
				18	निजी	कृषि	0	0.0228
				19/1	निजी	कृषि	3	0.1897
				19/3	निजी	कृषि	0	0.0202
				20/2	निजी	कृषि	0	0.0304
				23/1/1	निजी	कृषि	0	0.0405
				22/1/2	निजी	कृषि	0	0.0051
				22/3/1	निजी	कृषि	0	0.0202
				22/3/2	निजी	कृषि	0	0.0051
				23/2/1	निजी	कृषि	3	0.1644
				23/2/2	निजी	कृषि	0	0.0025
				84//	4/2 निम	निजी	0	0.0051
				5/1	निजी	कृषि	0	0.0430
				5/3	निजी	कृषि	2	0.1239
				6/1	निजी	कृषि	0	0.0000
				6/3	निजी	कृषि	0	0.0455
				99//	2 निम	निजी	0	0.0126
				3/1	निजी	कृषि	0	0.0379
				3/3	निजी	कृषि	2	0.1467
				4	निजी	कृषि	1	0.0658
				6	निजी	कृषि	0	0.0000
				7/1/1	निजी	कृषि	0	0.0278
				7/1/2	निजी	कृषि	3	0.1796
				7/3	निजी	कृषि	0	0.0025
				8/1	निजी	कृषि	0	0.0025
				8/3	निजी	कृषि	0	0.0481
				13	निजी	कृषि	0	0.0000
				14/1/1	निजी	कृषि	0	0.0076
				14/1/2	निजी	कृषि	0	0.0405
				14/3	निजी	कृषि	1	0.0911
				15/2	निजी	कृषि	2	0.1265
				16/1	निजी	कृषि	4	0.2049
				16/3	निजी	कृषि	0	0.0101
				17/2	निजी	कृषि	0	0.0405
				25/1	निजी	कृषि	1	0.0506
				25/3	निजी	कृषि	0	0.0455
				155/2	पंचायत	रास्ता	0	0.0329

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7/3/2	निजी	कृषि	0	0.0202
				14/2/1	निजी	कृषि	0	0.0126
				15/1/1	निजी	कृषि	0	0.0253
				15/1/2	निजी	फैक्ट्री	0	0.0126
				15/3/1	निजी	कृषि	1	0.0708
				15/3/2	निजी	कृषि	1	0.0809
				16/1	निजी	कृषि	0	0.0025
				16/2	निजी	कृषि	0	0.0481
				25	निजी	कृषि	0	0.0000
				98//	1/1/2	निजी	0	0.0152
					1/2/2	निजी	0	0.0329
					2/1	निजी	0	0.0000
					2/3	निजी	3	0.1922
					8	निजी	1	0.0582
					9/1	निजी	2	0.1315
					9/3	निजी	0	0.0455
					10	निजी	0	0.0025
					12/1	निजी	1	0.0506
					12/3	निजी	0	0.0076
					13/2	निजी	3	0.1897
					17	निजी	0	0.0253
					18/1	निजी	3	0.1745
					18/3	निजी	0	0.0329
					19/2	निजी	0	0.0202
					23/1	निजी	1	0.0506
					23/2	निजी	0	0.0329
					24/2	निजी	3	0.1720
				123//	20/1	निजी	0	0.0455
					20/2	निजी	0	0.0278
					21/2	निजी	3	0.1593
				124//	3/2	निजी	0	0.0329
					4/1	निजी	0	0.0177
					4/3	निजी	3	0.1973
					5	निजी	0	0.0101

जयनारायण, हवा सिंह, विरेन्द्र, ईश हकदरम
शामलात कपूर सिंह, धरमबीर, चौदसरुप,
जयपाल, जगजीवन पुत्रान हरचंद, बलेश्वर पुत्र
मंगेश्वर पुत्र हजारी, मे० लक्ष्मी परासिजों सरकस
लि० रोहतक बजरिये डायरेक्टर विजय जैन

जयनारायण, धरमबीर, चौदसरुप, पुत्रान मंगेश्वर,
हकदरम शामलात मे० जे० सी० फास्टर्नस लि०
रोहतक बजरिये डायरेक्टर अतुल जैन पुत्र
जगदीश जैन

श्रीमती सहाबो विद्या भीम सिंह
कालीराम पुत्र भगवाना, सीलकराम पुत्र सरुप
सिंह

सीलकराम पुत्र सरुप सिंह, सिंहराम, हरीराम,
बलवान, ईश्वर पुत्रान श्रीमती सुनहरी पुत्री रंगी,
कालीराम पुत्र भगवाना, श्रीमती सहाबो विद्या
भीम सिंह खानाकाशत सरुप सिंह व कालीराम मे०
जे० सी० फास्टर्नस लि० रोहतक बजरिये
डायरेक्टर अतुल जैन

सीलकराम पुत्र सरुप सिंह, सिंहराम, हरीराम,
बलवान, ईश्वर पुत्रान श्रीमती सुनहरी पुत्री रंगी,
कालीराम पुत्र भगवाना, श्रीमती सहाबो विद्या
भीम सिंह खानाकाशत श्रीमती सहाबो विद्या भीम
सिंह

श्रीमती इन्द्रावती विद्या व विजेन्द्र, समर, ओम
सिंह, आनंद सिंह, रामेश्वर पुत्रान रघुवीर

जगदीश, बलजीत सिंह, भगत सिंह पुत्रान व
श्रीमती रजनी पुत्री उमेश सिंह

जीत सिंह, रामचंदर पुत्रान ज्ञानी

जीत सिंह, रामचंदर पुत्रान ज्ञानी

जीत सिंह, रामचंदर पुत्रान ज्ञानी

जीत सिंह, रामचंदर पुत्रान ज्ञानी

जीले सिंह, प्रताप सिंह पुत्रान रामपत, भारत सिंह,
रामफल, श्रीकृष्ण पुत्रान लालचंद, महाबीर सिंह,
राजवीर सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रान महा सिंह
खानाकाशत भारत सिंह, रामफल, श्रीकृष्ण, महाबीर
सिंह, राजबीर सिंह, महेन्द्र सिंह

भारत सिंह, रामफल, श्रीकृष्ण पुत्रान लालचंद,
महाबीर सिंह, राजबीर सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रान
महा सिंह

जिले सिंह, प्रताप सिंह बनवारीलाल पुत्र जयलाल
पुत्र मुखराम

जीले सिंह, प्रताप सिंह पुत्रान रामपत, भारत सिंह,
रामफल, श्रीकृष्ण पुत्रान लालचंद, महाबीर सिंह,
राजवीर सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रान महा सिंह
खानाकाशत जीले सिंह, प्रताप सिंह

राजेश कुमार पुत्र बानारसी दास

हरियाणा सरकार

रणवीर, सत्यवीर, सेवानन्द, रामचंद्र पुत्रान मंगे

आनंदप्रकाश पुत्र हरीकृष्ण खानाकाशत हरदत्त पुत्र
भोला गैर मौरसी

शामलात पाना आठ विद्या हनुव रसद अराजी
खेवट

बनवारी पुत्र विरखा

जगदीशचंद्र, नरेश, पवन कुमार पुत्रान
मनोहरलाल

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				25 मिन	निजी	कृषि	0	17	0.0430	25/2/1-श्रीमती चांदकौर विद्या व हरपाल, राममगत पुत्रान व श्रीमती ओमपती, लाजपती, कलावती, सावित्री पुत्रीयान कृपाराम, कृष्ण, रामसनेह, ईश्वर सिंह पुत्रान कवलराम, श्रीमती भारपती विद्या व रामफल, ओम, भीम, श्रीराम, सतवीर पुत्रान व श्रीमती रामरती, बेदो, समित्रा पुत्रीयान राम सिंह, श्रीमती वनपती पुत्री व चांदराम पुत्र रतीराम, सतीश, रमेश पुत्रान व श्रीमती सुमित्रा, सुनील पुत्रीयान श्रीमती शांती पुत्री रतीराम, श्रीमती नारायणी देवी विद्या व श्रीमती मेधा, प्रेम, सरोज पुत्रीयान व रामपाल, राजपाल, रमेश, बलबान, जयमगवान पुत्रान सूरजमान, श्रीमती रोशनी, प्रेम, रामभोरी पुत्रीयान व राजेन्द्र, नारायण पुत्रान श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री रतीराम, विष्णु, रवि पुत्रान व बिलला, कमला पुत्रीयान श्रीमती फूलपती पुत्री रतीराम, श्रीमती रोशनी विद्या, श्रीमती सरस्वती, रानी देवी, सोनिया पुत्रीयान व रोहताश, राजेश पुत्रान रामकंधर 25/2/2- हरियाणा सरकार, 25/2/3- बलपान सिंह, ताराचंद, रतन सिंह, सतनारायण पुत्रान बनवारी
			1234	5/1/2	निजी	कृषि	0	5	0.0126	श्रीमती राजबाला व अन्य मुन्दाज खेपट सं-384, श्रीमती भोरी व अन्य मुन्दाज खेपट सं-388, हवा सिंह व अन्य मुन्दाज खेपट सं-386, श्रीमती सरोज व अन्य मुन्दाज खेपट सं-399 व 400 खानाकाशत मांगेराम अन्य मजकूरान अन्य गैर मौरसी तारा पुत्र बंदन गैर मौरसी
			126//	1/1/1	निजी	कृषि	0	5	0.0126	महा सिंह पुत्र श्रीचंद हकदर शामलाल, रमेश कुमार पुत्र मेहर सिंह
				1/1/2	निजी	कृषि	0	1	0.0025	महा सिंह पुत्र श्रीचंद हकदर शामलाल, अमर सिंह, श्रीराम, कपूर सिंह पुत्रान रतन सिंह
				1/1/3/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	अमर सिंह, श्रीराम, कपूर सिंह पुत्रान रतन सिंह
				1/1/3/2/1	निजी	कृषि	0	6	0.0152	महा सिंह पुत्र श्रीचंद
				1/1/3/2/2	निजी	कृषि	0	2	0.0051	ग्राम पंचायत
				1/3/1	निजी	कृषि	2	19	0.1492	महा सिंह पुत्र श्रीचंद
				1/3/2	निजी	कृषि	0	7	0.0177	बलजीत पुत्र श्रीचंद, देवी सिंह पुत्र दरियाव सिंह
				2/1	निजी	कृषि	0	10	0.0253	नरेश पुत्र मेहर सिंह, श्रीमती आसराणी पत्नी रामशेर सिंह, सुनील पुत्र सूब सिंह
				2/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	बलजीत पुत्र श्रीचंद, देवी सिंह पुत्र दरियाव सिंह
				9/2/1	निजी	कृषि	3	3	0.1593	राजवीर पुत्र श्रीचंद
				9/2/2	निजी	रास्ता	0	4	0.0101	देवपाल, राजवीर, बलजीत, महा सिंह पुत्रान व नारायणी पुत्री श्रीचंद, श्रीमती निर्मला विद्या व राजकुमार, जयकंदर पुत्रान व श्रीमती नीरु पुत्री हवा सिंह, श्रीमती प्रमिला, अंजू देवी, सुनीता पुत्रीयान व राजेश, राजेन्द्र पुत्रान श्रीमती बेदो पुत्री श्रीचंद
				10/1	निजी	कृषि	0	8	0.0202	राजवीर पुत्र श्रीचंद
				10/3	निजी	कृषि	1	0	0.0506	महा सिंह पुत्र श्रीचंद
				11/2/1	निजी	फैक्ट्री	0	10	0.0253	मे0 हनुवंत फास्टनर्स प्रा0 लि0 बजरिये भगत सिंह पुत्र राम सिंह
				11/2/2/1	निजी	फैक्ट्री	0	0	0.0000	मे0 ए0 वी0 फास्टनर्स प्रा0 लि0 टिटोली बजरिये
				12/1/1	निजी	फैक्ट्री	0	6	0.0152	विनोद जैन पुत्र रामरिछपाल
				12/1/2	निजी	फैक्ट्री	0	2	0.0051	मे0 ए0 वी0 फास्टनर्स प्रा0 लि0 मार्फत सुनील अरोडा डायरेक्टर फार्म
				12/3	निजी	कृषि	3	13	0.1846	रोहताश पुत्र भरतू
				13/2	निजी	कृषि	0	3	0.0076	13/2/1- रोहताश पुत्र भरतू, 13/2/2- अमरफल पुत्र भरतू
				18/2	निजी	कृषि	2	14	0.1366	राजेन्द्र सिंह पुत्र बनवारीलाल, अमरफल पुत्रान भरतू, सुशील पुत्र तीर्थ सिंह, विजय सिंह पुत्र रणवीर सिंह
				19/1/1/1	निजी	फैक्ट्री	0	2	0.0051	मे0 ए0 वी0 फास्टनर्स प्रा0 लि0 मार्फत सुनील अरोडा डायरेक्टर फार्म

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				19/1/1/2 मिन	निजी	फैक्ट्री	0	3	0.0076	मे० ए० वी० फास्टनर्स प्रा० लि० टिटोली बजरिये विनोद जैन पुत्र रामरिछपाल
				19/1/2/1 मिन	निजी	फैक्ट्री	0	6	0.0152	19/1/2/1/2- मे० पंचरतन फास्टनर्स प्रा० लि० टिटोली बजरिये हरीश मखीजा पुत्र मतवालचंद, बृजलाल आहूजा पुत्र ठाकुर दास
				19/1/2/2/1	निजी	फैक्ट्री	0	3	0.0076	मे० पंचरतन फास्टनर्स प्रा० लि० टिटोली बजरिये हरीश मखीजा पुत्र मतवालचंद, बृजलाल आहूजा पुत्र ठाकुर दास
				19/1/2/2/2	निजी	फैक्ट्री	0	5	0.0126	मे० पंचरतन फास्टनर्स प्रा० लि० टिटोली बजरिये हरीश मखीजा पुत्र मतवालचंद, डायरेक्टर
				19/1/2/2/3	निजी	फैक्ट्री	0	1	0.0025	
				19/3/1	निजी	कृषि	1	3	0.0582	अमरफल पुत्र भरतू
				22/2 मिन	निजी	कृषि	0	17	0.0430	22/2- हरियाणा सरकार, 22/2/2- सुरेश चंद पुत्र साधुराम
				23/1	निजी	कृषि	0	4	0.0101	सुरेश चंद पुत्र साधुराम
				23/3/1 मिन	निजी	कृषि	3	10	0.1771	23/3/1- सुनील कुमार पुत्र उमेश सिंह, अमरफल, रोहतास पुत्र भरतू, 23/3/1/1- रोहतास पुत्र भरतू
				23/3/2	निजी	कृषि	0	10	0.0253	उमेश सिंह, हरी सिंह पुत्रान बृजन
				24/1	निजी	कृषि	0	1	0.0025	
			148//	3/1	निजी	कृषि	1	2	0.0556	श्रीमती किरण पत्नी सुखवीर सिंह, श्रीमती बिमला देवी पत्नी रमेशचंद, राजेश पुत्र व श्रीमती अजू देवी, सुनीता पुत्रीयान बेदो देवी पुत्री श्रीचंद
				3/3/1	निजी	कृषि	0	16	0.0405	श्रीमती सतोष पत्नी राम कौर
				3/3/2	निजी	कृषि	0	13	0.0329	सीलकराम, सतवीर सिंह पुत्रान परशुराम
				3/3/3	निजी	कृषि	0	11	0.0278	श्रीमती किरण पत्नी सुखवीर सिंह, श्रीमती बिमला देवी पत्नी रमेशचंद, राजेश पुत्र व श्रीमती अजू देवी, सुनीता पुत्रीयान बेदो देवी पुत्री श्रीचंद
				3/3/4	निजी	रास्ता	0	0	0.0000	वेदपाल, राजवीर, बलजीत, महा सिंह पुत्रान व नारायणी पुत्री श्रीचंद, श्रीमती निर्मला विधवा व राजकुमार, जयकवर पुत्रान व श्रीमती नीरु पुत्री हवा सिंह, श्रीमती प्रमिला, अजू देवी, सुनीता पुत्रीयान व राजेश, राजेन्द्र पुत्रान श्रीमती बेदो पुत्री श्रीचंद
				4/1	निजी	कृषि	1	17	0.0936	श्रीमती किरण पत्नी सुखवीर सिंह, श्रीमती बिमला देवी पत्नी रमेशचंद, राजेश पुत्र व श्रीमती अजू देवी, सुनीता पुत्रीयान बेदो देवी पुत्री श्रीचंद
				4/2	निजी	रास्ता	0	2	0.0051	वेदपाल, राजवीर, बलजीत, महा सिंह पुत्रान व नारायणी पुत्री श्रीचंद, श्रीमती निर्मला विधवा व राजकुमार, जयकवर पुत्रान व श्रीमती नीरु पुत्री हवा सिंह, श्रीमती प्रमिला, अजू देवी, सुनीता पुत्रीयान व राजेश, राजेन्द्र पुत्रान श्रीमती बेदो पुत्री श्रीचंद
				7/2/1	निजी	कृषि	0	2	0.0051	अमरफल, रोहतास पुत्र भरतू
				7/2/2	निजी	कृषि	3	16	0.1922	राज सिंह पुत्र छोट
				8/1/1	निजी	कृषि	0	4	0.0101	श्रीमती किरण पत्नी सुखवीर सिंह, श्रीमती बिमला देवी पत्नी रमेशचंद, राजेश पुत्र व श्रीमती अजू देवी, सुनीता पुत्रीयान बेदो देवी पुत्री श्रीचंद
				8/1/2	निजी	कृषि	0	16	0.0405	श्रीमती किरण पत्नी सुखवीर सिंह
				13/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	समे सिंह, सतवीर सिंह पुत्रान शिखर, श्रीमती कुली देवी विधवा व अनील कुमार, राजेश कुमार, संदीप कुमार पुत्रान चांदसरूप
				14/1	निजी	कृषि	0	16	0.0405	
				14/3	निजी	कृषि	2	19	0.1492	
				15	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
				16/2	निजी	कृषि	4	10	0.2276	
				17/1	निजी	कृषि	0	5	0.0126	
				17/3	निजी	कृषि	0	13	0.0329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				186//	13/2	निजी	कृषि	2 1 0.1037	मौजी पुत्र हरी सिंह, महा सिंह पुत्र लालचंद, बलजीत सिंह पुत्र पृथ्वी, सत्यवान, राजमल, सुभाष पुत्रान व श्रीमती रोशनी, मूर्ति, समिना पुत्रीयान प्रकाश, श्रीमती ओमपती विधवा व सुनील कुमार पुत्र प्रेम सिंह, श्रीमती बिमला देवी विधवा हवा सिंह, नफे सिंह पुत्र व श्रीमती लक्ष्मी पुत्री सरतू राजवीर पुत्र सुरत सिंह खानाकारत सत्यवान, राजमल, सुभाष पुत्रान व श्रीमती रोशनी, मूर्ति, समिना
					14/1 मिन	निजी	कृषि	0 3 0.0076	14/1/1- श्रीमगवान, जयभगवान, अनिल कुमार पुत्रान ओमप्रकाश, 14/1/2/1-मौजी पुत्र हरी सिंह, महा सिंह पुत्र लालचंद, बलजीत सिंह पुत्र पृथ्वी, सत्यवान, राजमल, सुभाष पुत्रान व श्रीमती रोशनी, मूर्ति, समिना पुत्रीयान प्रकाश, श्रीमती ओमपती विधवा व सुनील कुमार पुत्र प्रेम सिंह, श्रीमती बिमला देवी विधवा हवा सिंह, नफे सिंह पुत्र व श्रीमती लक्ष्मी पुत्री सरतू राजवीर पुत्र सुरत सिंह खानाकारत सत्यवान, राजमल, सुभाष पुत्रान व श्रीमती रोशनी, मूर्ति, समिना
					17	निजी	कृषि	2 1 0.1037	मौजी पुत्र हरी सिंह, महा सिंह पुत्र लालचंद, बलजीत सिंह पुत्र पृथ्वी, सत्यवान, राजमल, सुभाष पुत्रान व श्रीमती रोशनी, मूर्ति, समिना पुत्रीयान प्रकाश, श्रीमती ओमपती विधवा व सुनील कुमार पुत्र प्रेम सिंह, श्रीमती बिमला देवी विधवा हवा सिंह, नफे सिंह पुत्र व श्रीमती लक्ष्मी पुत्री सरतू राजवीर पुत्र सुरत सिंह खानाकारत श्रीमती ओमपती, सुनील कुमार, नफे सिंह, राजवीर, श्रीमती लक्ष्मी पुत्री सरतू, श्रीमती राजरानी पुत्री सरतू
					18	निजी	कृषि	2 5 0.1138	
				गोब का कुल क्षेत्रफल			126	16	6.4143
		(3) समर गोपाल पुर खर्द/90	26//	18/1	निजी	कृषि	0 2 0.0051	इन्द्र सिंह पुत्र उदमी, जोगी राम पुत्र बलदेवा, राजपाल पुत्र बदरी, धर्मवीर पुत्र बनवारी, बलबीर पुत्र राम सरूप	
				18/3	निजी	कृषि	2 1 0.1037		
				22 मिन	निजी	कृषि	0 2 0.0051	22 मिन इन्द्र सिंह पुत्र उदमी, जोगी राम पुत्र बलदेवा, राजपाल पुत्र बदरी, धर्मवीर पुत्र बनवारी, बलबीर पुत्र राम सरूप खानाकारत धर्मवीर हिस्सेदार 22 मिन इन्द्र सिंह पुत्र उदमी, जोगी राम पुत्र बलदेवा, राजपाल पुत्र बदरी, धर्मवीर पुत्र बनवारी, बलबीर पुत्र राम सरूप खानाकारत जोगीराम हिस्सेदार	
				23/1	निजी	कृषि	1 0 0.0506	इन्द्र सिंह पुत्र उदमी, जोगी राम पुत्र बलदेवा, राजपाल पुत्र बदरी, धर्मवीर पुत्र बनवारी, बलबीर पुत्र राम सरूप खानाकारत इन्द्र सिंह हिस्सेदार	
				23/3	निजी	कृषि	0 11 0.0278	इन्द्र सिंह पुत्र उदमी, जोगी राम पुत्र बलदेवा, राजपाल पुत्र बदरी, धर्मवीर पुत्र बनवारी, बलबीर पुत्र राम सरूप खानाकारत धर्मवीर हिस्सेदार	
				27//	3	निजी	कृषि	0 1 0.0025	इन्द्र सिंह पुत्र उदमी, जोगी राम पुत्र बलदेवा, राजपाल पुत्र बदरी, धर्मवीर पुत्र बनवारी, बलबीर पुत्र राम सरूप खानाकारत धर्मवीर हिस्सेदार
				83//	21/1	सरकारी	कृषि	0 15 0.0379	हरियाणा सरकार खानाकारत चन्द पुत्र नन्दु गैर मैरसी
					21/2	निजी	कृषि	0 1 0.0025	सीसराम दत्तक पुत्र हरफूल, अनिल पुत्र सतप्रिया, श्रीमती धनपती आदि मु. खेपट.620
				84//	17/2	निजी	कृषि	0 6 0.0152	धर्म सिंह, जयकिशन, कृष्णदत्त पुत्रान दयालाल, छोटे लाल पुत्र हरी राम, महेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मीकांत उर्फ मोहम
					24	निजी	कृषि	0 7 0.0177	कृष्णदत्त, जयप्रकाश, सत्यवान पुत्रान राममज
					25/1/1	निजी	कृषि	0 15 0.0379	सीसराम दत्तक पुत्र हरफूल, अनिल पुत्र सतप्रिया, श्रीमती धनपती आदि मु. खेपट.620
					25/1/3	निजी	कृषि	0 12 0.0304	सीसराम दत्तक पुत्र हरफूल, अनिल पुत्र सतप्रिया, श्रीमती धनपती आदि मु. खेपट.620
					25/2/2	निजी	कृषि	1 15 0.0885	राम चन्द पुत्र जुगलाल

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				111//	5/1	सरकारी	कृषि	1	2	0.0556	हरियाणा सरकार खानाकाशत सिरावली ठाकुर दयारा रोहतक जेर अहतमाम बाबा देवराज पुत्र हंसराज
					5/3	निजी	कृषि	0	7	0.0177	राम चन्द्र पुत्र जुगलाल
					6/2	सरकारी	कृषि	0	12	0.0304	हरियाणा सरकार खानाकाशत सिरावली ठाकुर दयारा रोहतक जेर अहतमाम बाबा देवराज पुत्र हंसराज
				112//	1/1/1	सरकारी	कृषि	1	12	0.0809	हरियाणा सरकार (पी-डब्ल्यू-डी-बी & आर)
					1/2	सरकारी	कृषि	2	0	0.1012	हरियाणा सरकार खानाकाशत श्रीमती भलया
					9	सरकारी	कृषि	0	3	0.0076	विधवा व मुलवना प्रसाद सीसराम पुत्र हरकुल
					10/1/2	निजी	कृषि	3	16	0.1922	सिंह पुत्र मधुसू प्रसाद गैर मैरुसी
					10/2/1	निजी	कृषि	0	8	0.0202	ठाकुर दयारा सिरावली रोहतक जेर अहतमाम
					10/2/3	निजी	कृषि	0	1	0.0025	बाबा राजेश पुत्र हंसराज
					11/1	निजी	कृषि	1	0	0.0506	
					11/3	निजी	कृषि	1	3	0.0582	राजपाल, नरेन्द्र सिंह, सतपाल पुत्रान ओम
					12/2	निजी	कृषि	2	11	0.1290	प्रकार, जीत सिंह पुत्र राम सिंह, श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					19/1	निजी	गैर-कृषि	0	0	0.0000	ओम प्रकाश पुत्र लहरी, कृष्ण पुत्र राम सिंह,
					19/3/1	निजी	कृषि	3	8	0.1720	श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					19/3/2	निजी	कृषि	0	8	0.0202	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रमु पुत्र राम सिंह, श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व सुशीला देवी, राजवन्ती पुत्रीयान आजाद सिंह, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप कुमार पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती शांति विधवा व नरेन्द्र, जगमेन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					20/2	निजी	कृषि	1	0	0.0506	ठाकुर दयारा सिरावली रोहतक जेर अहतमाम
					21	निजी	कृषि	0	1	0.0025	बाबा राजेश पुत्र हंसराज
					22/1	निजी	कृषि	0	19	0.0481	
					22/3	निजी	कृषि	2	12	0.1315	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रमु पुत्र राम सिंह, श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व सुशीला देवी, राजवन्ती पुत्रीयान आजाद सिंह, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप कुमार पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती शांति विधवा व नरेन्द्र, जगमेन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					23/1	निजी	कृषि	1	7	0.0683	
				114//	11	सरकारी	कृषि	2	14	0.1366	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रमु, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप कुमार पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व सुशीला देवी, राजवन्ती पुत्रीयान आजाद सिंह, श्रीमती शांति विधवा व नरेन्द्र, जगमेन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, नरेश सिंह, जीत सिंह पुत्रान केशो, विनोद कुमार, विजय सिंह पुत्रान नरेश सिंह, विजय सिंह, अशोक सिंह, बिजेन्द्र पुत्रान जीत सिंह
					19	सरकारी	कृषि	0	0	0.0000	हरियाणा सरकार खानाकाशत दरयाव सिंह,
					20	सरकारी	कृषि	6	10	0.3288	उमराव सिंह, खीमा, रामभगत, बलवीर सिंह पुत्रान
					21	सरकारी	कृषि	8	0	0.4047	जोगीराम पुत्र सुधन गैर मैरुसी
					22	सरकारी	कृषि	2	4	0.1113	हरियाणा सरकार खानाकाशत ओम प्रकाश, चन्दर
				115//	2/1	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	भान पुत्रान टाले पुत्र भोलर गैर मैरुसी
					2/3	निजी	कृषि	0	2	0.0051	हरियाणा सरकार
					3/2	निजी	कृषि	3	18	0.1973	श्रीमती सरतो देवी पत्नी शेर सिंह पुत्र सुख लाल, तारीफ सिंह पुत्र पुर्ण पुत्र सुखलाल, भीम सिंह, आमीर सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र सुखलाल, श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					7	निजी	कृषि	0	14	0.0354	कोडा पुत्र हरदेया मालकान कब्जा श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					8/1	सरकारी	कृषि	0	15	0.0379	हरियाणा सरकार
					8/3	निजी	कृषि	3	4	0.1619	कोडा पुत्र हरदेया मालकान कब्जा श्रीमती धनपती आदि मु, खेवट.620
					9/2	सरकारी	कृषि	0	4	0.0101	हरियाणा सरकार
					13/1	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	हरियाणा सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				13/3	निजी	कृषि	0	8	0.0202	श्रीमती सरलो देवी पत्नी शेर सिंह पुत्र सुख लाल, लक्ष्मी सिंह पुत्र पुर्ण पुत्र सुखलाल, भीम सिंह, आभीर सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र सुखलाल, श्रीमती धनपती आदि मु. खेवट.620
				14/2/1	निजी	कृषि	3	10	0.1771	
				14/2/2	निजी	कृषि	0	7	0.0177	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु मालकान कब्जा श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व श्रीमती सुशीला देवी, राजवंती पुत्रीयान अजाद सिंह, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती शान्ति विधवा व नरेन्द्र, जगदीन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, नफे सिंह, जीत सिंह पुत्रान केशो, विनोद कुमार, विजय कुमार पुत्रान नफे सिंह, विजय पाल सिंह, अशोक सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान जीत सिंह, श्रीमती धनपती आदि मु. खेवट. 620
				15/1	निजी	कृषि	3	9	0.1745	अमर सिंह पुत्र राम सिंह, श्रीमती धनपती आदि मु. खेवट.620
				15/2	निजी	कृषि	0	9	0.0228	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु मालकान कब्जा श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व श्रीमती सुशीला देवी, राजवंती पुत्रीयान अजाद सिंह, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती शान्ति विधवा व नरेन्द्र, जगदीन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, नफे सिंह, जीत सिंह पुत्रान केशो, विनोद कुमार, विजय कुमार पुत्रान नफे सिंह, विजय पाल सिंह, अशोक सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान जीत सिंह, श्रीमती धनपती आदि मु. खेवट. 620
				16	सरकारी	कृषि	8	0	0.4047	हरियाणा सरकार खानाकाशत दरयाव सिंह, उमराय सिंह, खीमा, राममगत, बलवीर सिंह पुत्रान जोगीराम पुत्र सुधन गैर मैरुसी
				17/1/1	सरकारी	कृषि	0	17	0.0430	
				17/1/2	निजी	कृषि	0	4	0.0101	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु मालकान कब्जा श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व श्रीमती सुशीला देवी, राजवंती पुत्रीयान अजाद सिंह, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती शान्ति विधवा व नरेन्द्र, जगदीन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, नफे सिंह, जीत सिंह पुत्रान केशो, विनोद कुमार, विजय कुमार पुत्रान नफे सिंह, विजय पाल सिंह, अशोक सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान जीत सिंह, श्रीमती धनपती आदि मु. खेवट. 620
				17/2/1	सरकारी	कृषि	0	8	0.0202	हरियाणा सरकार
				17/2/3/1	निजी	कृषि	3	12	0.1821	धर्म सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान प्रभु मालकान कब्जा श्रीमती राजबाला विधवा व रोहतास सिंह पुत्र व श्रीमती सुशीला देवी, राजवंती पुत्रीयान अजाद सिंह, सुनील कुमार पुत्र आजाद सिंह, बिरेन्द्र सिंह, दिपक, प्रदीप पुत्रान राजेन्द्र, श्रीमती शान्ति विधवा व नरेन्द्र, जगदीन्द्र पुत्रान व श्रीमती मूर्ति पुत्री रिसाला, नफे सिंह, जीत सिंह पुत्रान केशो, विनोद कुमार, विजय कुमार पुत्रान नफे सिंह, विजय पाल सिंह, अशोक सिंह, बिजेन्द्र सिंह पुत्रान जीत सिंह, श्रीमती धनपती आदि मु. खेवट. 620
				17/2/3/2	सरकारी	रास्ता	0	2	0.0051	हरियाणा सरकार खानाकाशत दरयाव सिंह, उमराय सिंह, खीमा, राममगत, बलवीर सिंह पुत्रान जोगीराम पुत्र सुधन गैर मैरुसी
				18/2	सरकारी	कृषि	0	11	0.0278	हरियाणा सरकार
				24/1	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	हरियाणा सरकार
				24/3	सरकारी	कृषि	1	5	0.0632	हरियाणा सरकार खानाकाशत ओम प्रकाश, बन्धर मान पुत्रान टाले पुत्र भोलर गैर मैरुसी
				25/2	सरकारी	कृषि	7	19	0.4022	
			144//	4/2	सरकारी	कृषि	0	17	0.0430	हरियाणा सरकार
				5/1	सरकारी	कृषि	0	3	0.0076	हरियाणा सरकार खानाकाशत गंगा सिंह, भीम सिंह पुत्र नरभु

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				5/3	सरकारी	कृषि	5	10	0.2782	हरियाणा सरकार खानाकाशत उमैद पुत्र केहरी पुत्र भुरीया गैर मैरुसी
				6/1	मिजी	कृषि	1	3	0.0582	उमैद पुत्र केहरी
				6/2/1	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	हरियाणा सरकार
				6/2/3	सरकारी	कृषि	1	1	0.0531	हरियाणा सरकार खानाकाशत उमैद पुत्र केहरी पुत्र भुरीया गैर मैरुसी
				15/1	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	हरियाणा सरकार खानाकाशत कृषि विश्व विद्यालय हिसार पट्टेदार
				15/4	सरकारी	कृषि	0	1	0.0025	हरियाणा सरकार खानाकाशत कुरडा सिंह उर्फ कुरडा पुत्र हरदेया गैर मैरुसी
				16/2	सरकारी	कृषि	0	4	0.0101	हरियाणा सरकार खानाकाशत नियादर सिंह, धर्मा पुत्र नारायण, श्रीमती भरपाई
			145//	1	सरकारी	कृषि	7	14	0.4022	हरियाणा सरकार खानाकाशत उमैद पुत्र केहरी पुत्र भुरीया गैर मैरुसी
				2	मिजी	कृषि	3	14	0.1872	श्रीमती दर्शना देवी विधवा व ईन्द्रजीत, नरेश कुमार पुत्रान बहादुरचन्द
				10/1/1	मिजी	कृषि	1	16	0.0911	उमैद पुत्र केहरी
				10/2	मिजी	कृषि	0	1	0.0025	भरवा सिंह, देवेंद्र सिंह पुत्रान गंगा सिंह, अमील, अशोक पुत्रान गिरराज, जयपाल व सुरजीत, सुधीर पुत्रान नरेन्द्र सिंह
				10/1/2	मिजी	कृषि	1	4	0.0607	जसवीर, राजेश, सुनील पुत्रान कुरडा सिंह उर्फ कुरडा
				11/1/2	सरकारी	कृषि	0	18	0.0455	हरियाणा सरकार खानाकाशत कुरडा सिंह उर्फ कुरडा पुत्र हरदेया गैर मैरुसी
				11/2	मिजी	कृषि	3	4	0.1619	जसवीर, राजेश, सुनील पुत्रान कुरडा सिंह उर्फ कुरडा
				19	मिजी	कृषि	0	19	0.0481	जसवीर, राजेश, सुनील पुत्रान कुरडा सिंह उर्फ कुरडा
				20/1	मिजी	कृषि	2	8	0.1214	हरियाणा सरकार खानाकाशत नियादर सिंह, धर्मा पुत्र नारायण, श्रीमती भरपाई
				20/2/1	सरकारी	कृषि	0	16	0.0405	हरियाणा सरकार खानाकाशत कुरडा सिंह उर्फ कुरडा पुत्र हरदेया गैर मैरुसी
				20/2/3	सरकारी	कृषि	0	13	0.0329	हरियाणा सरकार खानाकाशत न्यादर सिंह, धर्मा पुत्र नारायण, श्रीमती भरपाई
				21/1	सरकारी	कृषि	1	0	0.0506	हरियाणा सरकार खानाकाशत कुरडा सिंह उर्फ कुरडा पुत्र हरदेया गैर मैरुसी
				21/3	सरकारी	कृषि	0	6	0.0152	हरियाणा सरकार खानाकाशत कुरडा सिंह उर्फ कुरडा पुत्र हरदेया गैर मैरुसी
				22/1/2	मिजी	कृषि	0	12	0.0304	जसवीर, राजेश, सुनील पुत्रान कुरडा सिंह उर्फ कुरडा
				22/2/1	सरकारी	कृषि	3	4	0.1619	हरियाणा सरकार खानाकाशत कुरडा सिंह उर्फ कुरडा पुत्र हरदेया गैर मैरुसी
			146//	1/2	मिजी	कृषि	0	9	0.0228	हरियाणा सरकार खानाकाशत नियादर सिंह, धर्मा पुत्र नारायण, श्रीमती भरपाई
				2/1/1	मिजी	कृषि	0	11	0.0273	अम उर्फ, चन्दभान पुत्रान ताले मालकान कब्जा भवर सिंह आदि मु- खेवट न-589/569
				2/1/3	मिजी	कृषि	1	10	0.0739	सतपाल सिंह, शमशेर सिंह पुत्रान ओम प्रकाश, दारा सिंह, समुन्द सिंह, पवन कुमार पुत्रान चन्द भान
				2/2	मिजी	कृषि	2	4	0.1113	हरियाणा सरकार खानाकाशत ओम प्रकाश, चन्दभान पुत्रान ताले पुत्र भोलर गैर मैरुसीयान
				3	मिजी	कृषि	0	11	0.0278	श्रीमती भरती विधवा व बन्धीर, जगदीर, सतवीर, राजवीर पुत्रान व देवी, बीरमती पुत्रीयान रणवीर सिंह, बलवीर सिंह, महावीर सिंह पुत्रान गुलाब सिंह
				8/1	मिजी	कृषि	1	19	0.0986	बलवन्त सिंह पुत्र जुग लाल
				8/2/2	मिजी	कृषि	1	3	0.0582	हरियाणा सरकार खानाकाशत ओम प्रकाश, चन्दभान पुत्रान ताले पुत्र भोलर गैर मैरुसीयान
				9/1/1	मिजी	कृषि	0	1	0.0025	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला, भवर सिंह आदि मु- खेवट न-589/569
				9/1/2	मिजी	कृषि	0	19	0.0481	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला
				9/3	मिजी	कृषि	0	15	0.0379	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला
				12/1/2	मिजी	कृषि	0	14	0.0354	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला
				13/1/1	मिजी	कृषि	0	9	0.0228	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला
				13/1/3	मिजी	कृषि	0	19	0.0481	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला
				13/2	मिजी	कृषि	0	12	0.0304	सूरजमल पुत्र तालेराम मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जल्ले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				19	निजी	कृषि	0	3	0.0076	सूरजमल पुत्र तालेराम, मातकान कच्चा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जिले सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान रिसाला, भंवर सिंह आदि पु. खेयट नं-589/569
गौव का कुल क्षेत्रफल							147	16	7.4766	

सूरजमल पुत्र तालेराम, मालकान कब्जा श्रीमती जन्तरी पुत्री तालेराम, जिले सिंह, बलवंत सिंह पुत्रान रिसाला, भंवर सिंह आदि मु. खेवट नं-589/589

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई-रोहतक/रोहतक-जौंद/भू.अ./12-13/रोहतक]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2013

S.O. 97(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number **S.O. 1335 (E) dated 15th June 2012**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 71 on the stretch of land from **Km.332.228 to Km.347.457 (Rohtak-Jind Section)** in Rohtak District in the State of Haryana;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Dainik Bhaskar" dated 14th July 2012 and "Times of India" dated 13th July 2012; under sub-section (2) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 332.228 to KM 347.457 (Rohtak-Jind section) of the National Highway No. 71 in Rohtak District in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of Village and hadbast number	Survey number		Type of land	Nature of land	Area			Name of the Interested Person
				Rectangle number	Field number			Kanal	Maria	Hectare	
1	2	3	4	5		6	7	8			9
1.	Rohtak	1. Meham	(1) Lakhan Majra H.B.No 95	35//	984/2	Panchayat	Path	0	13	0.0329	Provincial Government
					9/1/2/2	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Smt. Murti Wd/o & Kuldeep S/o Omprakash, Japan, Azad, Ramkumar Ss/o & Smt. Chhailo, Ompati, Chandrapati, Chhoto Ds/o Ratan Singh S/o Neki
					9/1/3/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Hawa Singh, Kaliram ss/o Dayanand, Balwant, Karn Singh, Dilbag, Prem Ss/o & Smt. Ramrati D/o Surat Singh, Smt. Bimala Wd/o & Ravindra S/o Bani Singh
					11	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Mahabeer S/o Tejam, Smt. Anguri Wd/o Manphool, Chander S/o Harnarayan, Pyare S/o Harnarayan, Om Parkash S/o Harnarayan, Anup S/o Manphool, Pradeep S/o Manphool, Sandeep S/o Manphool
					12	Private	Irrigated	1	1	0.0531	
					Path	Panchayat	Path	0	1	0.0025	304-Village Panchayat
					13/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	
					14/1	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Pratap, Pala, Bedpal, Satye Ss/o Nathu
					1100/1	Panchayat	Path	0	1	0.0025	Village Panchayat
					Canal	Govt.	Canal	1	16	0.0911	281-Haryana Government
					16/1	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Mahabeer S/o Chandan, Jitender Singh, Rajender Singh Ss/o Mahabeer, Smt. Phoolpati Wd/o and Om Parkash S/o and Rajbala, Nahni, Bhateri, Anita, Geeta Ds/o Ram Singh
					17	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
					18	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Pratap, Pala, Bedpal, Satye Ss/o Nathu
					25	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Raghbeer, Raju, Surja, Jagdish Ss/o & Smt. Mewa, Vedo, Bhateri, Rato, Ds/o Munshi, S/o Uda, Phoolpati W/o Kuldeep, Smt. Birmati Wd/o and Bijender, Jogender, Surender Kumar Ss/o and Rajbala D/o Meher Singh, Dalbeer S/o Kishna
					36//	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Nahana S/o Budh Singh
					20/1	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Mahabeer S/o Chandan, Jitender Singh, Rajender Singh Ss/o Mahabeer, Smt. Phoolpati Wd/o and Om Parkash S/o and Rajbala, Nahni, Bhateri, Anita, Geeta Ds/o Ram Singh
					21	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Raghbeer, Raju, Surja, Jagdish Ss/o & Smt. Mewa, Vedo, Bhateri, Rato, Ds/o Munshi, S/o Uda, Phoolpati W/o Kuldeep, Smt. Birmati Wd/o and Bijender, Jogender, Surender Kumar Ss/o and Rajbala D/o Meher Singh, Dalbeer S/o Kishna
					Path	Panchayat	Path	0	1	0.0025	310-Village Panchayat
					22/2/1	Private	Irrigated	2	19	0.1492	Raghbeer, Raju, Surja, Jagdish Ss/o & Smt. Mewa, Vedo, Bhateri, Rato, Ds/o Munshi, S/o Uda, Phoolpati W/o Kuldeep, Smt. Birmati Wd/o and Bijender, Jogender, Surender Kumar Ss/o and Rajbala D/o Meher Singh, Dalbeer S/o Kishna
					Path	Panchayat	Path	0	5	0.0126	305-Village Panchayat
					23	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Raghbeer, Raju, Surja, Jagdish Ss/o & Smt. Mewa, Vedo, Bhateri, Rato, Ds/o Munshi, S/o Uda, Phoolpati W/o Kuldeep, Smt. Birmati Wd/o and Bijender, Jogender, Surender Kumar Ss/o and Rajbala D/o Meher Singh, Dalbeer S/o Kishna

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				52//	1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Raghbeer, Raju, Surja, Jagdish Ss/o & Smt. Mewa, Vedo, Bhateri, Rato, Ds/o Munshi, S/o Uda, Phoolpati W/o Kuldeep, Smt. Birmati Wd/o and Bijender, Jogender, Surender Kumar Ss/o and Rajbala D/o Meher Singh, Dalbeer S/o Kishna
					2	Private	Irrigated	1	2	0.0556	
					3	Private	Irrigated	4	6	0.2175	3/1 Karambeer S/o Munni Ram aka Kawar Singh, Rajesh, Sunil, Krishan Ss/o Karambeer, Omprakash, Jaipal Singh, Chander Singh, Azad Singh Ss/o Ghasi, Rajpal, Dharampal Ss/o Kapoor Singh, Suba aka Sube Singh S/o Kapoor Singh, Smt. Vidha D/o Kapoor Singh 3/2 Rajpal, Dharampal Ss/o Kapoor Singh, Suba aka Sube Singh S/o Kapoor Singh Smt. Vidha D/o Kapoor Singh
					7	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Ramesh S/o and Smt. Bala D/o Dariya Singh, Smt. Mewa Wd/o and Om Parkash, Dalbeer, Naresh Ss/o and Smt. Bimala Devi, Kamlesh, Sheela Devi, Suman Devi, Beena Devi Ds/o Ghaasi, Rajeram aka Ramraji S/o Sher Singh, Ram Kanwar, Ramphal Ss/o Prabhu, Satbeer Singh, Sri Bhagwan, Karambeer Ss/o Nand Ram, Smt. Dharmo, Chhno, Ramde Ds/o and Nand Ram S/o Jai Ram, Smt. Khazani Wd/o and Karampati, Pinki, Babita Ds/o and Rohtas, Jai Bhagwan, Harbhagwan, Mahabeer, Dharambeer Ss/o Chand Ram, Smt. Ompati, Phoolpati Ds/o and Krishan, Satbeer Ss/o Smt. Panmeshwari D/o Jai Ram, Krishan S/o Ram Kanwar Maalik Kabza Mukesh, Rajesh, Sonu Ss/o Smt. Santo D/o Sher Singh
					8	Private	Irrigated	3	17	0.1948	8/1/1 Rajpal, Dharampal Ss/o Kapoor Singh, Suba aka Sube Singh S/o Kapoor Singh 8/1/2 Om Parkash, Jaipal Singh, Chander Singh, Azad Singh Ss/o Ghaasi 8/1/3 Karambeer S/o Munni Ram aka Kawar Singh, Rajesh, Sunil, Krishan Ss/o Karambeer, Munni Ram aka Kanwar Singh 8/2 Karambeer S/o Munni Ram aka Kawar Singh, Rajesh, Sunil, Krishan Ss/o Karambeer, Omprakash, Jaipal Singh, Chander Singh, Azad Singh Ss/o Ghasi, Rajpal, Dharampal Ss/o Kapoor Singh, Suba aka Sube Singh S/o Kapoor Singh, Smt. Vidha D/o Kapoor Singh
					9	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Karambeer Singh S/o Munni Ram aka Kawar Singh, Rajesh, Sunil, Krishan Ss/o Karambeer

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				13/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Ramesh S/o and Smt. Bala D/o Dariya Singh, Smt. Mewa Wd/o and Om Parkash, Dalbeer, Naresh Ss/o and Smt. Bimala Devi, Kamlesh, Sheela Devi, Suman Devi, Beena Devi Ds/o Ghaasi, Rajaram aka Ramraji S/o Sher Singh, Ram Kanwar, Ramphal Ss/o Prabhu, Satbeer Singh, Sri Bhagwan, Karambeer Ss/o Nand Ram, Smt. Dharmo, Chhno, Ramde Ds/o and Nand Ram S/o Jai Ram, Smt. Khazani Wd/o and Karampati, Pinki, Babita Ds/o and Rohtas, Jai Bhagwan, Harbhagwan, Mahabeer, Dharambeer Ss/o Chand Ram, Smt. Ompati, Phoolpati Ds/o and Krishan, Satbeer Ss/o Smt. Panmeshwari D/o Jai Ram, Krishan S/o Ram Kanwar Maalik Kabza Mukesh, Rajesh, Sonu Ss/o Smt. Santo D/o Sher Singh
				13/2	Private	Irrigated	0	6	0.0152	
				13/3	Private	Irrigated	0	5	0.0126	
				13/4	Private	Irrigated	0	8	0.0202	
				14/1	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
				14/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	
				14/3	Private	Irrigated	3	13	0.1846	
				16	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Smt. Dharmo Wd/o and Smt. Krishna, Darshna, Indrawati, Nirmala, Shakuntala Ds/o and Ishwar, Karn Singh, Ramesh Kumar, Subhash Chand Ss/o Nand Lal, Jile Singh, Bheem Singh, Randheer Singh Ss/o Bhale Singh
				17	Private	Irrigated	3	2	0.1568	17/1 Smt. Dharmo Wd/o and Smt. Krishna, Darshna, Indrawati, Nirmala, Shakuntala Ds/o and Ishwar, Karn Singh, Ramesh Kumar, Subhash Chand Ss/o Nand Lal, Jile Singh, Bheem Singh, Randheer Singh Ss/o Bhale Singh 17/2 Smt. Ompati W/o Anil Kumar, Smt. Dharmo Wd/o and Smt. Krishana, Darshna, Indrawati, Nirmala, Shakuntala Ds/o and Ishwar, Karn Singh, Ramesh Kumar, Subhash Chander Ss/o Nand Lal, Jile Singh, Bheem Singh, Randheer Singh Ss/o Bhale Singh, Sunil Kumar S/o Dharmbeer, Jasbeer Singh, Jagbeer Singh, Jaiber Singh Ss/o Sukhbeer Singh
				18/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Ramesh S/o and Smt. Bala D/o Dariya Singh, Smt. Mewa Wd/o and Om Parkash, Dalbeer, Naresh Ss/o and Smt. Bimala Devi, Kamlesh, Sheela Devi, Suman Devi, Beena Devi Ds/o Ghaasi, Rajaram aka Ramraji S/o Sher Singh, Ram Kanwar, Ramphal Ss/o Prabhu, Satbeer Singh, Sri Bhagwan, Karambeer Ss/o Nand Ram, Smt. Dharmo, Chhno, Ramde Ds/o and Nand Ram S/o Jai Ram, Smt. Khazani Wd/o and Karampati, Pinki, Babita Ds/o and Rohtas, Jai Bhagwan, Harbhagwan, Mahabeer, Dharambeer Ss/o Chand Ram, Smt. Ompati, Phoolpati Ds/o and Krishan, Satbeer Ss/o Smt. Panmeshwari D/o Jai Ram, Krishan S/o Ram Kanwar Maalik Kabza Mukesh, Rajesh, Sonu Ss/o Smt. Santo D/o Sher Singh
				18/2	Private	Irrigated	0	6	0.0152	
				18/3	Private	Irrigated	0	12	0.0304	
				987	Panchayat	Path	0	2	0.0051	village Panchayat
				24	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Baljeet Singh S/o Jai Karn

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				25	Private	Irrigated	4	1	0.2049	25/1 Smt. Ompati W/o Anil Kumar, Smt. Dharmo Wd/o and Smt. Krishna, Darshna, Indrawati, Nirmala, Shakuntala Ds/o and Ishwar, Karn Singh, Ramesh Kumar, Subhash Chander Ss/o Nand Lal, Jile Singh, Bheem Singh, Randheer Singh Ss/o Bhale Singh, Sunil Kumar S/o Dharmbeer, Jasbeer Singh, Jagbeer Singh, Jaibeer Singh Ss/o Sukhbeer Singh 25/2 Smt. Dharmo Wd/o and Smt. Krishna, Darshna, Indrawati, Nirmala, Shakuntala Ds/o and Ishwar, Karn Singh, Ramesh Kumar, Subhash Chand Ss/o Nand Lal, Jile Singh, Bheem Singh, Randheer Singh Ss/o Bhale Singh	
				61//	5/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Balwan S/o Jai Karan
					5/2	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Chanderbhan, Ram Kavar Ss/o Meher Singh, Mange S/o Chandgi
				6 Min	Private	Irrigated	0	14	0.0354	6/1-Ramkishan, Tarachand, Balwan, Baljeet Ss/o Jaykarn, 6/2 Tara Chand S/o Jai Karan	
				62//	1	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Chanderbhan, Ram Kavar Ss/o Meher Singh, Mange S/o Chandgi
				9	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Dapila S/o Sarupa, Smt. Dharmo Wd/o and Meena D/o and Sonu, Sanjay Ss/o Ramphal, Satyawar S/o Surajbhan, Ramesh Chand S/o Jage Ram, Smt. Premwati Wd/o and Vijay Kumar, Rajender S/o Mauji, Smt. Kamla W/o Ram Kavar, Smt. Prabha Devi W/o Santal, Smt. Chanderpati W/o Bhag Singh, Smt. Sarjo Devi W/o Rajmal, Murti Devi W/o Bharat Singh, Smt. Savitri Devi W/o Indra Singh, Santosh W/o Balbeer, Radhe Shyam S/o Jagar	
				10	Private	Irrigated	4	4	0.2125		
				11	Private	Irrigated	1	6	0.0658	11/1 Tara Chand S/o Jai Karan 11/2 Ram Kishan, Tara Chand, balwan, Baljeet Ss/o Jai Karan 11/3 Ram Kishan S/o Jai Karan	
				12	Private	Irrigated	4	4	0.2125	Dapila S/o Sarupa, Smt. Dharmo Wd/o and Meena D/o and Sonu, Sanjay Ss/o Ramphal, Satyawar S/o Surajbhan, Ramesh Chand S/o Jage Ram, Smt. Premwati Wd/o and Vijay Kumar, Rajender S/o Mauji, Smt. Kamla W/o Ram Kavar, Smt. Prabha Devi W/o Santal, Smt. Chanderpati W/o Bhag Singh, Smt. Sarjo Devi W/o Rajmal, Murti Devi W/o Bharat Singh, Smt. Savitri Devi W/o Indra Singh, Santosh W/o Balbeer, Radhe Shyam S/o Jaga	
				18	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Smt. Sarjo etc. Munderza Khewat No. 553 Khanakasth Rajender, Rajbeer, Dharmbeer Singh, Baljeet, Sathar, Satpal Singh, Smt. Phoola, Smt. Kanna, Shoola Devi, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh, Smt. Khannai Hissodaran	
				19	Private	Irrigated	3	12	0.1821		

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				20	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mangeram, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Rajender, Rajbeer, Dharambeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh and others	
				22	Private	Irrigated	1	0	0.0506	23/1 Smt. Sarjo etc. Mundarza Khewat No. 553 Khanakasth Rajender, Rajbeer, Dharmbeer Singh, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh, Smt. Phoola, Smt. Kanta, Sheela Devi, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh, Smt. Khazani Hissedaran	
				23	Private	Irrigated	4	14	0.2378	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mangeram, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Rajender, Rajbeer, Dharambeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh and others	
				74//	20	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Rajmal, Nahnu, Kaliram, Kartar Ss/o Bhola, Banu Ram S/o Nahnu, Shobha Chand, Ramehar, Tara Chand Ss/o Latho Ram alies Letwa S/o Shyoram
				75//	998	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat
					2/1	Govt.	Drain	0	0	0.0000	Provincial Government
					3/1/1	Govt.	Drain	0	5	0.0126	Provincial Government
					3/1/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Smt. Bhanmati Wd/o and Devender, Rajender, Hargyan, Rambeer, Ramesh, Promod Ss/o and Smt. Bimla, Darshna, Santosh Ds/o Randheer Singh, Dharambeer Singh, Daya Singh Ss/o Sher Singh
					3/2/1	Govt.	Drain	1	2	0.0556	Provincial Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				3/2/2	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Smt. Sarjo etc. Mundarza Khewat No. 553 Khanakshi Rajender, Rajbeer, Dharmbeer Singh, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh, Smt. Phoola, Smt. Kanta, Sheela Devi, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh, Smt. Khazani Hissedaran	
				4/1	Govt.	Drain	0	2	0.0051	Provincial Government	
				4/2	Private	Irrigated	2	5	0.1138	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553 Khanakshi Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti Hissedaran	
				6	Private	Irrigated	0	4	0.0101		
				7	Private	Irrigated	4	4	0.2125		
				8	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Pradeep, Jaibeer Singh Ss/o Godha Ram, Banbari, Rampal, Randheer Singh Ss/o Began, Amardeep Ss/o Ranbeer Singh, Chhatra, Devi Ss/o Kala, Jasbeer, Jagbeer Ss/o Devi Ram, Ishwar Singh Ss/o Chhatra, Mahabeer, Jile Ss/o Tiju, Dhupa, Meda Ss/o Jai Karan, Shobha, Ram mehar, Tara Chand Ss/o Lejwa, Rajmal Ss/o Bhola, Kartar Ss/o Bhola	
				14	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				15	Private	Irrigated	4	8	0.2226	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553	
				16	Private	Irrigated	3	15	0.1897		
				17	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Pradeep, Jaibeer Singh Ss/o Godha Ram, Banbari, Rampal, Randheer Singh Ss/o Began, Amardeep Ss/o Ranbeer Singh, Chhatra, Devi Ss/o Kala, Jasbeer, Jagbeer Ss/o Devi Ram, Ishwar Singh Ss/o Chhatra, Mahabeer, Jile Ss/o Tiju, Dhupa, Meda Ss/o Jai Karan, Shobha, Ram mehar, Tara Chand Ss/o Lejwa, Rajmal Ss/o Bhola, Kartar Ss/o Bhola	
				25	Private	Irrigated	0	19	0.0481		
				315	Panchayat	Water Channel	0	3	0.0076	Village Panchayat	
				98//	5	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553

1	2	3	4	5	6	7	8		9		
				91//	1/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553
					1/2	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Rajmal, Nahnu Kali Ram, Kartar Ss/o & Smt. Khajani, Hardei, Sherya , Bhateri , Shanti Ds/o Bhola, Shobha Chand, Rameher, Tara Chand Ss/o Lajje Ram aka Lajwa
					2	Private	Irrigated	1	14	0.0860	
					8	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553
					9/1	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Rajmal, Nahnu Kali Ram, Kartar Ss/o & Smt. Khajani, Hardei, Sherya , Bhateri , Shanti Ds/o Bhola, Shobha Chand, Rameher, Tara Chand Ss/o Lajje Ram aka Lajwa
					9/2	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				10/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mangaram, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishna, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ram Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet, Sarbeer, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahu, Rajender, Rajbeer, Dharambeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh and others
				10/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Maujiram, Smt.Murti Wd/o & Kuldeep, Krishna, Pradeep,Pawan Ss/o & Smt. Sunita D/o Ramchandra, Bhola, Jaypal, Mahendra Ss/o Bhana, Shiv Singh, Sharnsher Singh, Sandeep Singh, Samundra singh, Sultan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ramsarup, Sadhu S/o Ran Singh, Surendra, Narendra, Bijendra, Rajendra, Birendra,Dalbeer Ss/o Dayanand
				12	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Phool Kanwar, Ashok Kumar, Naresh Kumar, Pawan Kumar, Manjeet Singh Ss/o Ruliya Ram, Malkaan Kabza Hariya S/o Kehari, Maalik Kabza Rambeer Singh, Dharmender Singh, Sunil Kumar Ss/o Raj Singh, Raj Singh S/o Nihalu
				13/1	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553 Khanakasht Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti Hissedaran

46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				13/2	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Smt. Ram Ss/o Mangeram, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Rajender, Rajbeer, Dharambeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh and others
				17	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Phool Kanwar, Ashok Kumar, Naresh Kumar, Pawan Kumar, Manjeet Singh Ss/o Ruliya Ram, Malkaan Kabza Hariya S/o Kehari, Maalik Kabza Rambeer Singh, Dharmender Singh, Sunil Kumar Ss/o Raj Singh, Raj Singh S/o Nihali
				18	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Smt. Sarjo etc. Mundarza Khewat No. 553 Khanakasht Smt. Sarjo, Ram Narayan, Sant Ram, Smt. Lichhmi, Krishana Devi, Bhateri, Bimala Devi Hissedarani
				19/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Gaushala Khidwari and Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Bhola, Jaipal, Mahender Ss/o and Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tara Chand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet Singh, Satbeer Singh, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Dharmbeer, Rajender Singh, Rajbeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh
				19/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	
				23	Private	Irrigated	1	0	0.0506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
				24	Private	Irrigated	4	8	0.2226	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mangeram, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ram Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Rajender, Rajbeer, Dharambeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh and others		
				102//	1072	Panchayat	Path	0	12	0.0304	Panchayat Deh	
					21	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Parwati Wd/o Bhagwana, Smt. Sandokhi Wd/o & Balwan S/o and Smt. Ompati D/o Sube, Karan Singh S/o Roop Chand, Banni Singh, Wazir Ss/o & Smt. Chandro, Shanti Ds/o Phool Chand, Balbeer Singh, Ishwar Singh, Rajender Singh Ss/o and Smt. Chandrpati, Rajbala Ds/o Teka, Captain, Jagdish, Narender, Ranbeer, Ram Chandr Ss/o Prabhu, and Krishan, Vinod Ss/o and Smt. Nirmala D/o Purn, Smt. Dhanpati D/o Hari Singh, Pravindra S/o Premo D/o Hari Singh, Premo D/o Hari Singh, Raj Kumar, Naresh Kumar, Devedner, Sajjan Ss/o and Smt. Jagpati, Munni Ds/o Bharti, Raj Kumar S/o Bharti, Dharambeer, Suresh Ss/o Gopi Ram, Balraj, Bijender Ss/o Khem Chand, Smt. Rampati D/o Ramdhari	
				103//	10/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Sadhu Ram, Rohtas Ss/o Dhajja Ram, Satpal S/o Jai Narayan	
						Path	Panchayat	Path	0	15	0.0379	1022-Panchayat Deh
					10/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553	
					11/1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Khanakashr Smt. Sarjo, Ram Narayan, Sant Ram, Smt. Lichmi, Krishana Devi, Bhateri, Bimala Devi Hissedaran	
					11/2	Private	Irrigated	5	0	0.2529	Sadhu Ram, Rohtas Ss/o Dhajja Ram, Satpal S/o Jai Narayan	
					12/1	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Satpal S/o Jai Narayan	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				12/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Narayan Singh, Ranbeer Singh, Prem Singh Ss/o Girdhara, Devender S/o Girdhara, Smt. Murti Devi Wd/o Om Parkash, Urmila Devi W/o Satbeer Singh, Sunita Devi W/o Raj Kumar, Bimala Devi W/o Jeeta, Anil Kumar S/o Bharat Singh	
				17	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Smt. Bhagwani Wd/o & Dayanand, Satyewan Ss/o and Smt. Lachhmi, Shanti, Raj Kala, Santosh Ds/o Dariya, Azad Singh S/o Jugti Ram, Chand Ram, Gopi Ss/o Rattan and Omi D/o and Baljeet Dattak S/o Prithi, Ashok Kumar S/o Smt. Santra D/o Prithi, Smt. Ram Kaur D/o Neki	
				18	Private	Irrigated	3	7	0.1695		
				19/1	Private	Irrigated	2	6	0.1163		
				19/2	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Smt. Kanta D/o Ram Partap, Malkan Kabja Sandeep, Vinod, Krishan Ss/o Masta Ram, Pawan Kumar S/o SyoPrasad Khanakasht Ram Saroop S/o Shyokaran Gair Maurusi	
				19/3	Private	Irrigated	2	7	0.1189	Sadhu Ram, Rohtas Ss/o Dhajja Ram, Satpal S/o Jai Narayan	
				20	Private	Irrigated	3	1	0.1543		
				22	Private	Irrigated	1	6	0.0658	Smt. Kanta D/o Ram Partap, Malkan Kabja Sandeep, Vinod, Krishan Ss/o Masta Ram, Pawan Kumar S/o SyoPrasad Khanakasht Ram Saroop S/o Shyokaran Gair Maurusi	
				23	Private	Irrigated	5	16	0.2934	Smt. Bhagwani Wd/o & Dayanand, Satyewan Ss/o and Smt. Lachhmi, Shanti, Raj Kala, Santosh Ds/o Dariya, Azad Singh S/o Jugti Ram, Chand Ram, Gopi Ss/o Rattan and Omi D/o and Baljeet Dattak S/o Prithi, Ashok Kumar S/o Smt. Santra D/o Prithi, Smt. Ram Kaur D/o Neki	
				24	Private	Irrigated	7	2	0.3592		
				25	Private	Irrigated	4	4	0.2125		
				104//	3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana etc Mundarza Khewat No. 553 Khanakasht Smt. Sarjo, Ram Narayan, Sant Ram, Smt. Lichmi, Krishana Devi, Bhateri, Bimala Devi Hissedarani

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				4	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Gaushala Khidwari and Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Bhola, Jaipal, Mahender Ss/o and Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop Ss/o Bhana, Tara Chand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet Singh, Satbeer Singh, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Dharmbeer, Rajender Singh, Rajbeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh Khanakasht, Dharambeer, Rajender Singh, Rajbeer Singh
				307	Panchayat	Water Channel	0	18	0.0455	Village Panchayat
				5	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Gaushala Khidwari and Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Bhola, Jaipal, Mahender Ss/o and Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop Ss/o Bhana, Tara Chand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet Singh, Satbeer Singh, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Dharmbeer, Rajender Singh, Rajbeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh
				6	Private	Irrigated	5	7	0.2706	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mange, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Rampal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bharti, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Pramod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sundr Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop Ss/o Bhana etc. Munderza Khewat No. 553 Khanakasht Smt. Sarjo, Ram Narayan, Sant Ram, Smt. Lichmi, Krishana Devi, Bhateri, Bimala Devi Hissederan
				7	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
				15/1	Panchayat	Hospital	0	0	0.0000	Village Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				15/2	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Smt. Sarjo Wd/o and Ram Narayan, Sant Ram Ss/o Mangeram, Anil, Sunil Ss/o Ram Narayan, Sumit, Amit, Deepak Ss/o Sant Ram, Ramphal, Rampal, Rajmal, Bhagat Singh, Moti, Rajpal Ss/o Bhartu, Smt. Bharpai, Kokan, Dhanpati Ds/o Bhana, Mona Wd/o and Promod, Navin Ss/o and Poonam, Seema, Monika Ds/o Shiv Singh, Rameshwar, Sunder Singh, Samunder Singh, Balwan Singh, Sajjan Singh Ss/o Ram Saroop, Ram Saroop S/o Bhana, Tarachand, Ranbeer Singh Ss/o Moti, Smt. Murti Wd/o and Kuldeep, Krishan, Pradeep, Pawan Ss/o and Smt. Sunita D/o Ram Chander, Sadhu S/o Ran Singh, Sandeep Kumar, Sunil Kumar Ss/o Sadhu, Surender, Narender, Bijender, Rajender, Virender, Dalbeer Ss/o Dayanand, Baljeet, Satbeer, Satpal Singh Ss/o Ishwar aka Nahnu, Rajender, Rajbeer, Dharambeer Singh Ss/o Jayanti, Deva Singh, Devender Singh, Surender Singh Ss/o Ram Singh and others	
				122//	4	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Smt. Bhagwani Wd/o & Dayanand, Satyewan Ss/o and Smt. Lachhmi, Shanti, Raj Kala, Santosh Ds/o Dariya, Azad Singh S/o Jugti Ram, Chand Ram, Gopi Ss/o Rattan and Omi D/o and Baljeet Dattak S/o Prithi, Ashok Kumar S/o Smt. Santra D/o Prithi, Smt. Ram Kaur D/o Neki
					5	Private	Irrigated	4	7	0.2200	Parwati Wd/o Bhagwana, Smt. Sandokhi Wd/o & Balwan S/o and Smt. Ompati D/o Sube, Karan Singh S/o Roop Chand, Banni Singh, Wazir Ss/o & Smt. Chandro, Shanti Ds/o Phool Chand, Balbeer Singh, Ishwar Singh, Rajender Singh Ss/o and Smt. Chandrpati, Rajbala Ds/o Teka, Captaan, Jagdish, Narender, Ranbeer, Ram Chandr Ss/o Prabhu, and Krishan, Vinod Ss/o and Smt. Nirmala D/o Puran, Smt. Dhanpati D/o Hari Singh, Pravindra S/o Premo D/o Hari Singh, Premo D/o Hari Singh, Raj Kumar, Naresh Kumar, Devedner, Sajjan Ss/o and Smt. Jagpati, Munni Ds/o Bhartu, Raj Kumar S/o Bhartu, Dharambeer, Suresh Ss/o Gopi Ram, Balraj, Bijender Ss/o Khem Chand, Smt. Rampati D/o Ramdhari
				123//	1	Private	Irrigated	6	16	0.3440	Parwati Wd/o Bhagwana, Smt. Sandokhi Wd/o & Balwan S/o and Smt. Ompati D/o Sube, Karan Singh S/o Roop Chand, Banni Singh, Wazir Ss/o & Smt. Chandro, Shanti Ds/o Phool Chand, Balbeer Singh, Ishwar Singh, Rajender Singh Ss/o and Smt. Chandrpati, Rajbala Ds/o Teka, Captaan, Jagdish, Narender, Ranbeer, Ram Chandr Ss/o Prabhu, and Krishan, Vinod Ss/o and Smt. Nirmala D/o Puran, Smt. Dhanpati D/o Hari Singh, Pravindra S/o Premo D/o Hari Singh, Premo D/o Hari Singh, Raj Kumar, Naresh Kumar, Devedner, Sajjan Ss/o and Smt. Jagpati, Munni Ds/o Bhartu, Raj Kumar S/o Bhartu, Dharambeer, Suresh Ss/o Gopi Ram, Balraj, Bijender Ss/o Khem Chand, Smt. Rampati D/o Ramdhari

Surajmal S/o Jai Ram									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2	Private	Irrigated	7	4	
				3 Min	Private	Irrigated	4	10	
				4	Private	Irrigated	2	5	
				5	Private	Irrigated	0	4	
				6/1	Private	Irrigated	0	18	
				6/2	Private	Irrigated	6	7	
				7	Private	Irrigated	5	17	
				Path	Panchayat	Path	0	14	
				8	Private	Irrigated	3	13	
				9	Private	Irrigated	1	4	
				15/1	Private	Irrigated	0	10	
				15/2	Private	Irrigated	0	17	
				124//	9	Private	Irrigated	0	3
				10	Private	Irrigated	3	11	
				11/1	Private	Irrigated	3	2	
				11/2	Private	Irrigated	2	11	
				12/1	Private	Irrigated	1	12	

0.3642	3/1 - Ramphal S/o Bharat Singh, Surajmal, Hajari, Ss/o jayram, Smt. Dharmo Devi Wd/o Jeet Singh S/o Phool Singh, Smt. Lado Wd/o Karn Singh, Vinod, Ramesh, Naresh Ss/o Jeet Singh, Rajendra, Wakil, Jaybhagwan Ss/o Karn Singh
0.2276	3/2- Ramphal S/o Bharat Singh
0.1138	Ranbeer S/o Mehtab
0.0101	Kuldeep, Jaipal, Balbeer Ss/o Meher Singh, Suresnder Singh, Virender Singh Ss/o Narayan Singh, Bhagat Singh S/o Badlu, Sube Singh S/o Gyani Ram, Smt. Murti Devi Wd/o Dharampal, Smt. Omwati Wd/o and Smt Suman D/o and Ashish S/o Ameer Singh, Smt. Khazani Wd/o Karan Singh, Om Parkash, Raju, Rajbeer Ss/o Ram Kishan, Bhupender Singh S/o Baljeet Singh, Smt. Indrawati W/o Om Parkash, Ramprasad S/o Sarupa, Omi D/o Ramkishan
0.0455	Shobha Chand S/o Bhola Malkaan Kabza Surajmal, Dharambeer Ss/o Sheesh Ram, Smt. Chalti Wd/o & Gangaram,
0.3212	Keshoram, Muralal, Satyanarayan Purnchand Ss/o & Smt. Bholi, Shanti Ds/o Nekiram, Khanakash Jaggan Nath, Ram Kishan Ss/o Tulsi Ram Gair Maurusiyan
0.2959	
0.0354	1225-Village Panchayat
0.1846	Parwati Wd/o Bhagwana, Smt. Sandokhi Wd/o & Balwan S/o and Smt. Omwati D/o Sube, Karan Singh S/o Roop Chand, Banni Singh, Wazir Ss/o & Smt. Chandro, Shanti Ds/o Phool Chand, Balbeer Singh, Ishwar Singh, Rajender Singh Ss/o and Smt. Chandrapati, Rajbala Ds/o Tekka, Captaan, Jagdish, Narender, Ranbeer, Ram Chandr Ss/o Prabhu, and Krishan, Vinod Ss/o and Smt. Nirmala D/o Puran, Smt. Dhanpati D/o Hari Singh, Pravindra S/o Premo D/o Hari Singh, Premo D/o Hari Singh, Raj Kumar, Naresh Kumar, Devedner, Sajjan Ss/o and Smt. Jagpati, Munni Ds/o Bhartu, Raj Kumar S/o Bhartu, Dharambeer, Suresh Ss/o Gopi Ram, Balraj, Bijender Ss/o Khem Chand, Smt. Rampati D/o Ramdhari
0.0253	Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh
0.0430	
0.0076	Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Jai Lal S/o Shiv Lal Gair Maurusi
0.1796	10/1 Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Jai Lal S/o Shiv Lal Gair Maurusi 10/2 Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Harpal S/o Jaital Gair Maurusi
0.1568	Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Began S/o Khadaga Gair Maurusi
0.1290	Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Bani, Kundan Ss/o Shyaji Gair Maurusiyan
0.0809	Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Harpal S/o Jaital Gair Maurusi

Surajmal S/o Jai Ram

3/1 - Ramphal S/o Bharat Singh, Surajmal, Hajari, Ss/o Jayram, Smt. Dharmo Devi Wd/o Jeet Singh S/o Phool Singh, Smt. Lado Wd/o Kam Singh, Vinod, Ramesh, Naresh Ss/o Jeet Singh, Rajendra, Wakil, Jaybhagwan Ss/o Kam Singh

3/2- Ramphal S/o Bharat Singh

Ranbeer S/o Mehtab

Kuldeep, Jaipal, Balbeer Ss/o Meher Singh, Surender Singh, Virender Singh Ss/o Narayan Singh, Bhagat Singh S/o Badlu, Sube Singh S/o Gyani Ram, Smt. Murli Devi Wd/o Dharampal, Smt. Ompati Wd/o and Smt Suman D/o and Ashish S/o Ameer Singh, Smt. Khazani Wd/o Karan Singh, Om Parkash, Raju, Rajbeer Ss/o Ram Kishan, Bhupender Singh S/o Baljeet Singh, Smt. Indrawati W/o Om Parkash, Ramprasad S/o Sarupa, Omi D/o Ramkishan

Shobha Chand S/o Bhola Malkaan Kabza Surajmal, Dharambeer Ss/o Sheesh Ram, Smt. Chalti Wd/o & Gangaram, Keshoram, Murarilal, Satyanarayan Purnchand Ss/o & Smt. Bholi, Shanti Ds/o Nekiram, Khanakash Jagan Nath, Ram Kishan Ss/o Tulsi Ram Gair Maurusiyan

1225-Village Panchayat

Parwati Wd/o Bhagwana, Smt. Sandokhi Wd/o & Balwan S/o and Smt. Ompati D/o Sube, Karan Singh S/o Roop Chand, Banni Singh, Wazir Ss/o & Smt. Chandro, Shanti Ds/o Phool Chand, Balbeer Singh, Ishwar Singh, Rajender Singh Ss/o and Smt. Chandrpati, Rajbala Ds/o Teka, Captaan, Jagdish, Narender, Ranbeer, Ram Chand Ss/o Prabhu, and Krishan, Vinod Ss/o and Smt. Nirmala D/o Purn, Smt. Dhanpati D/o Hari Singh, Pravindra S/o Premo D/o Hari Singh, Premo D/o Hari Singh, Raj Kumar, Naresh Kumar, Devedner, Sajjan Ss/o and Smt. Jagpati, Munni Ds/o Bhartu, Raj Kumar S/o Bhartu, Dharambeer, Suresh Ss/o Gopi Ram, Balraj, Bijender Ss/o Khem Chand, Smt. Rampati D/o Ramdhari

Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh

Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Jai Lal S/o Shiv Lal Gair Maurusi

10/1 Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Jai Lal S/o Shiv Lal Gair Maurusi 10/2 Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Harpal S/o Jailal Gair Maurusi

Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Began S/o Khadaga Gair Maurusi

Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Bani, Kundan Ss/o Shyaji Gair Maurusiyan

Ramphal, Rampal, Rajpal Ss/o Bharat Singh Khanakash Harpal S/o Jailal Gair Maurusi

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				12/2	Private	Irrigated	4	8	0.2226	Smt. Chand Kaur Wd/o and Rajbala, Santosh, Saroj Ds/o and Dharambeer, Dalbeer, Dayanand, Har Govind, Vinod, Satish Kumar Ss/o Dayanand, Satpal S/o Santu	
				Road	Govt.	Road	1	7	0.0683	398-Haryana Government	
				13	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Mastaram S/o Bharti, Smt. Suman, Sushama, Modi Ds/o Mastaram, Smt. Bhani, Dhanpati, Ds/o & Smt. Kamlesh Devi W/o Hargyan Singh, Smt Ompati D/o Deshraj, Ishwar Singh S/o Chhoturam, Krishna S/o Mastaram, Vinod S/o Mastaram, Sandeep S/o Mastaram, Balraj S/o Dayanand, Himchandra, Umed Ss/o Dharmbir	
				17	Private	Irrigated	0	13	0.0329		
				18	Private	Irrigated	7	17	0.3971		
				19	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Azad S/o Rupla, Rambhaji S/o Rupla Khanakashi Bhura S/o Mukh Ram Gair Maurusi	
				20/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000		
				23	Private	Irrigated	3	18	0.1973	Smt. Bhanmati Wd/o and Devender, Rajender, Hargyan, Rambeer, Ramesh, Promod Ss/o and Smt. Bimla, Darshna, Santosh Ds/o Randheer Singh, Dharambeer Singh, Daya Singh Ss/o Sher Singh	
				24	Private	Irrigated	5	15	0.2909		
				25-1	Private	Irrigated	0	1	0.0025		
				130//	10/2	Panchayat	Bhoor	0	1	0.0025	Village Panchayat, Old Sri Ram Temple Director Samiti Lakhan mazara
				Road	Govt.	Road	3	2	0.1568	388-Haryana Government	
				11	Panchayat	Bhoor	1	14	0.0860	Village Panchayat	
				20/1	Panchayat	Bhoor	0	18	0.0455	Pyare S/o Kuda	
				20/2	Panchayat	Bhoor	3	0	0.1518	Village Panchayat, Old Sri Ram Temple	
				21	Panchayat	Bhoor	5	0	0.2529	Director Samiti Lakhan mazara	
				Path	Panchayat	Path	5	14	0.2883	329-Village Panchayat (water channal)	
				131//	3	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Meda, Karan Singh Ss/o Risal
				4	Private	Irrigated	5	19	0.3010	Meda, Karan Singh Ss/o Risal	
				5	Private	Irrigated	2	16	0.1416	Meda, Karan Singh Ss/o Risal	
				6	Private	Irrigated	4	0	0.2023	Meda, Karan Singh Ss/o Risal	
				7	Private	Irrigated	1	10	0.0759	Meda, Karan Singh Ss/o Risal	
				15	Panchayat	Irrigated	5	17	0.2959	Village Panchayat	
				16	Panchayat	Irrigated	3	16	0.1922	Village Panchayat	
				25	Panchayat	Irrigated	2	4	0.1113	Village Panchayat	
				152//	5-2	Private	Bhoor	1	0	0.0506	Bhupendra, Indra Singh Ss/o & Smt. Khajani, Bholi Ds/o Ratan, Smt Sarajo Wd/o & Jogindra, Shamsher, Birendra Ss/o Chhoturam, Munshi S/o Nahnu
				6-1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Rajeev S/o Karn Singh	
				15	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Rajeev S/o Karn Singh	
				16	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Basti Ram S/o Bharat Singh	
				25	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Thaath Singh S/o Bharat Singh	
				153//	Path	Panchayat	Path	0	10	0.0253	1062-Village Panchayat
				1	Private	Bhoor	5	10	0.2782	Bhupendra, Indra Singh Ss/o & Smt. Khajani, Bholi Ds/o Ratan, Smt Sarajo Wd/o & Jogindra, Shamsher, Birendra Ss/o Chhoturam, Munshi S/o Nahnu	
				10-1	Private	Bhoor	2	13	0.1341	Ranveer Singh, Jagbeer Singh Ss/o Bheem Singh, Smt. Savitri Wd/o & Ameer, Dalveer Ss/o & Smt. Nirmala, Savita Ds/o Ramphal, Smt. Bharpat Wd/o & Kitabo, Hoshiyari, Ramrati, Sahabkaur, Santosh Ds/o & Mahendra, Ishwar, Ramkaur Ss/o Manphool, Smt. Guman Wd/o & Smt. Omali, Nahani, Bala Ds/o & Jaybhagwan, Rohtas, Azad Ss/o Sube Singh, Bijendra, Surendra Ss/o & Dhanno D/o Sube S/o Narayan Singh	
				10-2	Private	Bhoor	3	8	0.1720	Lachhman, Nafe Singh Ss/o Kanhiya, Smt. Surti Wd/o and Smt. Sheela, Suman Ds/o Raghbeer, Devender, Rajesh Ss/o Raghbeer, Satbeer, Dayanand, Surja S/o Bakshi, Smt. Chand Kaur, Bedo Ds/o Bakshi	
				Path	Panchayat	Path	1	3	0.0582	1060-Village Panchayat	

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				11	Private	Bhoor	5	10	0.2782	Sanjay Kumar S/o Krishan, Smt. Savitri W/o and Jai Singh, Ishwar, Devender, Ajit, Sandeep Ss/o and Smt. Suman D/o Ramphal, Smt. Brahmo, Smt. Murti Ds/o Chunni
				20	Private	Bhoor	5	10	0.2782	Basti Ram S/o Bharat Singh
				21	Private	Bhoor	6	0	0.3035	Amit S/o Ram mehar, Ram mehar S/o Ram Saroop
			158//	1	Private	Irrigated	6	0	0.3035	Dayanand, Dayachand, Mahendra, Gulab singh Ss/o Teka, Sher singh S/o Sawaliya, Bhandari, Bed Singh Ss/o Dariya
				10/1	Private	Irrigated	1	10	0.0759	
				10/2	Private	Irrigated	4	10	0.2276	Smt. Phulpati W/o & Ramdhari, Balwan, Satbeer, Karambeer, Ram Chandra, Dalbeer Ss/o Bhaga
				11	Private	Irrigated	6	0	0.3035	
				20	Private	Irrigated	5	18	0.2985	Dayanand, Dayachand, Mahendra, Gulab singh Ss/o Teka, Sher singh S/o Sawaliya, Bhandari, Bed Singh Ss/o Dariya
				21	Private	Irrigated	5	18	0.2985	
			159//	5	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Dayanand, Dayachand, Mahendra, Gulab singh Ss/o Teka, Sher singh S/o Sawaliya, Bhandari, Bed Singh Ss/o Dariya
				6	Private	Irrigated	1	0	0.0506	
				15/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Sukhbeer Singh S/o and Smt. Sandokhi D/o Risala, Mehar Singh S/o and Smt. Dhanno D/o Bhagwana, Smt. Sariya D/o Jailal, Gulab Singh S/o Tek Ram
				16/1	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Dayanand, Dayachand, Mahendra, Gulab singh Ss/o Teka, Sher singh S/o Sawaliya, Bhandari, Bed Singh Ss/o Dariya
				25	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Tuhiya, Mange Ram Ss/o Madu Ram Khanakasht Tiju S/o Pannu, Devi S/o Kala Gair Maurusi
				1069	Panchayat	Path	0	12	0.0304	Village Panchayat
			178//	5	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Tuhiya, Mange Ram Ss/o Madu Ram Khanakasht Tiju S/o Pannu, Devi S/o Kala Gair Maurusi
				6	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Roop Singh S/o Chandgi, Balwant Singh S/o Tek Ram
			179//	1/1	Private	Irrigated	1	13	0.0835	Tuhiya, Mange Ram Ss/o Madu Ram Khanakasht Tiju S/o Pannu, Devi S/o
				1/2	Private	Irrigated	4	3	0.2099	Roop Singh S/o Chandgi, Balwant Singh S/o Tek Ram
				10	Private	Irrigated	7	2	0.3592	
				11	Private	Irrigated	6	18	0.3490	
				12	Private	Irrigated	0	11	0.0278	
				19	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Bani Singh, Ranjeet Singh Ss/o and Roshni, Ompati, Krishna Ds/o Surat Singh
				20	Private	Irrigated	5	6	0.2681	
				1070	Panchayat	Path	0	13	0.0329	Village Panchayat
				21/2	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Rajbeer S/o Dariya Singh
				22	Private	Irrigated	4	8	0.2226	
			184//	2	Private	Irrigated	6	6	0.3187	Rajbeer S/o Dariya Singh
				3	Private	Irrigated	0	4	0.0101	
				8	Private	Irrigated	3	0	0.1518	8/1 Krishan S/o Dariya Singh 8/2 Deepak, Vijay Ss/o Satwan
				9	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Deepak, Vijay Ss/o Satwan
				12/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Anil Kumar, Sunil Kumar Ss/o Prakash Chand, Smt. Kamla Wd/o and Vijay S/o Jaswant Singh, Smt. Nahni Wd/o Surajbhan S/o Raghubeer
				12/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Smt. Risalo Kaur Wd/o and Rajender Singh S/o Hawa Singh, Rajender Singh S/o Hawa Singh, Rajender Singh, Bijender Singh Ss/o Hawa Singh, Ramphal, Dharampal, Sat Narayan, Ramesh Ss/o Tuhiya
				13/1	Private	Irrigated	4	2	0.2074	Krishan S/o Dariya Singh
				13/2	Private	Path	0	3	0.0076	Rajbeer, Krishan Ss/o Dariya Singh
				14/1	Private	Bhoor	0	2	0.0051	Krishan S/o Dariya Singh
				14/2	Private	Path	0	1	0.0025	Rajbeer, Krishan Ss/o Dariya Singh

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				17	Private	Bhoor	4	4	0.2125	Jai Karan S/o Nekiram, Smt. Indrawati, Phuli, Ratani, Satabiro Ds/o & Pratap, Karan Singh Ss/o Jaykaran, Omprakash, Deva, Satyawan, Chandrabhan, Satendra Ss/o Smt Ramrati D/o Rajkaran, Anil Kumar S/o Ramphal	
				18	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Smt. Risalo Kaur Wd/o and Rajender Singh S/o Hawa Singh, Rajender Singh S/o Hawa Singh, Rajender Singh, Bijender Singh Ss/o Hawa Singh, Ramphal, Dharampal, Sat Narayan, Ramesh Ss/o Tuhiya	
				23	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Jaykaran, Teju Ss/o Panu, Chhater S/o Kala, Begru S/o Khadga, Godha Ram, Banwari, Randheer Singh, Ramphal, Ranbeer Singh Ss/o Began, Ishwar Singh S/o Chatra, Jagbeer, Jasbeer Ss/o Devi Ram	
				24	Private	Irrigated	3	5	0.1644	Ram mehar S/o Mangli Ram	
				25	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Ram mehar S/o Mangli Ram	
				203//	Path	Panchayat	0	7	0.0177	429-Village Panchayat	
				4	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Jaykaran, Teju Ss/o Panu, Chhater S/o Kala, Begru S/o Khadga, Godha Ram, Banwari, Randheer Singh, Ramphal, Ranbeer Singh Ss/o Began, Ishwar Singh S/o Chatra, Jagbeer, Jasbeer Ss/o Devi Ram	
				5.1	Private	Path	0	4	0.0101	Dilbagh Singh, Dharambeer Singh Ss/o Chand Singh, Smt. Chandra Wd/o and Smt. Santosh D/o and Satbeer, Om Parkash Ss/o Ganga Dutt	
				5/2	Private	Irrigated	3	11	0.1796	Angejo Wd/o and Surender S/o Dilbagh, Dharambeer Singh S/o Chand Singh	
				6	Private	Bhoor	2	7	0.1189	Smt. Chandra Wd/o and Smt. Santosh D/o and Satbeer, Om Parkash Ss/o Ganga Dutt	
				1086	Panchayat	Path	0	2	0.0051	village Panchayat	
				7.1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	7/1 Min Rajmal, Nahnu, Kahram, Kartar Ss/o Bhola, Banu Ram S/o Nahnu, Shobha Chand, Ramehar, Tara Chand Ss/o Latho Ram alies Letwa S/o Shyoram 7/1 Min Rajmal, Nahnu, Kahram, Kartar Ss/o Bhola, Banu Ram S/o Nahnu, Shobha Chand, Ramehar, Tara Chand Ss/o Latho Ram alies Letwa S/o Shyoram Khanakshi Prabha S/o Lambua S/o Khushi Ram Gair Maurusi	
				15	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Rajmal, Nahnu, Kahram, Kartar Ss/o Bhola, Banu Ram S/o Nahnu, Shobha Chand, Ramehar, Tara Chand Ss/o Latho Ram alies Letwa S/o Shyoram	
				204//	10	Private	Bhoor	0	11	0.0278	Smt. Chandra Wd/o and Smt. Santosh D/o and Satbeer, Om Parkash Ss/o Ganga Dutt
					Path	Panchayat	0	8	0.0202	1090-Village Panchayat	
				Total of Village			449	18	22.7586		
			(2) Chandi	106//	935	Panchayat	Path	0	1	0.0025	Village Panchayat
			H. B. No. 93		15	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Jayvir Singh, Jaybhagwan S/o Gagan
					16.1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Smt. Chand Bai etc Majkuran Hakdar shamlat Sube Singh, Vajir Singh, Kapoor Singh, Chhatra Singh Ss/o Kishanlal
				107//	10	Private	Barren Land	0	5	0.0126	10/1-M/S Uday Dyes of Chemicals VPO Chandi Bajariye Vikash Gupta S/o Jayprakash
					11.1	Private	Barren Land	0	15	0.0379	11/1-2-M/S Uday Dyes of Chemicals VPO Chandi bajariye Vikash gupta S/o Jayprakash
					11.2	Private	Barren Land	2	13	0.1341	M/S Bharat Udyog Marfat Balvir Singh S/o Ratan Singh

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				19	Private	Irrigated	3	10	0.1771	Smt. Ompati wd/o & Ranveer, Jayveer Ss/o & Smt. Rajkali, Sudesh, Meena, Geeta, Rani Ds/o Bheema, Smt. Bharpai Wd/o & Smt. Kitabo, Ramrati, Hoshiyari, Shobha Devi, Santosh Devi Ds/o & Mahendra, Ishwar Singh, Raj kumar Ss/o Manphool, Smt. Savitri Wd/o & Ameer, Dalbeer, Ss/o & Smt. Nirmala, Sabita Ds/o Ramphal
				20	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Sube Singh, Vajir Singh, Kapoor Singh, Ss/o Kishanlal, Bijendra Singh, Surendra Singh Ss/o Chhatra Singh
				21	Private	Irrigated	1	0	0.0506	
				22	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Smt. Ompati wd/o & Ranveer, Jayveer Ss/o & Smt. Rajkali, Sudesh, Meena, Geeta, Rani Ds/o Bheema, Smt. Bharpai Wd/o & Smt. Kitabo, Ramrati, Hoshiyari, Shobha Devi, Santosh Devi Ds/o & Mahendra, Ishwar Singh, Raj kumar Ss/o Manphool, Smt. Savitri Wd/o & Ameer, Dalbeer, Ss/o & Smt. Nirmala, Sabita Ds/o Ramphal
				23	Private	Irrigated	0	4	0.0101	
			129//	21/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Balmat Aka Balwant S/o Purn, Smt. Phuli, Phulkaur Ds/o Purn, Smt. Rajo Wd/o & Jagphul S/o & Smt. Sudesh, Pushpa, Saroj Ds/o Malha aka Ran Singh, Smt. Shanti Wd/o Indra Singh
			130//	2	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali, Suresh Kumar, Sikandra, Samundra Ss/o Ramchandra, Krishna Chatar singh, Bharat Singh, raj Singh, Balram Ss/o Bhana Aka Bhagawana
				Path	Panchayat	Path	0	4	0.0101	901-Village Panchayat
				3	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				900	Panchayat	Path	0	6	0.0152	Village Panchayat
				7/3	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Kulbeer S/o Karn Singh, Smt. Laxmi Devi W/o Kulveer Singh, Surendra S/o Kulveer
				8/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				8/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali, Suresh Kumar, Sikandra, Samundra Ss/o Ramchandra, Krishna Chatar singh, Bharat Singh, raj Singh, Balram Ss/o Bhana Aka Bhagawana
				8/3	Private	Irrigated	2	5	0.1138	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				9	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali, Suresh Kumar, Sikandra, Samundra Ss/o Ramchandra, Krishna Chatar singh, Bharat Singh, raj Singh, Balram Ss/o Bhana Aka Bhagawana
				13	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				14	Private	Irrigated	3	5	0.1644	Kulbeer S/o Karn Singh, Smt. Laxmi Devi W/o Kulveer Singh, Surendra S/o Kulveer
				Path	Panchayat	Path	0	4	0.0101	452-Village Panchayat
				16	Private	Irrigated	3	12	0.1821	Kulbeer S/o Karn Singh, Smt. Laxmi Devi W/o Kulveer Singh, Surendra S/o Kulveer
				17	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				18	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				24	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Lachhman, Ramkaur, Rishiram, Atar Singh Ss/o Mangali
				25	Private	Irrigated	3	6	0.1669	Kulveer S/o Karn Singh, Smt. Laxmi W/o Kulveer, Surendra S/o Kulveer
			135//	5/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mahendra, Rohtas Ss/o Ram Singh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5/2	Private	Irrigated	0 17 0.0430	Kulbeer S/o Karn Singh, Smt. Laxmi Devi W/o Kulveer Singh, Surendra S/o Kulveer
				6/1	Private	Irrigated	0 7 0.0177	Mahendra, Rohtas Ss/o Ram Singh
			136//	1/1	Private	Irrigated	2 3 0.1088	Kulveer S/o Karn Singh, Smt. Laxmi W/o Kulveer, Surendra S/o Kulveer
				1/2	Private	Irrigated	0 10 0.0253	Durgadas, Tarachand Ss/o Sahabdatarnal
				9/2/2	Private	Irrigated	1 14 0.0860	Sitaram S/o Ramlal
				10/1	Private	Irrigated	0 16 0.0405	Durgadas, Tarachand Ss/o Sahabdatarnal
				10/2	Panchayat	Irrigated	0 9 0.0228	Village Panchayat
				404	Panchayat	Non-Irrigated	0 2 0.0051	Village Panchayat
				378	Govt.	Minor	1 0 0.0506	Provincial Government
				11/1	Private	Irrigated	0 10 0.0253	Pushpa Devi D/o Sitaram S/o Ganesh Das
				Path	Panchayat	Path	0 1 0.0025	472-Village Panchayat
				11/2	Private	Irrigated	0 9 0.0228	Pushpa Devi D/o Sitaram S/o Ganesh Das
				12/1	Private	Irrigated	1 16 0.0911	Smt. Neeru W/o Dinesh S/o Ramji Das
				12/2	Private	Irrigated	0 4 0.0101	Smt. Neeru W/o Dinesh S/o Ramji Das
				12/3	Private	Irrigated	1 7 0.0683	Pushpa Devi D/o Sitaram S/o Ganesh Das
				18/2	Private	Irrigated	1 10 0.0759	Smt. Neeru W/o Dinesh S/o Ramji Das
				19	Private	Irrigated	2 1 0.1037	Pushpa Devi D/o Sitaram S/o Ganesh Das
				20	Private	Irrigated	1 0 0.0506	
				22	Private	Irrigated	0 18 0.0455	
				23/1	Private	Irrigated	1 14 0.0860	
				23/2	Private	Irrigated	1 18 0.0961	Indra S/o Juglal, Satyawar s/o Nafe singh, Krishna S/o Samera
				925	Panchayat	Path	0 1 0.0025	Village Panchayat
				470	Panchayat	Water Channel	0 4 0.0101	Village Panchayat
			155//	20	Private	Irrigated	1 13 0.0835	Budhishwar S/o Santlal, Chand S/o Nyadar Singh, Smt. Prem W/o Chandram
				528 Min	Panchayat	Irrigated	1 13 0.0835	Village Panchayat
				400 Path	Panchayat	Path	0 15 0.0379	Village Panchayat
			156//	3	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Ranveer Singh, Raghveer Singh, kartar Singh, Randheer Singh, Ishwar Singh Ss/o Sultan Singh
				4	Private	Irrigated	3 16 0.1922	
				6	Private	Irrigated	0 7 0.0177	Anil kumar, Sunil kumar Ss/o Chandram
				7	Private	Irrigated	3 8 0.1720	Ranveer Singh, Raghveer Singh, kartar Singh, Randheer Singh, Ishwar Singh Ss/o Sultan Singh
				8	Private	Irrigated	1 0 0.0506	
				14/1	Private	Irrigated	0 1 0.0025	Subhashchand, Krishanlal Ss/o Bishandas
				14/2	Private	Irrigated	0 19 0.0481	Ishwar Singh S/o Chatar singh, Jagdish, Bajoor Singh, Karambeer Singh, Dharambeer Singh Ss/o Prithviraj
				928	Panchayat	Path	0 2 0.0051	Village Panchayat
				15	Private	Irrigated	3 16 0.1922	Budhishwar S/o Santlal, Chand S/o Nyadar Singh, Smt. Prem W/o Chandram
				16	Private	Irrigated	2 18 0.1467	
				17	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Ishwar Singh S/o Chatar singh, Jagdish, Bajoor Singh, Karambeer Singh, Dharambeer Singh Ss/o Prithviraj
				25	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Smt. Prem W/o Chandram, Rajeev S/o Ramji Das, Bhudhishwar Kumar s/o Santlal, Smt. Prem Wd/o & Sunita, Sunila, Sushila, Babita, Seema Ds/o Sunil, Anil Ss/o Chandram
			164//	5/1	Private	Irrigated	0 0 0.0000	Kartar Singh, Dayanand, Sanbeer, Sadanand, Randheer singh Ss/o Bal Singh
			165//	1	Private	Non-Irrigated	0 17 0.0430	Suresh Kumar S/o Shyamini, Baljeet S/o Indra Singh, Dilbag Singh S/o Palaram, Sandeep Jain S/o Shantipratap, Smt. Bimala W/o Sultan singh
				527	Panchayat	Non-Irrigated	5 5 0.2656	Village Panchayat
				526	Panchayat	Non-Irrigated	2 3 0.1088	Village Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				8/1	Private	Non-Irrigated	2	0	0.1012	Ramkarn S/o Dhara, Devendra S/o atar Singh	
				8/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Provincial Government (P.W.D)	
				10/1	Private	Non-Irrigated	1	0	0.0506	Surendra Singh, Harendra Singh, Devendra Singh, Naresh Singh, Mukendra Singh Ss/o Harnarayan, Suresh Kumar S/o Syampal, Baljeet S/o Indra Singh, Dilbag S/o Pale Ram, Satish Kumar, Rakesh Kumar, Jagdish kumar Ss/o Bhagwan Das, Preet Singh S/o Hira Singh, Dilbag singh S/o Phool Singh, Sandeep jain S/o Shanti Prakash	
				10/2	Private	Non-Irrigated	0	0	0.0000	Provincial Government (P.W.D)	
				413	Govt.	Road	0	3	0.0076	Provincial Government (P.W.D)	
				12/1	Private	Non-Irrigated	0	0	0.0000	Provincial Government (P.W.D)	
				12/2	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Smt. Sheelwanti, Pushpawanti Ds/o Govindram, Deepak kumar s/o Dalgeet Singh, Smt. Jeevani Wd/o & Anil, Sunil Ss/o & Smt. Madhu D/o Akbal Shah	
				412	Govt.	Road	0	13	0.0329	Provincial Government (P.W.D)	
				13/1	Govt.	Road	0	2	0.0051	Provincial Government (P.W.D)	
				13/2	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Subhashchand, Krishanlal Ss/o Bishandas,	
				17	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Hakadaram Shamlat Smt. Nirmala devi	
				18	Private	Irrigated	2	15	0.1391	W/o Satveer singh	
				19	Private	Irrigated	1	13	0.0835	Kuldeep Kumar, Kapil Dev, Bharat Bhushan, Pratapchandra Ss/o Bhagwandas	
				23	Private	House	2	10	0.1265		
				24/1	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Subhashchand, Krishanlal Ss/o Bishandas, Hakadaram Shamlat Smt. Nirmala devi w/o Satveer singh	
				24/2	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Smt. Sunita devi w/o Mahaveer Singh S/o Chandra Singh, Praveen s/o Sundralal	
				181//	11	Govt.	Irrigated	1	4	0.0607	Village Panchayat
				19	Panchayat	Water Channel	0	1	0.0025	Village Panchayat	
				20 Min	Panchayat	Non-Irrigated	2	7	0.1189	Village Panchayat	
				21	Panchayat	Irrigated	3	10	0.1771	Village Panchayat	
				477	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				22	Panchayat	Water Works	2	8	0.1214	Village Panchayat	
				182//	3	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Fate S/o Suman S/o Sudhan
				4/1	Private	Irrigated	1	17	0.0936		
				4/2	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Hansraj s/o Rambilas, Ranveer S/o Lakhiram, Balwan Singh S/o Katar Singh	
				5	Panchayat	Irrigated	0	13	0.0329	Village Panchayat	
				6	Panchayat	Irrigated	2	8	0.1214	Village Panchayat	
				7	Private	Irrigated	2	15	0.1391	Fate S/o Suman S/o Sudhan	
				14/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	14-Village Panchayat	
				932	Panchayat	Path	0	4	0.0101	Village Panchayat	
				15/1	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Ramdas, Murhatan Gopal Das S/o Hira nand, Murhatan Sitaram S/o & Smt. Siwanditi D/o Ramlal, Dhajaram S/o Bhaiyaram, Bharpai D/o Lalchand, Jaykishan S/o Dhajia Ram, Smt. Gindaudi Wd/o & Jogendra, Birendra Ss/o & Smt. Dayawanti, Kusamlata Ds/o Balbeer, Smt. Santosh W/o Krishan	
				15/2	Private	Barren Land	1	0	0.0506	Village Panchayat	
				16	Panchayat	Irrigated	2	1	0.1037	Village Panchayat	
				25	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Village Panchayat	
				194//	1	Panchayat	Irrigated	2	5	0.1138	Village Panchayat
				2	Panchayat	Water Works	2	1	0.1037	Village Panchayat	
				3	Panchayat	Water Works	0	8	0.0202	Village Panchayat	
				8	Panchayat	Irrigated	1	18	0.0961	Village Panchayat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				429	Panchayat	Water Channel	0 5 0.0126	Village Panchayat
				9	Panchayat	Irrigated	2 12 0.1315	Village Panchayat
				12	Panchayat	Irrigated	0 9 0.0228	Village Panchayat
				13	Govt.	Irrigated	2 2 0.1062	Village Panchayat
				14	Panchayat	Irrigated	2 9 0.1239	Village Panchayat
				16	Panchayat	Irrigated	0 2 0.0051	Village Panchayat
				17	Panchayat	Irrigated	3 3 0.1593	Village Panchayat
				18	Govt.	Irrigated	2 8 0.1214	Village Panchayat
				23	Private	Irrigated	0 0 0.0000	Village Panchayat
				24	Panchayat	Irrigated	1 19 0.0986	Village Panchayat
				25	Private	Irrigated	3 12 0.1821	Krishan, Bijendra, Surendra Ss/o Ramkaur
			206//	468	Govt.	Road	0 12 0.0304	Provincial Government
				1	Private	Irrigated	0 12 0.0304	Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
				10	Private	Irrigated	3 7 0.1695	
				496	Panchayat	Water Channel	0 5 0.0126	Village Panchayat
				11-1	Private	Irrigated	0 16 0.0405	Jagveer Singh S/o Sardar Singh
				11-2-1	Private	Irrigated	0 9 0.0228	Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
				11-2-2	Private	Irrigated	0 11 0.0278	Krishan, Bijendra, Surendra Ss/o Ramkaur
				12-1	Private	Irrigated	0 3 0.0076	Harishchandra, Jagdishlal Ss/o Vajir chand
				12-2-1	Private	Irrigated	0 11 0.0278	Harishchandra, Jagdishlal Ss/o Vajir chand
				12-2-2	Panchayat	Irrigated	1 13 0.0835	Village Panchayat
				18-2	Private	Irrigated	0 2 0.0051	Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
				19	Private	Irrigated	3 17 0.1948	
				20	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Raj Singh S/o Sardar Singh
				22	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Raj Singh S/o Sardar Singh
				23	Private	Irrigated	4 4 0.2123	Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
			207//	4	Private	Non-Irrigated	1 6 0.0658	Village Panchayat
				5	Private	Irrigated	3 4 0.1619	Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
				6 Min	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Jagveer Singh S/o Sardar Singh
				15	Private	Irrigated	0 1 0.0025	Jagveer Singh S/o Sardar Singh
			221//	2 Min	Private	Irrigated	0 19 0.0481	2/1- Village Panchayat, 2/2 Rajan, Dipak Ss/o Preem Singh
				3	Private	Irrigated	3 3 0.1593	Panju ram Majkur etc., Hakadar Shamlat Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
				4-1	Private	Irrigated	0 8 0.0202	Panju ram Majkur etc., Hakadar Shamlat Ramphal S/o Prabhu S/o Masaniya
				4-2	Private	Irrigated	0 1 0.0025	Ramphal S/o Prabhu, Smt. Basantkaur, Rajkumari, Pushpa Devi, Lalawa Ds/o & Vedprakash, Omprakash, Rajendrapal, Ravindrapal Ss/o Fatehchand, Krishan, Bijendra, Surendra Ss/o Ramkaur
				7	Private	Irrigated	4 2 0.2074	Jitendra Singh S/o Rishal Singh, Smt. Bimala W/o Jitendra, Jaykishan S/o Chhotelal, Rani Memorial Cheritable Trust 164 R Model Town Rohtak
				938 Min	Panchayat	Path	0 2 0.0051	Village Panchayat
				8	Private	Irrigated	0 18 0.0455	Smt. Monika W/o Rajan, Smt. Neelam W/o Deepak
				13	Private	Irrigated	1 0 0.0506	
				14	Private	Irrigated	2 12 0.1315	Jitendra Singh S/o Rishal Singh, Smt. Bimala W/o Jitendra, Jaykishan S/o Chhotelal, Rani Memorial Cheritable Trust 164 R Model Town Rohtak
				15	Private	Irrigated	1 8 0.0708	
				16/1	Private	Irrigated	1 4 0.0607	M/S Diamond Fish Farm, Chandi
				16/2 Min	Private	Irrigated	2 15 0.1391	Arjji Matruka Bakaya Alai
				17	Private	Irrigated	1 0 0.0506	Smt. Bimala Devi W/o Prem Singh, Prem Singh S/o Maya ram, Rajan, Deepak Ss/o Prem Singh, Ved Singh S/o Sultan, Smt. Monika w/o Rajan, Smt. Neelam W/o Deepak
				24	Private	Irrigated	0 0 0.0000	
				25/1	Private	Irrigated	1 0 0.0506	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				25/2	Private	Irrigated	1	8	0.0708	M/S Diarpood Fish Farm Chandi, Smt. Mayawanti Wd/o & Krishan Singh, Mahesh Kumar, Kailash Kumar, Satish Kumar Ss/o & Smt. Amita Rakhap D/o Madanlal, Smt. Rampyari Wd/o & Shilawanti, Lila Kumari, Usha Kumari, Meera Ds/o & Harikishan S/o Har Bhagwan	
				222//	20/2	Private	Irrigated	0	0	0.0000	
				21	Private	Irrigated	2	8	0.1214		
				232//	1 Min	Private	Irrigated	0	10	0.0253	M/s D-Diamond fish farm Smt. Mayawanti Wd/o & Krishan Kumar, Mahesh Kumar, Kailash Kumar, Satish Kumar Ss/o & Smt. Amita Rani D/o Madanlal, Smt. Rampyari Wd/o & Shilawanti, Lila Kumari, Usha Kumari, Mira Kumari Ds/o & Hari kishan S/o Har Bhagwan
				376	Govt.	Road	4	9	0.2251	Provincial Government	
				2/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Vedprakash S/o Balleram, Smt. Krishna W/o Vedprakash	
				26/1	Private	Irrigated	1	5	0.0632		
				26/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405		
				9/2	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Vedprakash S/o Balleram, Smt. Krishna W/o Vedprakash	
				10	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Mahendra, Dilawar Ss/o Dharma, Smt. Bedo Mother Kashmir S/o Dharma	
				11	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Mahendra, Dilawar Ss/o Dharma, Satvir Singh S/o Mohanlal, Smt. Bedo Mother Kashmir S/o Dharma	
				12/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Vedprakash S/o Balleram, Smt. Krishna W/o Vedprakash	
				12/2	Private	Irrigated	2	13	0.1341		
				12/3	Private	Irrigated	0	1	0.0025		
				13/2	Private	Irrigated	1	5	0.0632		
				13/3	Private	Irrigated	0	8	0.0202		
				13/4	Private	Irrigated	0	0	0.0000		
				17	Private	Irrigated	2	8	0.1214	Tekram, Ved pal, Ranveer Ss/o Mauji, Balbeer S/o Dulichand, Jagat Singh, Krishan Ss/o Richhpal	
				18	Private	Irrigated	6	10	0.3288		
				19	Private	Irrigated	2	9	0.1239	Mahendra, Dilawar Ss/o Dharma, Smt. Bedo Mother Kashmir S/o Dharma	
				21	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Satveer Singh S/o Daryav Singh	
				22/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202		
				22/2	Private	Irrigated	5	15	0.2909	Mahendra, Dilawar Ss/o Dharma, Smt. Bedo Mother Kashmir S/o Dharma	
				23	Private	Irrigated	2	5	0.1138		
				24	Private	Irrigated	8	8	0.4249	Tekram, Ved pal, Ranveer Ss/o Mauji, Balbeer S/o Dulichand, Jagat Singh, Krishan Ss/o Richhpal	
				976	Private	Non-Irrigated	1	0	0.0506	Village Panchayat	
				25	Private	Irrigated	0	3	0.0076	25/1-Tekram, Ved pal, Ranveer Ss/o Mauji, Balbeer S/o Dulichand, Jagat Singh, Krishan Ss/o Richhpal 25/2-Angi Matruka Bakaya Alai	
				232	5	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Rajboer, Ranveer Singh, Jayveer Singh, Vijayveer Singh Ss/o Chandgi ram, Smt. Rajni Wd/o & Mohit S/o & Smt. Manjeet D/o Satveer Singh Aka Dalveer Singh
				248//	2/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Ranjeet Singh, Hawa Singh Ss/o Daryav Singh
				2/2	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Chandram, Jagdish, Ranveer Ss/o Hazari	
				3	Private	Irrigated	6	9	0.3263		
				4	Private	Irrigated	5	6	0.2681	Tekram, Ved pal, Ranveer Ss/o Mauji, Balbeer S/o Dulichand, Jagat Singh, Krishan Ss/o Richhpal	
				5	Private	Irrigated	3	14	0.1872		
				6	Private	Irrigated	7	5	0.3667	Tekram, Ved pal, Ranveer Ss/o Mauji, Balbeer S/o Dulichand, Jagat Singh, Krishan Ss/o Richhpal	
				7	Private	Irrigated	3	11	0.1796	Chandram, Jagdish, Ranveer Ss/o Hazari	
				8	Private	Irrigated	5	0	0.2529		
				13	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Baldew Raj S/o Arjun Das, Chandram, Jagdish, Ranveer Ss/o Hazari	
				14/1	Private	Irrigated	4	13	0.2352		

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				14/2	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Paldevraj S/o Arjun Das, Karnal Singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Dinesh Ss/o Tekram, Ramesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Smt. Nilam Wd/o & Neha, Muskan Ds/o Mukesh	
				15	Private	Community Center	4	3	0.2099	Rajkumar adopted S/o Karn Singh, Bhawar Singh, Jagdish, Lili Ss/o & Smt. Bhawari, Radha, Shakuntla, Bala Ds/o Smt. Shanti D/o Baga	
					Private	Irrigated	5	4	0.2630	Ranveer singh, Ramesh Ss/o Maha singh, Rajendra, Jagveer, Jaypal Ss/o Mairam, Smt. Sarati Devi Wd/o & Dharamveer, Satveer, Dalveer, Suresh kumar, Anil Kumar Ss/o & Ompati D/o Jay singh, Balraj, Dilbag, Krishan Ss/o Jile Singh	
					Private	Irrigated	3	14	0.1872	Baldevraj S/o Arjun Das, Karnal Singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Dinesh Ss/o Tekram, Ramesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Smt. Nilam Wd/o & Neha, Muskan Ds/o Mukesh, Khanakast Arjundas S/o Ganesh Das	
				24	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Ranveer singh, Ramesh Ss/o Maha singh, Rajendra, Jagveer, Jaypal Ss/o Mairam, Smt. Sarati Devi Wd/o & Dharamveer,	
				25	Private	Irrigated	6	16	0.3440	Satveer, Dalveer, Suresh kumar, Anil Kumar Ss/o & Ompati D/o Jay singh, Balraj, Dilbag, Krishan Ss/o Jile Singh	
				249/1	10	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Raj Kumar Adopted S/o Karn Singh
					11	Private	Irrigated	5	8	0.2732	
					19	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Ramesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Karn singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Naresh, Dinesh Ss/o Tekram, Smt. Neelam Wd/o & Neha, Muskan Ds/o Mukesh
					20	Private	Irrigated	6	18	0.3490	
					21/1	Private	Irrigated	1	18	0.0961	Satveer, Anil Kumar S/o Jay singh, Smt. Sarati Devi Wd/o & Dharamveer, Dalveer, Suresh kumar, Ss/o & Ompati D/o Jay singh, Ranveer singh, Ramesh Ss/o Maha singh
				21/2	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Budhiraja S/o Radhesyam	
				22/1	Private	Irrigated	5	8	0.2732		
				22/2	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Ramesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Karn singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Naresh, Dinesh Ss/o Tekram, Smt. Neelam Wd/o & Neha, Muskan Ds/o Mukesh	
				23	Private	Irrigated	0	2	0.0351		
				255/1	1	Private	Irrigated	6	10	0.3288	Omprakash, Kavar Pal, Maan singh Ss/o Jhundu Singh, Smt. Sugan bai W/o & Rangeet, Azad, Rishi, Rajendra, Ashok Ss/o Shobha, Smt. Savitri D/o Kanha, Beerpal, Krishan, Sripal Ss/o Narayan, Karn singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Naresh, Dinesh Ss/o Tekram, Ramesh, Mukesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Smt. Sita Devi Wd/o & Yashpal S/o & Smt. Laxmi, Rakhi Ds/o Lili, Badlu S/o Kanha, Smt. Gyandei Wd/o Narayan Singh, Smt. Krishna W/o Vedprakash
					Private	Irrigated	5	18	0.2985	Atul Jain & Sons HUF Bajariye Karta	
				3	Private	Irrigated	5	8	0.1720	Atul Jain S/o Rameshchand	
				8	Private	Irrigated	4	19	0.2504	8/1- Atul Jain & Sons HUF Bajariye Karta Atul Jain S/o Rameshchand, 8/2- Smt. Narangi Devi Jain Memorial Trust Rohtak bajariye Sansthapak Atul jain s/o Ramchand	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				9	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Omprakash, Kavar Pal, Maan singh Ss/o Jhundu Singh, Smt. Sukan bai W/o & Rangeet, Azad, Rishi, Rajendra, Ashok Ss/o Shobha, Smt. Savitri D/o Kanha, Beerpal, Krishan, Sripal Ss/o Narayan, Karn singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Naresh, Dinesh Ss/o Tekram, Ramesh, Mukesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Smt. Sita Devi Wd/o & Yashpal S/o & Smt. Laxmi, Rakhi Ds/o Lilu, Badlu S/o Kanha, Smt. Gyandei Wd/o Narayan Singh, Smt. Krishna W/o Vedprakash	
				10	Private	Irrigated	5	12	0.2833		
				11	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Tez Singh, Jagat Singh, Hansraj, Dhoop Singh Ss/o Bhartu	
				12	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Smt. Dakhan Wd/o & Tez Singh, Jagat Singh, Hansraj, Dhoop Singh Ss/o & Smt. Vidha Devi, Satna Devi, Maha devi Ds/o Bhartu, Suchet Singh S/o Priithi Singh, Ramendra S/o Raaj Singh	
				13	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Memorial Trust Rohtak Bajeriye Atul Jain S/o Rameshchand	
				14	Private	Irrigated	0	7	0.0177		
				17	Private	Irrigated	4	0	0.2023		
				18	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Somveer, Omveer Ss/o Sumer Singh	
				23 Min	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Rajender Singh, Jagat Singh, Jaybhagwan Ss/o Preme Singh	
				307	Panchayat	Path	0	2	0.0051	Village Panchayat	
				24	Private	Irrigated	2	18	0.1467	Memorial Trust Rohtak Bajeriye Atul Jain S/o Rameshchand	
				25	Private	Irrigated	1	4	0.0607		
				256//	5	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Omprakash, Kavar Pal, Maan singh Ss/o Jhundu Singh, Smt. Sukan bai W/o & Rangeet, Azad, Rishi, rajendra, Ashok Ss/o Shobha, Smt. Savitri D/o Kanha, Beerpal, Krishan, Sripal Ss/o Narayan, Karn singh, Jaybhagwan, Dilbag, Surendra, Naresh, Dinesh Ss/o Tekram, ramesh, Mukesh, Rajesh Ss/o Vedpal, Smt. Sita Devi Wd/o & Yasipal S/o & Smt. Laxmi, Rakhi Ds/o Lilu, Badlu S/o Kanha, Smt. Gyandei Wd/o Narayan Singh, Smt. Krishna W/o Vedprakash
				274//	4	Private	Company	0	19	0.0481	M/S Gulia Pvt. Ltd-Bajariye Balbeer Singh S/o Pratap Singh
					5	Private	Irrigated	4	6	0.2175	Memorial Trust Rohtak Bajeriye Atul Jain S/o Rameshchand
					6/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	
					6/2	Private	Barren Land	0	4	0.0101	Rajbeer, Ranveer Singh, Jayveer Singh, Vijayveer Singh Ss/o Chandgi ram, Smt. Rajni Wd/o & Mohit S/o & Smt. Manjeet D/o Satveer Singh Aka Dalveer Singh
					6/3	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Pratap Singh S/o Nekiram
					7	Private	Company	0	2	0.0051	M/S Gulia Pvt. Ltd-Bajariye Balbeer Singh S/o Pratap Singh,
				275//	1/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Araji Matruka Bakaya Alat Hakdaar Shanilat Smt. Narangi Devi Jain Memorial Trust Rohtak bajeriye Sansthapak Atul jain s/o Ramchand
					10	Private	Barren Land	0	8	0.0202	Rajbeer, Ranveer Singh, Jayveer Singh, Vijayveer Singh Ss/o Chandgi ram, Smt. Rajni Wd/o & Mohit S/o & Smt. Manjeet D/o Satveer Singh Aka Dalveer Singh
				906	Private	Path	0	6	0.0152	Village Panchayat	
				Total of Village			396	17	20.0751		
	2.	(1) Bhagwatipur	2//	6.1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Dharma, Baldeva, Rajal Ss/o Amar Singh	
	Rohtak	H. B. No. 89		6.3	Private	Irrigated	0	8	0.0202		
				Path	Panchayat	Path	0	7	0.0177	148-Village Panchayat	
				15/1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Dharma, Baldeva, Rajal Ss/o Amar Singh	
			3//	10	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Virender S/o Ram Kishan	
				11/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Virender S/o Ram Kishan	
				11.3	Private	Irrigated	3	19	0.1998	Virender S/o Ram Kishan	
				12	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Virender S/o Ram Kishan	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				19/1	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Virender S/o Ram Kishan	
				20/1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Virender S/o Ram Kishan	
				20/3	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Virender S/o Ram Kishan	
				126 Min	Panchayat	Path	0	6	0.0152	Village Panchayat	
				21/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Virender S/o Ram Kishan	
				22/1	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Virender S/o Ram Kishan	
				22/3	Private	Irrigated	3	7	0.1695	Surendra S/o Ram Kishan	
				23	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Surendra S/o Ram Kishan	
				8//	21	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Sunil Kumar, Sushil Kumar Ss/o Satbeer Singh
				9//	2/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Surendra S/o Ram Kishan
				2/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Surendra S/o Ram Kishan	
				3/2 Min	Private	Irrigated	3	19	0.1998	3/2/4 Surendra S/o Ram Kishan	
				7/2	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Baldeva S/o Kanhiya	
				8/1/1	Private	Irrigated	2	4	0.1113	Baldeva S/o Kanhiya	
				8/1/3	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Baldeva S/o Kanhiya	
				8/2/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Surendra S/o Ram Kishan	
				9	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Surendra S/o Ram Kishan	
				13/1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Baldeva S/o Kanhiya	
				14/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Baldeva S/o Kanhiya	
				14/3	Private	Irrigated	4	3	0.2099	Baldeva S/o Kanhiya	
				15	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Rajesh, Amarjeet Singh Ss/o Ranbeer Singh	
				16/1	Private	Irrigated	3	0	0.1518		
				17/1	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Baldeva S/o Kanhiya	
				17/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Baldeva S/o Kanhiya	
				24/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Rajender Singh S/o Baldev Singh	
				24/2/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228		
				25/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Rajesh, Amarjeet Singh Ss/o Ranbeer Singh	
				25/3	Private	Irrigated	3	14	0.1872		
				22//	5/1	Private	Irrigated	0	7	0.0177	
				5/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Rajesh, Amarjeet Singh Ss/o Ranbeer Singh	
				6/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101		
				23//	1/2	Private	Irrigated	3	17	0.1948	Sunil Kumar, Sushil Kumar Ss/o Satbeer Singh
				9	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Chand Singh, Rakesh Ss/o Balbeer Singh	
				10/1	Private	Irrigated	2	13	0.1341		
				10/3	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Sunil Kumar, Sushil Kumar Ss/o Satbeer Singh	
				11/1	Private	Irrigated	0	19	0.0481		
				11/2	Private	Irrigated	0	0	0.0000		
				12/1	Private	Irrigated	4	3	0.2099	Chand Singh, Rakesh Ss/o Balbeer Singh	
				12/3	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Smt. Birmati W/o Ranbeer Singh	
				13	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh Ss/o Meehu, Yashbeer S/o Yashpal, Ajay S/o Jaypal, Sandeep, Sanjay Ss/o Jai Singh, Khanakast Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh	
				18 Min	Private	Irrigated	2	12	0.1315	18/1 Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh Ss/o Meehu, Yashbeer S/o Yashpal, Ajay S/o Jaypal, Sandeep, Sanjay Ss/o Jai Singh, Khanakast Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh	
				19/1	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Chand Singh, Rakesh Ss/o Balbeer Singh	
				19/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Smt. Birmati W/o Ranbeer Singh	
				20/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Sunil Kumar, Sushil Kumar Ss/o Satbeer Singh	
				22/2	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Ranbeer Singh S/o Hakim Singh	
				23/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh Ss/o Meehu, Yashbeer S/o Yashpal, Ajay S/o Jaypal, Sandeep, Sanjay Ss/o Jai Singh, Khanakast Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh	
				23/3	Private	Irrigated	3	16	0.1922		
				24 Min	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh Ss/o Meehu, Yashbeer S/o Yashpal, Ajay S/o Jaypal, Sandeep, Sanjay Ss/o Jai Singh, Khanakast Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh, Sandeep, Sanjay, Ajay, Yashbeer	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				31//	20/2	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh Ss/o Meehu, Yashbeer S/o Yashpal, Ajay S/o Jaypal, Sandeep, Sanjay Ss/o Jai Singh, Khanakast Sandeep, Sanjay, Ajay, Yashbeer
					21/1	Private	Irrigated	4	1	0.2049	
					21/3	Private	Irrigated	0	5	0.0126	
					22/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh Ss/o Meehu, Yashbeer S/o Yashpal, Ajay S/o Jaypal, Sandeep, Sanjay Ss/o Jai Singh, Khanakast Anup Singh, Ranbeer Singh, Randheer Singh, Samer Singh
				32//	3/2/1	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Jagat Singh, Krishan Lal Ss/o Richchpal
					3/2/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	
					4/2	Private	Irrigated	3	18	0.1973	Vikram S/o Chand Karan S/o Gopal
					6	Private	Irrigated	1	4	0.0607	Vikram S/o Chand Karan S/o Gopal
					7/1	Private	Irrigated	3	2	0.1568	Vikram S/o Chand Karan S/o Gopal
					7/3	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Balbeer Singh S/o Gopal
					8/2/2/1	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Jagat Singh S/o Richchpal
					14/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Balbeer Singh S/o Gopal
					14/3	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Balbeer Singh S/o Gopal
					15/1	Private	Irrigated	3	19	0.1998	Balbeer Singh S/o Gopal
					15/3	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Balbeer Singh S/o Gopal
					16/1 Min	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Balbeer Singh S/o Gopal
					16/3	Private	Irrigated	2	14	0.1366	Surender Singh S/o Dalip Singh
					143	Panchayat	Path	0	18	0.0455	Village Panchayat
					17	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Surender Singh S/o Dalip Singh
					25/1/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Balbeer Singh S/o Gopal
					25/2/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Khali, The Arya School Trust and Managment Society Bada bazar Rohtak, Marfat Sri Ganga Bisan pradhan & Yogendra Lal Secretary & other Members
				50//	1/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Ranbeer, Jagbeer, Rajbeer, Sukhbeer Ss/o Midu, Rajender, Rajpal, Jaipal, Jai Singh, Haripal, Surendra Ss/o Mandrup
					1.3	Private	Irrigated	0	19	0.0481	
					2/1.1	Private	Irrigated	0	19	0.0481	
					2/2/2	Private	Irrigated	2	5	0.1138	2/2 Vijender S/o Gyan Singh
					8/2	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Karn Singh, Dharamveer Singh, Jaiveer, Karambeer Singh Ss/o & Chhanno, Rajo, Ramrati Ds/o Nihalu
					9/1	Private	Irrigated	3	10	0.1771	
					9/3	Private	Irrigated	0	11	0.0278	
					10/2	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Ranbeer, Jagbeer, Sukhbeer Ss/o Midu, Rajendra, Rajpal, Jaipal, Jai Singh, Haripal, Surendra Ss/o Mandrup
					152 Min	Panchayat	Path	0	9	0.0228	Village Panchayat
					12-1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Dariya Singh S/o Sohan, Dhanno D/o Sohan
					12-3	Private	Irrigated	0	3	0.0076	
					13/2	Private	Irrigated	3	14	0.1872	
					17/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Raghbeer S/o Mohan Lal
					17/2	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Balraj, Surajbhan Ss/o Bani Singh, Omprakash S/o Maha singh
					18/1/1	Private	Irrigated	2	1	0.1037	Dariya Singh S/o Sohan, Dhanno D/o Sohan
					18-2-3	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Balraj, Surajbhan Ss/o Bani Singh, Omprakash S/o Maha singh
					18/1/3	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Dariya Singh S/o Sohan, Dhanno D/o Sohan
					18/2/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Balraj, Surajbhan Ss/o Bani Singh, Omprakash S/o Maha singh
					19/1/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Dariya Singh S/o Sohan, Dhanno D/o Sohan
					19/2	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Smt. Garibani Wd/o & Sukhdei D/o & Prem, Rajmal S/o Kisanlal, Virendra, Surendra, Jitendra Ss/o Prem, Smt. Kamala Mother & Narendra S/o Prem, Mahendra singh, Dilawar Singh Ss/o Dharm Singh
					23/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Balraj, Surajbhan Ss/o Bani Singh, Omprakash S/o Maha singh
					23/3	Private	Irrigated	0	18	0.0455	
					24/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	
					24/3	Private	Irrigated	3	17	0.1948	
					163 Min	Panchayat	Path	0	9	0.0228	Village Panchayat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				58//	10	Private	Irrigated	0 0228	Smt. Bharato Wd/o Surjeet, Smt. Dhanno Wd/o & Bijie Singh S/o & Smt. Chandro, Bula, Chando, Nahani Ds/o Lahari Singh, Smt. Dharmali D/o Purn Singh, Sameer Singh, Mahpal Singh, Balraj Singh Ss/o Surjeet, Ameer Singh S/o Sajjan Singh S/o Balveer Singh Khanakast Smt. Dhanno, Smt. Chandro, Bula, Chando, Nahani & Bijie Singh
					11	Private	Irrigated	0 1821	Shamser Singh, Balraj Ss/o Hans Raj, Hans Raj S/o Mange, Mukhtyar Singh, Narayan Singh Ss/o Tek Chand, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar Ss/o Raj Singh
					12	Private	Irrigated	0 0531	Smt. Sarjo Wd/o and Sunita D/o and Sandeep S/o Randheer Singh
					20.1	Private	Irrigated	0 1568	Shamser Singh, Balraj Ss/o Hans Raj, Hans Raj S/o Mange, Mukhtyar Singh, Narayan Singh Ss/o Tek Chand, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar Ss/o Raj Singh
					20.3	Private	Irrigated	0 0329	Smt. Sarjo Wd/o and Sunita D/o and Sandeep S/o Randheer Singh
					21-11	Private	Irrigated	0 0329	Smt. Sarjo Wd/o and Sunita D/o and Sandeep S/o Randheer Singh
					21-11	Panchayat	Irrigated	0 0177	Village Panchayat
					21.3	Private	Irrigated	0 0051	Shamser Singh, Balraj Ss/o Hans Raj, Hans Raj S/o Mange, Mukhtyar Singh, Narayan Singh Ss/o Tek Chand, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar Ss/o Raj Singh
					21.3	Private	Irrigated	0 0049	
					21.3	Private	Irrigated	0 0096	
				59//	3.2	Private	Irrigated	0 0000	Balraj, Suraj Bhan Ss/o Banni Singh, Om
					3.1.1	Private	Irrigated	0 0253	Parkash S/o Maha Singh
					4.2/1	Private	Irrigated	0 0177	Anand Kumar S/o Ram Saroop
					4.2.3	Private	Irrigated	0 0658	Anand Kumar S/o Ram Saroop
					5.2	Private	Irrigated	0 1306	Anand Kumar S/o Ram Saroop
					6.1	Private	Irrigated	0 1948	Anand Kumar S/o Ram Saroop
					6.3	Private	Irrigated	0 0202	Anand Kumar S/o Ram Saroop
					7.2	Private	Irrigated	0 0304	Anand Kumar S/o Ram Saroop
					15.1.1	Private	Irrigated	0 0253	Ram Saroop S/o Kanhiya, Anand S/o
					15.1.2	Private	Irrigated	0 0278	Ram Saroop
					15.1.2	Private	Irrigated	0 0253	Shamser Singh, Balraj Ss/o Hans Raj, Hans Raj S/o Mange, Mukhtyar Singh, Narayan Singh Ss/o Tek Chand, Pradeep Kumar, Sandeep Kumar Ss/o Raj Singh
					16.1	Private	Irrigated	0 0177	
				77//	56 Min	Panchayat	Road	0 0328	Village Panchayat
					1.1	Govt.	Road	0 0000	Village Panchayat
					2.1.1	Govt.	Road	0 0051	Village Panchayat
					21.1	Private	Irrigated	0 0405	Smt. Murti, Bhanti Ds/o and Rohtas Singh, Ram Chandra, Suresh Kumar, Mahendra Singh Ss/o Richhpal, Ramroop, Indra Ss/o Tek Chand, Ishwar Singh, Sukhveer Singh, Kartar Singh, Ramphal, Ramesh Kumar Ss/o Purn aka Dhanpal, Pradeep Kumar S/o Jagdev Singh
					2.3	Private	Irrigated	0 0809	
					3.2	Private	Irrigated	0 1163	Bhim Singh, Maha Singh Ss/o Bharti, Hosyar Singh, Balwan Singh, Rajendra Singh Ss/o & Smt. Shanti, Kamala Ds/o Kanshiram, Sunit Kumar, Vinod Kumar Ss/o Ramphal, Anil Kumar s/o Mahendra Singh, Bhateri, Rajrani, Santosh Ds/o Ram Singh, Rajo D/o Ram Singh, Suresh S/o & Mayawati, Shila, Nanhi Ds/o Bhagawati, Shamsher Singh, Jagbir Singh Ss/o Hawa Singh, satvir Singh, Mahendra, Ramphal Ss/o Bhat Singh Aka Bhat Singh
					3	Private	Irrigated	0 0101	
					3-1	Private	Irrigated	0 1998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				9/2	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Smt. Murti, Bhani D/o and Rohas Singh, Ram Chandra, Suresh Kumar, Mahendra Singh S/o Richpal, Ramroop, Indra S/o Tek Chand, Ishwar Singh, Sukhveer Singh, Kanta Singh, Ramphal, Ramesh Kumar S/o Purnan aka Dhanpal, Pradeep Kumar S/o Jagdev Singh	
				13/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Bhim Singh, Moha Singh S/o Bharta, Hasyar Singh, Balwan Singh, Rajendra Singh S/o & Smt. Shanti, Kamala D/o Kanishram, Sunil Kumar, Vinod Kumar S/o Ramphal, Anil Kumar s/o Mahendra Singh, Bharti, Rajrani, Santosh D/o Ram Singh, Rajo D/o Ram Singh, Suresh S/o & Mayawati, Shila, Nani D/o Bhagawati, Shamsher Singh, Jagbir Singh S/o Hawa Singh, satvir Singh, Mahendra, Ramphal S/o Bhal Singh Aka Behal Singh	
				13/3	Private	Irrigated	0	18	0.0455		
				14/2	Private	Irrigated	3	8	0.1720		
				16	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Dharam Prakash, Dharambeer Singh S/o Rattan Singh	
				17/1/1/1	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Raj Singh S/o Suraj Bhan	
				17/1/1/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Umed Singh S/o Suraj Bhan	
				17/1/1/3	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Meher Singh S/o Suraj Bhan	
				17/1/2	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Dalip Singh, Brahma, Satbeer Singh S/o Jodha, Smt. Kanta W/o and Smt. Sweeti D/o Krishan	
				17/3	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Umed Singh S/o Suraj Bhan	
				18/2/1/1	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Raj Singh S/o Suraj Bhan	
				18/2/1/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Umed Singh S/o Suraj Bhan	
				18/2/2	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Umed Singh S/o Suraj Bhan	
				24/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Vijendra Singh S/o Ram Singh, Surendra Singh S/o Ram Singh, Ram Bhagat S/o Chandra Singh	
				24/3/1	Private	Path	0	2	0.0051	Rattan Singh, Jot Ram, Baldev Singh, Balbeer Singh, Bagat Singh S/o Gopal, Vikram S/o Chand Karan, Ramesh S/o Jagat Singh	
				24/3/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Vikram S/o Chand Karan S/o Gopal	
				25/1/2/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Rattan Singh, Jot Ram, Baldev Singh, Balbeer Singh, Bagat Singh S/o Gopal, Vikram S/o Chand Karan, Ramesh S/o Jagat Singh	
				25/1/2/2	Private	Irrigated	2	18	0.1467	Vikram S/o Chand Karan S/o Gopal	
				25/2/2	Private	Irrigated	1	1	0.0531	Vikram S/o Chand Karan S/o Gopal	
				83//	1/1	Private	Irrigated	1	11	0.0784	Baldev Singh S/o Gopal
				1/2	Private	Path	0	4	0.0101	Rattan Singh, Jot Ram, Baldev Singh, Balbeer Singh, Bagat Singh S/o Gopal, Vikram S/o Chand Karan, Ramesh S/o Jagat Singh	
				9	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Jot Ram S/o Gopal	
				10/1/1/1	Private	Irrigated	2	13	0.1341		
				10/1/2	Private	Irrigated	1	8	0.0708		
				10/2/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Smt. Chandrawati W/o Hari Singh, Anup Singh S/o Channi Lal	
				10/2/3	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Rajdev S/o Bhartu	
				11/1	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Smt. Chandrawati W/o Hari Singh, Anup Singh S/o Channi Lal	
				11/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				12/2/1	Private	Irrigated	2	16	0.1416	Rajpal S/o Ameer Singh	
				18	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Mahipal S/o Amir Singh	
				19/1	Private	Irrigated	3	15	0.1897		
				19/3	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Jagat Singh, Seh Dev Singh, Bhagat Singh S/o Dhanpal	
				20/2	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Sombeer, Sandeep S/o Birendra, Smt. Savitri W/o & Smt. Sushila D/o Birendra	
				22/1/1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Jagat Singh, Seh Dev Singh, Bhagat Singh S/o Dhanpal	
				22/1/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Gopi Ram S/o Amir Singh	
				22/3/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Mahipal S/o Amir Singh	
				22/3/2	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Malviyat inka no-876	
				23/2/1	Private	Irrigated	3	5	0.1644	Mahipal S/o Amir Singh	
				23/2/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Gopi Ram S/o Amir Singh	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				84//	4/2 Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	4/2/1 Rattan Singh, Jot Ram, Baldev Singh, Balbeer Singh, Bagat Singh Ss/o Gopal, Vikram S/o Chand Karan, Ramesh S/o Jagat Singh 4/2/2 Dharam Prakash, Dharambeer Singh Ss/o Rattan Singh 4/2/3 Vijender Singh S/o Ram Singh, Surender S/o Ram Singh, Ram Bhagat S/o Chander Singh
					5/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	Vijendra Singh S/o Ram Singh, Surendra Singh S/o Ram Singh, Ram Bhagat S/o Chandra Singh
					5/3	Private	Irrigated	2	9	0.1239	Baldev Singh S/o Gopal
					6/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Virender, Devender, Ravindra Ss/o Jaideva, Ashok S/o Surender, Rajdeva S/o Bhartu
					6/3	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Smt. Chandrawati W/o Hari Singh, Anup Singh S/o Chunni Lal
				99//	2/2	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Devendra S/o Mahabeer singh, Surendra Singh S/o Satbeer Singh
					3/1	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Kartar Singh, Katar Singh, Ishwar Singh Ss/o & Smt. Suneheri Devi, Roshni Devi, Krishna Devi, Sahab Kaur Ds/o Amar Singh, Urmila Wd/o & Vinit, Anuj Ss/o & Ashu D/o Krishna Lal, Smt. Chandrapati Wd/o & Anil, Sushil Ss/o Hosiya Singh
					3/3	Private	Irrigated	2	18	0.1467	
					4	Private	Irrigated	1	6	0.0658	Surajbhan S/o Deewan Singh
					6	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Jaswant Singh, Kapur Singh, Mahabeer Ss/o Mauji, Ramchandra, Ramphool, Sri Bhagwan, Dal Singh, Dhan Raj Ss/o Dalip Singh
					7/1/1	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Surajbhan S/o Deewan Singh
					7/1/2	Private	Irrigated	3	11	0.1796	Prem S/o Deewan Singh
					7/3	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Surajbhan S/o Deewan Singh
					8/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Kartar Singh, Katar Singh, Ishwar Singh Ss/o & Smt. Suneheri Devi, Roshni Devi, Krishna Devi Sahabkaur Ds/o Amar Singh, Urmila Wd/o Vinit, Anuj Ss/o & Ashu S/o Krishna Lal, Smt. Chandra Pati Wd/o & Anil, Sushil Ss/o Hosiya Singh
					8/3	Private	Irrigated	0	19	0.0481	
					13	Private	Irrigated	0	0	0.0000	
					14/1/1	Private	Irrigated	0	3	0.0076	Prem S/o Deewan Singh
					14/1/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Chandra Singh S/o Deewan Singh
					14/3	Private	Irrigated	1	16	0.0911	Prem S/o Deewan Singh
					15/2	Private	Irrigated	2	10	0.1265	Jaswant Singh, Kapur Singh, Mahabeer Ss/o Mauji, Ramchandra, Ramphool, Sri Bhagwan, Dal Singh, Dhan Raj Ss/o Dalip Singh
					16/1	Private	Irrigated	4	1	0.2049	
					16/3	Private	Irrigated	0	4	0.0101	
					17/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Chandra Singh S/o Deewan Singh
					25/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Murti, Dharmkaur, Husiyari Ds/o & Jagdev Singh S/o Bhim Singh S/o Akhe Ram, Rajbeer, Sombeer Ss/o & Smt. Nirmala, Kamlesh, Neeta Ds/o Sukhma, Smt. Kamala Wd/o & Smt. Manika, Renu, puja, Ritu Ds/o Vijaypal
					25/3	Private	Irrigated	0	18	0.0455	
					155/2	Panchayat	Path	0	13	0.0329	Village Panchayat
				100//	20	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Suresh, Naresh, Ramesh, Jagdish Ss/o Gyan Singh, Acharya Satybrat S/o Sribindavan
					21/2	Private	Irrigated	2	16	0.1416	
				102//	1/1	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Om Parkash, Randheer, Ranveer, Satbeer Ss/o Kebal
					1/3	Private	Irrigated	0	9	0.0228	
					2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	
					9/1	Private	Irrigated	3	19	0.1998	
					10/1	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Ramphal S/o and Indrawati D/o Baljeet Singh, Ram Kishan S/o Matu, Ranvir Singh S/o Kanshi ram, Smt. Shila Devi
					10/3	Private	Irrigated	1	0	0.0506	
					11/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	W/o Bhagat singh, Hoshiyar Singh, Suraj Bhan, Rajpal Ss/o and Smt. Chhoto D/o Bhaan Singh, Balbeer Singh S/o Bhaan Singh, Satpal, Sunil Ss/o Hosiya Singh
					12/1	Private	Irrigated	0	17	0.0430	
					12/3	Private	Irrigated	2	8	0.1214	
					13	Private	Irrigated	1	15	0.0885	
					18/2	Private	Irrigated	1	19	0.0986	
					19/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				103//	5/2/1	Private	Path	0	1	0.0025	Smt. Dhanpati W/o and Bijender, Kuldeep S/o and Smt. Sunder D/o Mahabeer, Lakhi S/o Chandan, Nirmala, Rupli, Bholi, Indrawati D/o & Bedpal S/o Tek Ram, Smt. Sonia D/o Birnla D/o Tek Chand
					5/2/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Smt. Dhanpati W/o Mahabeer, Smt. Sunder D/o & Bijendra, Kuldeep S/o Mahabeer, Nirmal, Rupali, Indrawati, Bholi D/o & Vedpal S/o Tekram,
				Total of Village				245	12	12.4239	
			(2) Titoli	66//	17	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Pratap Singh S/o Devakram, Ashok Kumar, Pramod Kumar, Pratap Singh
			H. B. No. 88		24/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Sa/o Devakram, Smt. Kamala W/o & Bhup Singh, Roop Singh, Anoop Singh
					24/3	Private	Irrigated	4	1	0.2049	Sa/o Pratap Singh
					Path	Panchayat	Path	0	10	0.0253	206-Village Panchayat
				95//	11	Private	Irrigated	1	7	0.0683	Kaliram S/o Bhagwana, Seelakram S/o Saroop Singh
					19	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Seelakram S/o Saroop Singh, Singham, Hariram, Balwan, Ishwar S/o & Smt. Sunahari D/o Rangi, Kaliram S/o Bhagwana, Smt. Sahabo W/o Bheem Singh Khanakast Smt. Sahabo W/o Bheem Singh
					20/1	Private	Irrigated	4	3	0.2099	Seelakram S/o Saroop Singh, Singham, Hariram, Balwan, Ishwar S/o & Smt. Sunahari D/o Rangi, Kaliram S/o Bhagwana, Smt. Sahabo W/o Bheem Singh
					21/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Seelakram S/o Saroop Singh, Singham, Hariram, Balwan, Ishwar S/o & Smt. Sunahari D/o Rangi, Kaliram S/o Bhagwana, Smt. Sahabo W/o Bheem Singh Khanakast Singham, Hariram, Balwan, Ishwar, Smt. Sunahari
					22	Private	Irrigated	2	0	0.1012	Seelakram S/o Saroop Singh, Singham, Hariram, Balwan, Ishwar S/o & Smt. Sunahari D/o Rangi, Kaliram S/o Bhagwana, Smt. Sahabo W/o Bheem Singh Khanakast Smt. Sahabo W/o Bheem Singh
				96//	4/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Hari Singh S/o Ratiram, Hakdaran Shamlat M/S Lachhami Prasijon Cerkuse Ltd. Rohtak bajariye Director Vijay Jain
					4/3	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Hari Singh S/o Ratiram, Ramkam s/o Govindram
					5	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
					6/2/1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	
					6/2/2	Private	Irrigated	2	18	0.1467	Smt. Sahabo W/o Bheem Singh
					7/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Hari Singh S/o Ratiram, Ramkam s/o Govindram
					7/3/1	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Hari Singh S/o Ratiram, Hakdaran Shamlat M/S Lachhami Prasijon Cerkuse Ltd. Rohtak bajariye Director Vijay Jain
					7/3/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Jaynarayan, hawa Singh, Birendra, Heera Hakdaran Shamlat Kapoor Singh, Dharambeer, Chandrasaroop, Jaypal,
					14/2/1	Private	Irrigated	0	5	0.0126	Jagjeewan S/o Harchand, Bhaleram S/o Mangeram S/o Hardwari, M/S Lachhami Prasijon Cerkuse Ltd. Rohtak bajariye Director Vijay Jain
					15/1/1	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
					15/1/2	Private	Factory	0	5	0.0126	Jaynarayan, Dharamveer, Chandrasaroop S/o Mangeram, Hakdaran Shamlat M/S J. C. Fastners Ltd. Rohtak Bajariye Director Atul Jain S/o Jagdish Jain
					15/3/1	Private	Irrigated	1	8	0.0708	Smt. Sahabo W/o Bheem Singh
					15/3/2	Private	Irrigated	1	12	0.0809	Kaliram S/o Bhagwana, Seelakram S/o Saroop Singh

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				16/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Seelakram S/o Saroop Singh, Singhran, Hariram, Baiwan, Ishwar Ss/o & Smt. Sunahari D/o Rangi, Kaliram S/o Bhagwana, Smt. Sahabo Wd/o Bheem Singh Khanakast Saroop Singh & Kaliram, M/s J.C. Fastners Ltd. Rohtak Director Atul jain	
				16/3	Private	Irrigated	0	19	0.0481		
				25	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Seelakram S/o Saroop Singh, Singhran, Hariram, Balwan, Ishwar Ss/o & Smt. Sunahari D/o Rangi, Kaliram S/o Bhagwana, Smt. Sahabo Wd/o Bheem Singh Khanakast Smt. Sahabo Wd/o Bheem Singh	
				98//	1/1/2	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Smt. Indrawati Wd/o & Bijendra, Samer, Om Singh, Anand Singh, Ram mehar Ss/o Raghuveer
					1/2/2	Private	Irrigated	0	13	0.0329	
					2/1	Private	Irrigated	0	0	0.0000	Jagdish, Baljeet Singh, Bhagat Singh Ss/o & Smt. Rajani D/o Umed Singh
					2/3	Private	Irrigated	3	16	0.1922	
					8	Private	Irrigated	1	3	0.0582	
					9/1	Private	Irrigated	2	12	0.1315	
					9/3	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Jeet Singh, Ramchander Ss/o Gyani
					10	Private	Irrigated	0	1	0.0025	
					12/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Jile Singh, Pratap Singh Ss/o Ranpat, Bharat Singh, Ramphal, SriKrishan Ss/o Lalchand, Mahabeer Singh, Rajveer Singh, Mahendra Singh Ss/o Maha Singh Khanakast Bharat Singh, Ramphal, SriKrishan, Mahabeer Singh, Rajveer Singh, Mahendra Singh
					12/3	Private	Irrigated	0	3	0.0076	
					13/2	Private	Irrigated	3	15	0.1897	
					17	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Jile Singh, Pratap Singh Ss/o Ranpat, Bharat Singh, Ramphal, SriKrishan Ss/o Lalchand, Mahabeer Singh, Rajveer Singh, Mahendra Singh Ss/o Maha Singh Khanakast Jile Singh, Pratap Singh
					18/1	Private	Irrigated	3	9	0.1745	
					18/3	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Jile Singh Prathap Singh, Banvarilal Ss/o Jaylal S/o Mukhran
					19/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Jile Singh, Pratap Singh Ss/o Ranpat, Bharat Singh, Ramphal, SriKrishan Ss/o Lalchand, Mahabeer Singh, Rajveer Singh, Mahendra Singh Ss/o Maha Singh Khanakast Jile Singh, Pratap Singh
					23/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Rajesh Kumar S/o Banarasi Das
					23/2	Private	Non-Irrigated	0	13	0.0329	Haryana Government
					24/2	Private	Irrigated	3	8	0.1720	Ranveer, Satyaveer, Sevanand, Ramchandra Ss/o Mange
				123//	20/1	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Anand Prakash S/o Hari kishan Khanakast Hardutt S/o Bhola Gair Maurusi
					20/2	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Shamlat Pana Aath Bishwa Hasav Rasad
					21/2	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Araji Khewat
				124//	3/2	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Banwari S/o Birakha
					4/1	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Jagdish Chandra, Naresh, Pawan Kumar
					4/3	Private	Irrigated	3	18	0.1973	Ss/o Manoharlal
					5	Private	Irrigated	0	4	0.0101	

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				6/2/2	Private	Irrigated	2	14	0.1366	Smt. Chandrakaur Wd/o & Harpal, RamBhagat Ss/o & Smt. Ompati, Lajpati, Kalawati, Savitri Ds/o Kriparam, Krishan, Ramsaneh, Ishwar Singh Ss/o Kewalram, Smt. Bharpai Wd/o & Ramphul, Om, Bheem, Sriram, Sarveer Ss/o & Smt. Ramrati, Bedo, Samitra Ds/o Ran Singh, Smt. Dhanpati D/o & Chandram S/o Ratiram, Satish, Ramesh Ss/o & Smt. Sumitra, Sunil Ds/o Smt. Shanti d/o Ratiram, Smt. Narayani Devi Wd/o & Smt. Meva, Prem, Saroj Ds/o & rampal, Rajpal, Ramesh, Balwan, Jaybhagwan Ss/o Surajbhan, Smt. Roshani, Prem, Rambhetari Ds/o & Rajendra, Narayan Ss/o Smt. Lachhami Devi D/o Ratiram, Bishnu, Ravi Ss/o & Smt. Bimala, Kamala Ds/o Smt. Phulpati D/o Ratiram, Smt. Roshani Wd/o Smt. Saraswati, Rani Devi, Sonia Ds/o & Rohtash, Rajesh Ss/o Ram Kanwar
				7/1/1	Private	Irrigated	0	10	0.0253	
				7/2/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Haryana Government
				14/2/2	Private	Irrigated	0	18	0.0455	Smt. Chandrakaur Wd/o & Harpal, RamBhagat Ss/o & Smt. Ompati, Lajpati, Kalawati, Savitri Ds/o Kriparam, Krishan, Ramsaneh, Ishwar Singh Ss/o Kewalram, Smt. Bharpai Wd/o & Ramphul, Om, Bheem, Sriram, Sarveer Ss/o & Smt. Ramrati, Bedo, Samitra Ds/o Ran Singh, Smt. Dhanpati D/o & Chandram S/o Ratiram, Satish, Ramesh Ss/o & Smt. Sumitra, Sunil Ds/o Smt. Shanti d/o Ratiram, Smt. Narayani Devi Wd/o & Smt. Meva, Prem, Saroj Ds/o & rampal, Rajpal, Ramesh, Balwan, Jaybhagwan Ss/o Surajbhan, Smt. Roshani, Prem, Rambhetari Ds/o & Rajendra, Narayan Ss/o Smt. Lachhami Devi D/o Ratiram, Bishnu, Ravi Ss/o & Smt. Bimala, Kamala Ds/o Smt. Phulpati D/o Ratiram, Smt. Roshani Wd/o Smt. Saraswati, Rani Devi, Sonia Ds/o & Rohtash, Rajesh Ss/o Ram Kanwar
				15/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Balwan Singh, Tara Chand, Ratan Singh.
				15/3	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Satyanarayan Ss/o Banwari
				16/1/2	Private	Irrigated	2	6	0.1163	Ranveer Singh S/o Abheram, Balwan Singh, Tara Chand, Ratan Singh, Satyanarayan Ss/o Banwari, Mahendra S/o Badlu, Hawa Singh S/o Jogiram, Smt. Savitri W/o Rampat Singh, Rishipal S/o Balwan
				16/2/2	Private	Irrigated	0	19	0.0481	Haryana Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				17 1	Private	Irrigated	0 0	0.0000	Smt. Chandrakaur Wd/o & Harpal, RamBhagat Ss/o & Smt. Ompati, Lajpati, Kalawati, Savitri Ds/o Kriparam, Krishan, Ramsaneh, Ishwar Singh Ss/o Kewalram, Smt. Bharpai Wd/o & Ramphul, Om, Bheem, Sriram, Satveer Ss/o & Smt. Ramrati, Bedo, Samitra Ds/o Ran Singh, Smt. Dhanpati D/o & Chandram S/o Ratiram, Satish, Ramesh Ss/o & Smt. Sumitra, Sunil Ds/o Smt. Shanti d/o Ratiram, Smt. Narayani Devi Wd/o & Smt. Meva, Prem, Saroj Ds/o & rampal, Rajpal, Ramesh, Balwan, Jaybhagwan Ss/o Surajbhan, Smt. Roshani, Prem, Rambhetari Ds/o & Rajendra, Narayan Ss/o Smt. Lachhami Devi D/o Ratiram, Bishnu, Ravi Ss/o & Smt. Bimala, Kamala Ds/o Smt. Phulpati D/o Ratiram, Smt. Roshani Wd/o Smt. Saraswati, Rani Devi, Sonia Ds/o & Rohtash, Rajesh Ss/o Ram Kanwar
				25 Min	Private	Irrigated	0 17	0.0430	25/2/1- Smt. Chandrakaur Wd/o & Harpal, RamBhagat Ss/o & Smt. Ompati, Lajpati, Kalawati, Savitri Ds/o Kriparam, Krishan, Ramsaneh, Ishwar Singh Ss/o Kewalram, Smt. Bharpai Wd/o & Ramphul, Om, Bheem, Sriram, Satveer Ss/o & Smt. Ramrati, Bedo, Samitra Ds/o Ran Singh, Smt. Dhanpati D/o & Chandram S/o Ratiram, Satish, Ramesh Ss/o & Smt. Sumitra, Sunil Ds/o Smt. Shanti d/o Ratiram, Smt. Narayani Devi Wd/o & Smt. Meva, Prem, Saroj Ds/o & rampal, Rajpal, Ramesh, Balwan, Jaybhagwan Ss/o Surajbhan, Smt. Roshani, Prem, Rambhetari Ds/o & Rajendra, Narayan Ss/o Smt. Lachhami Devi D/o Ratiram, Bishnu, Ravi Ss/o & Smt. Bimala, Kamala Ds/o Smt. Phulpati D/o Ratiram, Smt. Roshani Wd/o Smt. Saraswati, Rani Devi, Sonia Ds/o & Rohtash, Rajesh Ss/o Ram Kanwar, 25/2/2- Haryana Government, 25/2/3- Balwan Singh, Tara Chand, Ratan Singh, Satyanarayan Ss/o Banwari
			125//	5/1/2	Private	Irrigated	0 5	0.0126	Smt. Rajbala etc. mundaraj Khewat no.-394, Smt. Bhateri etc. mundaraj Khewat no.-386, Hawa Singh etc. mundaraj Khewat no.-396, Smt. Sarajo etc. mundaraj Khewat no.-399 & 400 Khanakast Mangeram etc majkuran etc Gair Maurusi Tara S/o Chandan Gair Maurusi
			126//	1/1/1	Private	Irrigated	0 5	0.0126	Maha Singh S/o Srichand Hakadar Shamlat Ramesh Kumar S/o Mehar Singh
				1/1/2	Private	Irrigated	0 1	0.0025	Maha Singh S/o Srichand Hakadar Shamlat Amar Singh, Sriram, Kapoor Singh Ss/o Ratan Singh
				1/1/3/1	Private	Irrigated	0 1	0.0025	Amar Singh, Sriram, Kapoor Singh Ss/o Ratan Singh
				1/1/3/2/1	Private	Irrigated	0 6	0.0152	Maha Singh S/o Srichand
				1/1/3/2/2	Private	Irrigated	0 2	0.0051	Village Panchayat
				1/3/1	Private	Irrigated	2 19	0.1492	Maha Singh S/o Srichand
				1/3/2	Private	Irrigated	0 7	0.0177	Baljeet S/o Srichand, Devi Singh S/o Daryav Singh
				2/1	Private	Irrigated	0 10	0.0253	Naresh S/o Mehar Singh, Smt. Asharani W/o Shamsher Singh, Sunil S/o Sube Singh

1	2	3	4	5	6	7	8			9
				2/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Baljeet S/o Srichand, Devi Singh S/o Darayav Singh
				9/2/1	Private	Irrigated	3	3	0.1593	Rajveer S/o Srichand
				9/2/2	Private	Path	0	4	0.0101	Vedpal, Rajveer, Baljeet, Maha Singh Ss/o & Narayani D/o Srichand, Smt. Nirmala Wd/o & Raj kumar, jaykumar Ss/o & Smt. Neeru D/o Hawa Singh, Smt. Pramila, Anju Devi, Sunita Ds/o & Rajesh, Rajendra Ss/o Smt. Bedo D/o Srichand
				10/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Rajveer S/o Srichand
				10/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Maha Singh S/o Srichand
				11/2/1	Private	Factory	0	10	0.0253	M/S Hanuwant Fastners Pvt. Ltd Bajariye Bhagat singh S/o Ram singh
				11/2/2/1	Private	Factory	0	0	0.0000	M/S A. V. Fastnars Pvt. Ltd, Titoli
				12/1/1	Private	Factory	0	6	0.0152	Bajariye Vinod Jain S/o Ramrichhapal
				12/1/2	Private	Factory	0	2	0.0051	Ms. A. V. Fastnars Pvt. Ltd Marfat Sunil Aroda Director Farm
				12/3	Private	Irrigated	3	13	0.1846	Rohtash S/o Bharatu
				13/2	Private	Irrigated	0	3	0.0076	13/2/1- Rohtash S/o Bharatu, 13/2/2- Amarphal S/o Bhartu
				18/2	Private	Irrigated	2	14	0.1366	Rajendra Singh S/o Banwarilal, Amarphal Ss/o Bhartu, Sushil S/o Tirth Singh, Vijay Singh S/o Ranbeer Singh
				19/1/1/1	Private	Factory	0	2	0.0051	Ms. A. V. Fastnars Pvt. Ltd Marfat Sunil Aroda Director Farm
				19/1/1/2 Min	Private	Factory	0	3	0.0076	M/S A. V. Fastnars Pvt. Ltd, Rohtak Bajariye Vinod Jain S/o Ramrichhapal
				19/1/2/1 Min	Private	Factory	0	6	0.0152	19/1/2/1/2- M/S Panch Ratan Fasters Pvt. Ltd Titoli Bajariye Harish Makhija S/o Matwalchand, Brijlal Ahuja S/o Thakur Das
				19/1/2/2/1	Private	Factory	0	3	0.0076	M/S Panch Ratan Fasters Pvt. Ltd Titoli Bajariye Harish Makhija S/o Matwalchand, Brijlal Ahuja S/o Thakur Das
				19/1/2/2/2	Private	Factory	0	5	0.0126	M/S Panch Ratan Fasters Pvt. Ltd Titoli Bajariye Harish Makhija S/o Matwalchand Director
				19/1/2/2/3	Private	Factory	0	1	0.0025	Matwalchand Director
				19/3/1	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Amarphal S/o Bhartu
				22/2 Min	Private	Irrigated	0	17	0.0430	22/2- Haryana Government, 22/2/2- Sureshchand S/o Sadhuram
				23/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Sureshchand S/o Sadhuram
				23/3/1 Min	Private	Irrigated	3	10	0.1771	23/3/1- Sunil Kumar S/o Umed Singh, Amarphal S/o Bhartu, Rohtash S/o Bharatu 23/3/1/1- Rohtash S/o Bharatu
				23/3/2	Private	Irrigated	0	10	0.0253	Umed Singh, Hari Singh Ss/o Brijan
				24/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025	
			148//	3/1	Private	Irrigated	1	2	0.0556	Smt. Kiran W/o Sukhbeer Singh, Smt. Bimala Devi W/o Ramesh Chand, Rajesh S/o & Smt. Anju Devi, Sunita Ds/o Bedo Devi D/o Srichand
				3/3/1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Smt. Santosh W/o Ram Kumar
				3/3/2	Private	Irrigated	0	13	0.0329	Seelakram, Satveer Singh Ss/o Parsuram
				3/3/3	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Smt. Kiran W/o Sukhbeer Singh, Smt. Bimala Devi W/o Ramesh Chand, Rajesh S/o & Smt. Anju Devi, Sunita Ds/o Bedo Devi D/o Srichand
				3/3/4	Private	Path	0	0	0.0000	Vedpal, Rajveer, Baljeet, Maha Singh Ss/o & Narayani D/o Srichand, Smt. Nirmala Wd/o & Raj kumar, jaykumar Ss/o & Smt. Neeru D/o Hawa Singh, Smt. Pramila, Anju Devi, Sunita Ds/o & Rajesh, Rajendra Ss/o Smt. Bedo D/o Srichand
				4/1	Private	Irrigated	1	17	0.0936	Smt. Kiran W/o Sukhbeer Singh, Smt. Bimala Devi W/o Ramesh Chand, Rajesh S/o & Smt. Anju Devi, Sunita Ds/o Bedo Devi D/o Srichand

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				4/2	Private	Path	0	2	0.0051	Vedpal, Rajveer, Baljeet, Maha Singh Ss/o & Narayani D/o Srichand, Smt. Nirmala Wd/o & Raj kumar, jaykavar Ss/o & Smt. Neeru D/o Hawa Singh, Smt. Pramila, Anju Devi, Sunita Ds/o & Rajesh, Rajendra Ss/o Smt. Bedo D/o Srichand	
				7/2/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Amarphal, Rohtash S/o Bharatu	
				7/2/2	Private	Irrigated	3	16	0.1922	Raj Singh S/o Chhotu	
				8/1/1	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Smt. Kiran W/o Sukhbeer Singh, Smt. Bimala Devi W/o Ramesh Chand, Rajesh S/o & Smt. Anju Devi, Sunita Ds/o Bedo Devi D/o Srichand	
				8/1/2	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Smt. Kiran W/o Sukhbeer Singh	
				13/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101	Same Singh, Satveer Singh Ss/o	
				14/1	Private	Irrigated	0	16	0.0405	Shivdhan, Smt. Phuli Devi Wd/o & Anil Kumar, Rakesh Kumar, Sandeep Kumar Ss/o Chandrasarop	
				14/3	Private	Irrigated	2	19	0.1492		
				15	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				16/2	Private	Irrigated	4	10	0.2276		
				17/1	Private	Irrigated	0	5	0.0126		
				17/3	Private	Irrigated	0	13	0.0329		
				186//	13/2	Private	Irrigated	2	1	0.1037	Mauji S/o Hari Singh, Maha Singh S/o Lalchand, Baljeet Singh S/o Prathi, Satyawar, Rajmal, Subhash Ss/o & Smt. Roshani, Murti, Samina Ds/o Prakash, Smt. Ompati Wd/o & Sunil Kumar S/o Prem Singh, Smt. Bimala Devi Wd/o Hawa Singh, Nafe Singh S/o & Smt. Lachhami D/o Saratu, Rajveer S/o Surat Singh Khanakast Satyawar, Rajmal, Subhash Ss/o & Smt. Roshani, Murti, Samina
				14/1 Min	Private	Irrigated	0	3	0.0076	14/1/1- Sribhagwan, Jaybhagwan, Anil Kumar, 14/1/2/1- Mauji S/o Hari Singh, Maha Singh S/o Lalchand, Baljeet Singh S/o Prathi, Satyawar, Rajmal, Subhash Ss/o & Smt. Roshani, Murti, Samina Ds/o Prakash, Smt. Ompati Wd/o & Sunil Kumar S/o Prem Singh, Smt. Bimala Devi Wd/o Hawa Singh, Nafe Singh S/o & Smt. Lachhami D/o Saratu, Rajveer S/o Surat Singh Khanakast Satyawar, Rajmal, Subhash Ss/o & Smt. Roshani, Murti, Samina	
				17	Private	Irrigated	2	1	0.1037	Mauji S/o Hari Singh, Maha Singh S/o Lalchand, Baljeet Singh S/o Prathi, Satyawar, Rajmal, Subhash Ss/o & Smt. Roshani, Murti, Samina Ds/o Prakash, Smt. Ompati Wd/o & Sunil Kumar S/o Prem Singh, Smt. Bimala Devi Wd/o Hawa Singh, Nafe Singh S/o & Smt. Lachhami D/o Saratu, Rajveer S/o Surat Singh Khanakast Smt. Ompati, Sunil Kumar, Nafe Singh, Rajveer, Smt. Lachhami D/o Saratu, Smt. Rajrani D/o Saratu	
				18	Private	Irrigated	2	5	0.1138		
				Total of Village			126	16	6.4143		
			(3) Samar Gopalpur Khurd	26//	18/1	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Indra Singh S/o Udm, Jogi Ram S/o Baldeva, Rajpal S/o Badri, Dharamveer S/o Banwari, Balbeer S/o Ram Saroop
					18/3	Private	Irrigated	2	1	0.1037	
			H. B. No. 90		22 Min	Private	Irrigated	0	2	0.0051	22 Min Indra Singh S/o Udm, Jogi Ram S/o Baldeva, Rajpal S/o Badri, Dharamveer S/o Banwari, Balbeer S/o Ram Saroop Khanakast Dharamveer Hissedar 22 Min Indra Singh S/o Udm, Jogi Ram S/o Baldeva, Rajpal S/o Badri, Dharamveer S/o Banwari, Balbeer S/o Ram Saroop Khanakast Jogi Ram Hissedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				23/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Indra Singh S/o Udmi, Jogi Ram S/o Baldeva, Rajpal S/o Badri, Dharamveer S/o Banwari, Balbeer S/o Ram Saroop Khanakshi Indra Singh Hissoder	
				23/3	Private	Irrigated	0	11	0.0278	Indra Singh S/o Udmi, Jogi Ram S/o Baldeva, Rajpal S/o Badri, Dharamveer S/o Banwari, Balbeer S/o Ram Saroop Khanakshi Dharamveer Hissoder	
				27//	3	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Indra Singh S/o Udmi, Jogi Ram S/o Baldeva, Rajpal S/o Badri, Dharamveer S/o Banwari, Balbeer S/o Ram Saroop Khanakshi Dharampal Hissoder
				83//	21/1	Govt.	Irrigated	0	15	0.0379	Haryana Government Khanakast Chandra S/o Nandu Gair Morrosi
				21/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025	Sisram adopted S/o Harphul, Anil Kumar S/o Satpriya, Smt. Dhanpati etc Munadaraj Khewat no-620	
				84//	17/2	Private	Irrigated	0	6	0.0152	Dharam Singh, Jaykishan, Kisanadutt S/o Dayalal, Chhotelal S/o Hariram, Mohendra Singh S/o Lachhpal etc Mohan
				24	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Dayanand, Jagram, Samaryan S/o Rambhai	
				25/1/1	Private	Irrigated	0	15	0.0379	Sisram adopted S/o Harphul, Anil Kumar S/o Satpriya, Smt. Dhanpati etc Munadaraj Khewat no-620	
				25/1/3	Private	Irrigated	0	12	0.0304	Munadaraj Khewat no-620	
				25/2/2	Private	Irrigated	1	15	0.0885	Ramchandra S/o Juglal	
				111//	5/1	Govt.	Irrigated	1	2	0.0556	Haryana Government Khanakast Sirawali Thakur Dwara Rohak Jer Aashram Baba Devraj S/o Hansraj
				5/3	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Ramchander S/o Juglal	
				6/2	Govt.	Irrigated	0	12	0.0304	Haryana Government Khanakast Sirawali Thakur Dwara Rohak Jer Aashram Baba Devraj S/o Hansraj	
				112//	1/1/1	Govt.	Irrigated	1	12	0.0809	Haryana Government [P.W.D. B&K]
				1/2	Govt.	Irrigated	2	0	0.1012	Haryana Government Khanakast Bhalya	
				9	Govt.	Irrigated	0	3	0.0076	Widow and Sushila S/o Harfoot singh S/o Mathura Gair Morrosi	
				10/1/2	Private	Irrigated	3	16	0.1922		
				10/2/1	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Thakur Dwara Sirawali Rohak Jer aashram Baba Rajesh S/o Hansraj	
				10/2/3	Private	Irrigated	0	1	0.0025		
				11/1	Private	Irrigated	1	0	0.0506		
				11/3	Private	Irrigated	1	3	0.0582	Rajpal, Narendra Singh, Seetal S/o Om Parkash, Jeet Singh S/o Ram Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj Khewat no-620	
				12/2	Private	Irrigated	2	11	0.1290		
				19/1	Private	Non-Irrigated	0	0	0.0000	Om Parkash S/o Lahri, Krishan S/o Ram Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj Khewat no-620	
				19/3/1	Private	Irrigated	3	8	0.1720		
				19/3/2	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Dharam Singh, Rajender Singh S/o Parbhu S/o Ram Singh, Smt. Rajbala Widow and Rohak Singh S/o and Sushila Devi, Rajwanti D/o Azad Singh, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birendra Singh, Deepak, Pardeep Kumar S/o Rajendra, Smt. Shanti W/o & Narendra, Jagmendra S/o and Smt. Murti D/o Rishala, Smt. Dhanpati etc Munadaraj Khewat no-620	
				20/2	Private	Irrigated	1	0	0.0506	Thakur Dwara Sirawali Rohak Jer aashram Baba Rajesh S/o Hansraj	
				21	Private	Irrigated	0	1	0.0025		
				22/1	Private	Irrigated	0	19	0.0481		
				22/3	Private	Irrigated	2	12	0.1315	Dharam Singh, Rajender Singh S/o Parbhu S/o Ram Singh, Smt. Rajbala Widow and Rohak Singh S/o and Sushila Devi, Rajwanti D/o Azad Singh, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birendra Singh, Deepak, Pardeep Kumar S/o Rajendra, Smt. Shanti W/o & Narendra, Jagmendra S/o and Smt. Murti D/o Rishala, Smt. Dhanpati etc Munadaraj Khewat no-620	
				23/1	Private	Irrigated	1	7	0.0683		

1	2	3	4	5	6	7	8			9	
				114//	11	Govt.	Irrigated	2	14	0.1366	Dharam Singh, Rajender Singh Ss/o Parbhu, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birendra Singh, Deepak, Pardeep Kumar Ss/o Rajendra, Smt. Rajbala Widow and Rohtash Singh S/o and Sushila Devi, Rajwanti Ds/o Azad Singh, Smt. Shanti Wd/o & Narendra, Jagmendra Ss/o and Smt. Murti D/o Rishala, Nafe Singh, Jeet Singh Ss/o Kesho, Vinod kumar, Vijay Kumar Ss/o Nafe Singh, Vijay Singh, Ashok Singh, Bijendra Ss/o Jeet Singh
					19	Govt.	Irrigated	0	0	0.0000	Haryana Govt. Khanakast Daryav Singh, Umrao Singh, Khima, Rambhagat, Balvir Singh Ss/o Jogiram S/o Sudhan Gair Maurusiyan
					20	Govt.	Irrigated	6	10	0.3288	
					21	Govt.	Irrigated	8	0	0.4047	Haryana Govt. Khanakast Om Parkash, Chandra Bhan Ss/o Taale S/o Bholar Gair Maurusiyan
					22	Govt.	Irrigated	2	4	0.1113	
				115//	23	Govt.	Irrigated	1	0	0.0506	Haryana Govt.
					2/3	Private	Irrigated	0	2	0.0051	Smt. Sarto Devi W/o Sher Singh S/o Sukhlal, Tarif Singh S/o Purn S/o Sukhlal, Bhim Singh, Amir Singh Ss/o Jai Singh S/o Sukhlal, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
					3/2	Private	Irrigated	3	18	0.1973	
					7	Private	Irrigated	0	14	0.0354	Koda S/o Hardeva, malik kabaza Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
					8/1	Govt.	Irrigated	0	15	0.0379	Haryana Govt.
					8/3	Private	Irrigated	3	4	0.1619	Koda S/o Hardeva, malik kabaza Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
					9/2	Govt.	Irrigated	0	4	0.0101	Haryana Govt.
					13/1	Govt.	Irrigated	1	0	0.0506	Haryana Govt.
					13/3	Private	Irrigated	0	8	0.0202	Smt. Sarto Devi W/o Sher Singh S/o Sukhlal, Tarif Singh S/o Purn S/o Sukhlal, Bhim Singh, Amir Singh Ss/o Jai Singh S/o Sukhlal, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
					14/2/1	Private	Irrigated	3	10	0.1771	
					14/2/2	Private	Irrigated	0	7	0.0177	Dharm Singh, Rajender Singh Ss/o Parbhu, Malkan Kabaza Smt. Rajbala Widow and Rohtash Singh S/o and Smt. Sushila Devi, Rajwanti Ds/o Azad Singh, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birender Singh, Deepak, Pardeep Ss/o Rajender, Smt. Shanti Widow and Narendra, Jagmender Ss/o and Smt. Murti D/o Rishala, Nafe Singh, Jeet Singh Ss/o Kesho, Vinod Kumar, Vijay Kumar Ss/o Nafe Singh, Vijay Pal Singh, Ashok Singh, Bijender Singh Ss/o Jeet Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
					15/1	Private	Irrigated	3	9	0.1745	Amar Singh S/o Ram Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
					15/2	Private	Irrigated	0	9	0.0228	Dharm Singh, Rajender Singh Ss/o Parbhu, Malkan Kabaza Smt. Rajbala Widow and Rohtash Singh S/o and Smt. Sushila Devi, Rajwanti Ds/o Azad Singh, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birender Singh, Deepak, Pardeep Ss/o Rajender, Smt. Shanti Widow and Narendra, Jagmender Ss/o and Smt. Murti D/o Rishala, Nafe Singh, Jeet Singh Ss/o Kesho, Vinod Kumar, Vijay Kumar Ss/o Nafe Singh, Vijay Pal Singh, Ashok Singh, Bijender Singh Ss/o Jeet Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
						Govt.	Irrigated	8	0	0.4047	Haryana Govt. Khanakast Daryav Singh, Umrao Singh, Khima, Rambhagat, Balvir Singh Ss/o Jogiram S/o Sudhan Gair Maurusiyan
						Govt.	Irrigated	0	17	0.0430	

1	2	3	4	5	6	7	8		9
				17/1/2	Private	Irrigated	0	4	0.0101 Dharm Singh, Rajender Singh Ss/o Parbhu, Malkan Kabaza Smt. Rajbala Widow and Rohtash Singh S/o and Smt. Sushila Devi, Rajwanti Ds/o Azad Singh, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birender Singh, Deepak, Pardeep Ss/o Rajender, Smt. Shanti Widow and Narender, Jagmender Ss/o and Smt. Murti D/o Rishala, Nafe Singh, Jeet Singh Ss/o Kesho, Vinod Kumar, Vijay Kumar Ss/o Nafe Singh, Vijay Pal Singh, Ashok Singh, Bijender Singh Ss/o Jeet Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
				17/2/1	Govt.	Irrigated	0	8	0.0202 Haryana Govt.
				17/2/3/1	Private	Irrigated	3	12	0.1821 Dharm Singh, Rajender Singh Ss/o Parbhu, Malkan Kabaza Smt. Rajbala Widow and Rohtash Singh S/o and Smt. Sushila Devi, Rajwanti Ds/o Azad Singh, Sunil Kumar S/o Azad Singh, Birender Singh, Deepak, Pardeep Ss/o Rajender, Smt. Shanti Widow and Narender, Jagmender Ss/o and Smt. Murti D/o Rishala, Nafe Singh, Jeet Singh Ss/o Kesho, Vinod Kumar, Vijay Kumar Ss/o Nafe Singh, Vijay Pal Singh, Ashok Singh, Bijender Singh Ss/o Jeet Singh, Smt. Dhanpati etc Munadaraj khewat no-620
				17/2/3/2	Govt.	Path	0	2	0.0051 Haryana Govt. Khanakast Daryav Singh, Umrao Singh, Khima, Rambhagat, Balvir Singh Ss/o Jogiram S/o Sudhan Gair Maurusiyan
				18/2	Govt.	Irrigated	0	11	0.0278 Haryana Govt.
				24/1	Govt.	Irrigated	1	0	0.0506 Haryana Govt.
				24/3	Govt.	Irrigated	1	5	0.0632 Haryana Govt. Khanakast Om Parkash, Chandra Bhan Ss/o Taale S/o Bholar Gair Maurusiyan
				25/2	Govt.	Irrigated	7	19	0.4022
				144// 4/2	Govt.	Irrigated	0	17	0.0430 Haryana Govt.
				5/1	Govt.	Irrigated	0	3	0.0076 Haryana Govt. Khanakast Ganga Singh, Bhim Singh S/o Nathu
				5/3	Govt.	Irrigated	5	10	0.2782 Haryana Govt. Khanakast Umed Singh S/o Kehari S/o Bhuria Gair Maurusi
				6/1	Private	Irrigated	1	3	0.0582 Umed S/o Kehari
				6/2/1	Govt.	Irrigated	1	0	0.0506 Haryana Govt.
				6/2/3	Govt.	Irrigated	1	1	0.0531 Haryana Govt. Khanakast Umed Singh S/o Kehari S/o Bhuria Gair Maurusi
				15/1 Min	Govt.	Irrigated	1	0	0.0506 Haryana Govt. Khanakast Haryana Krishi Vishya Vidyalaya Hissar Pattedar
				15/4	Govt.	Irrigated	0	1	0.0025 Haryana Government Khanakast Kurda Singh aka Kurda S/o Hardeva Gair Maurusi
				16/2	Govt.	Irrigated	0	4	0.0101 Haryana Govt. Khanakast Niydar Singh, Dharma Ss/o Narayan, Smt. Bharpai
				145// 1	Govt.	Irrigated	7	19	0.4022 Haryana Govt. Khanakast Umed Singh S/o Kehari S/o Bhuria Gair Maurusi
				2	Private	Irrigated	3	14	0.1872 Smt. Darshna Devi Wd/o & Indrajeet, Naresh Kumar Ss/o Bahadurchandra
				10/1/1	Private	Irrigated	1	16	0.0911 Umed S/o Kehari
				10/2	Private	Irrigated	0	1	0.0025 Banhwar Singh, Devender Singh Ss/o Ganga Singh, Anil, Ashok Ss/o Giraj, Jaipal and Surjeet, Sudhir Ss/o Narender Singh
				10/1/2	Private	Irrigated	1	4	0.0607 Jasvir, Rajesh, Sunil Ss/o Kurad Singh aka Kurda
				11/1/2	Govt.	Irrigated	0	18	0.0455 Haryana Government Khanakast Kurda Singh aka Kurda S/o Hardeva Gair Maurusi
				11/2	Private	Irrigated	3	4	0.1619 Jasvir, Rajesh, Sunil Ss/o Kurad Singh aka Kurda
				19	Private	Irrigated	0	19	0.0481
				20/1	Private	Irrigated	2	1	0.1214
				20/2/1	Govt.	Irrigated	0	16	0.0405 Haryana Govt. Khanakast Niydar Singh, Dharma Ss/o Narayan, Smt. Bharpai

1	2	3	4	5	6	7	8		9	
				20/2/3	Govt.	Irrigated	0	13	0.0329 Haryana Government Khanakast Kurda Singh aka Kurda S/o Hardeva Gair Maurusi	
				21/1	Govt.	Irrigated	1	0	0.0506 Haryana Govt. Khanakast Niydar Singh Dharma Ss/o Narayan, Smt. Bharpai	
				21/3	Govt.	Irrigated	0	6	0.0152 Haryana Government Khanakast Kurda Singh aka Kurda S/o Hardeva Gair Maurusi	
				22/1/2 Min	Private	Irrigated	0	12	0.0304 Jasvir, Rajesh, Sunil Ss/o Kurad Singh aka Kurda	
				22/2 Min	Govt.	Irrigated	3	4	0.1619 Haryana Government Khanakast Kurda Singh aka Kurda S/o Hardeva Gair Maurusi	
				146//	1/2	Govt.	Irrigated	0	9	0.0228 Haryana Govt. Khanakast Niydar Singh Dharma Ss/o Narayan, Smt. Bharpai
				2/1/1	Govt.	Irrigated	0	11	0.0278 Omrakash, Chandrabhan Ss/o Taale Malkan kabaza Bhanwar Singh etc. Munadaraj Khewat no-589/569	
				2/1/3	Private	Irrigated	1	10	0.0759 Satpal Singh, Shamsher Singh Ss/o Om Parkash, Dara Singh, Samundra Singh, Pawan Kumar Ss/o Chandrabhan	
				2/2	Private	Irrigated	2	4	0.1113 Haryana Govt. Khanakast Om Parkash, Chandra Bhan Ss/o Taale S/o Bholar Gair Maurusiyan	
				3	Private	Irrigated	0	11	0.0278 Smt. Bharto Wd/o and Banveer, Jagveer, Satbeer, Rajbeer Ss/o and Smt. Vedo, Beermati Ds/o Ranbeer Singh, Balbeer Singh, Mahaveer Singh Ss/o Gulab Singh	
				8/1	Private	Irrigated	1	19	0.0986 Balwant Singh S/o Jug Lal	
				8/2/2	Govt.	Irrigated	1	3	0.0582 Haryana Govt. Khanakast Om Parkash, Chandra Bhan Ss/o Taale S/o Bholar Gair Maurusiyan	
				9/1/1	Private	Irrigated	0	1	0.0025 Surajmal S/o Taaleram, Malkan kabaza Smt. Jantari D/o Taaleram, Jile Singh, Balawant Singh Ss/o Risala, Bhanwar Singh etc. Munadaraj Khewat no- 589/569	
				9/1/2	Private	Irrigated	0	19	0.0481 Surajmal S/o Taaleram, Malkan kabaza Smt. Jantari D/o Taaleram, Jile Singh, Balawant Singh Ss/o Risala	
				9/3	Govt.	Irrigated	0	15	0.0379 Satpal Singh, Shamsher Singh Ss/o Om Parkash, Dara Singh, Samundra Singh, Pawan Kumar Ss/o Chandrabhan	
				12/1/2	Private	Irrigated	0	14	0.0354 Surajmal S/o Taaleram, Malkan kabaza Smt. Jantari D/o Taaleram, Jile Singh, Balawant Singh Ss/o Risala, Bhanwar Singh etc. Munadaraj Khewat no- 589/569	
				13/1/1	Private	Irrigated	0	9	0.0228 Satpal Singh, Shamsher Singh Ss/o Om Parkash, Dara Singh, Samundra Singh, Pawan Kumar Ss/o Chandrabhan	
				13/1/3	Private	Irrigated	0	19	0.0481 Surajmal S/o Taaleram, Malkan kabaza Smt. Jantari D/o Taaleram, Jile Singh, Balawant Singh Ss/o Risala	
				13/2	Private	Irrigated	0	12	0.0504 Satpal Singh, Shamsher Singh Ss/o Om Parkash, Dara Singh, Samundra Singh, Pawan Kumar Ss/o Chandrabhan	
				19	Private	Irrigated	2	3	0.0076 Surajmal S/o Taaleram, Malkan kabaza Smt. Jantari D/o Taaleram, Jile Singh, Balawant Singh Ss/o Risala, Bhanwar Singh etc. Munadaraj Khewat no- 589/569	
Total of Village							147	16	7.4766	

[F. No. NHA/PIU-Rohtak/Rohtak-Jind/LA/12-13/Rohtak]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.